

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 38/409**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3719	7.79	60.36	14.58	0.6855
2	3712	3.62	58.65	13.52	0.2871
3	3761	4.48	65.42	13.39	0.3924
4	3783	7.69	61.46	14.24	0.6729
5	3786	4.2	58.43	13.85	0.3398
6	3705	9.14	59.96	13.11	0.7184
7	3765	4.54	65.04	12.70	0.3750
8	3799	7.31	55.67	13.11	0.5336
9	3754	3.91	64.53	12.07	0.3046
10	3704	4.77	58.99	15.68	0.4412
11	3763	4.66	67.16	10.93	0.3420
12	3737	3.68	66.30	12.11	0.2955
13	3767	4.49	68.83	12.77	0.3947
14	3800	3.42	55.29	15.12	0.2859
15	3732	4.55	67.82	12.53	0.3868
16	3703	7.29	66.26	12.36	0.5971
17	3708	3.7	62.76	13.94	0.3237
18	3731	7.59	69.40	11.56	0.6087
19	3759	4.83	73.99	10.89	0.3893
20	3764	4.05	64.15	13.39	0.3479
21	3727	4.49	70.63	11.82	0.3749
22	3755	4.82	64.98	13.11	0.4107
23	3762	7.99	62.33	13.08	0.6512
24	3774	7.31	60.53	13.84	0.6126
25	3735	7.31	61.95	13.75	0.6228
26	3791	3.28	47.21	15.59	0.2414
27	3747	3.61	65.66	14.29	0.3386
28	3779	9	58.71	14.31	0.7560
29	3753	4.54	54.98	15.10	0.3768
30	3772	3.75	64.94	13.69	0.3334
31	3778	7.54	60.85	15.41	0.7073
32	3706	7.69	57.70	14.68	0.6513
33	3796	6.8	63.95	13.18	0.5732
34	3744	5	66.45	13.83	0.4595
35	3773	7.71	59.63	13.10	0.6022
36	3701	4.71	60.53	14.90	0.4248
37	3777	7.82	66.13	14.97	0.7742
38	3729	3.77	58.21	14.79	0.3246
39	3789	4.34	58.75	13.11	0.3342
40	3743	4.7	56.04	15.19	0.4000
41	3758	7.69	68.37	12.11	0.6367
42	3739	3.76	68.73	13.69	0.3538

43	3722	4.54	70.42	13.18	0.4213
44	3770	9.74	64.78	12.43	0.7841
45	3794	6.47	46.71	11.67	0.3526
46	3745	4.88	67.18	10.63	0.3484
47	3711	4.53	69.54	11.10	0.3497
48	3718	7.55	61.96	11.30	0.5285
49	3740	4.87	66.10	11.12	0.3579
50	3725	8.34	66.53	12.22	0.6780
51	3741	4.42	66.37	12.96	0.3801
52	3771	4.03	66.14	13.34	0.3554
53	3713	4.35	60.01	12.66	0.3306
54	3726	4.7	70.26	11.33	0.3741
55	3782	3.69	62.08	11.95	0.2738
56	3723	3.78	65.53	13.28	0.3289
57	3720	4.65	62.96	12.10	0.3543
58	3788	3.68	51.04	13.83	0.2598
59	3717	3.71	68.85	12.14	0.3102
60	3721	4.84	67.17	12.49	0.4061
61	3757	3.75	65.15	14.08	0.3439
62	3785	6.08	44.23	14.90	0.4007
63	3790	3.84	59.60	14.50	0.3318
64	3749	4.81	58.76	14.53	0.4108
65	3768	4.66	52.56	15.43	0.3779
66	3792	6.82	54.75	15.45	0.5770
67	3730	7.11	57.95	14.65	0.6036
68	3780	3.74	58.29	14.98	0.3265
69	3752	7.66	58.53	14.81	0.6641
70	3784	1.3	57.25	15.34	0.1141
71	3707	4.56	63.03	14.63	0.4204
72	3756	7.6	62.65	12.80	0.6095
73	3781	4.45	67.01	13.88	0.4138
74	3736	4.09	50.80	14.04	0.2916
75	3734	4.64	63.27	12.57	0.3689
76	3793	4.36	49.45	13.61	0.2934
77	3787	6.84	60.02	14.01	0.5752
78	3760	4.41	65.42	14.55	0.4198
79	3724	4.88	60.27	13.17	0.3875
80	3742	4.66	64.04	13.35	0.3984
81	3728	3.73	59.14	11.18	0.2466
82	3766	4.71	60.95	12.32	0.3537
83	3738	8.28	62.56	11.35	0.5879
84	3776	7.74	66.20	12.69	0.6502
85	3746	4.56	65.13	14.42	0.4282
86	3795	4.2	48.87	10.07	0.2066
87	3748	4.77	67.92	11.51	0.3730
88	3751	4.61	63.30	12.45	0.3633
89	3769	4.59	70.90	12.48	0.4062

90	3709	4.59	67.92	9.86	0.3075
91	3710	4.44	64.21	11.87	0.3383
92	3797	4.12	50.57	11.31	0.2357
93	3714	4.77	68.29	10.81	0.3520
94	3716	8.05	64.15	9.76	0.5039
95	3733	3.81	60.71	11.66	0.2697
96	3715	3.99	67.92	9.84	0.2665
97	3798	3.52	59.71	12.64	0.2658
98	3750	4.53	66.10	11.60	0.3475
99	3702	9.39	65.25	11.54	0.7071
100	3775	4.05	66.37	12.22	0.3285

Date: 31.08.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 29/337**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2832	7.61	45.29	11.19	0.3858
2	2825	3.74	57.96	10.96	0.2375
3	2900	5.04	58.04	11.15	0.3261
4	2839	4.45	59.73	13.18	0.3502
5	2840	6.17	50.15	14.42	0.4461
6	2812	3.65	69.23	12.08	0.3051
7	2841	6.39	48.81	12.21	0.3808
8	2881	7.88	41.68	12.31	0.4042
9	2847	4.19	52.04	11.99	0.2615
10	2835	3.01	48.22	12.09	0.1755
11	2860	6.85	48.76	11.07	0.3699
12	2871	3.64	48.26	12.70	0.2231
13	2819	3.61	62.94	11.60	0.2635
14	2891	4.09	63.44	12.14	0.3149
15	2879	3.81	53.38	11.30	0.2297
16	2848	6.66	38.64	16.07	0.4136
17	2852	6.12	42.88	14.95	0.3923
18	2842	6.48	48.93	14.84	0.4704
19	2869	6.16	43.81	14.15	0.3819
20	2804	3.81	64.17	13.79	0.3372
21	2844	5.9	40.18	16.87	0.4000
22	2890	4.3	60.40	12.65	0.3285
23	2873	6.27	39.54	15.53	0.3850
24	2849	4.35	44.68	15.69	0.3049
25	2897	4.19	62.44	13.28	0.3474
26	2882	3.13	44.03	16.56	0.2282
27	2807	7.57	55.02	12.18	0.5072
28	2859	6.35	49.24	10.30	0.3219
29	2884	6.98	58.75	14.25	0.5842
30	2831	6.57	43.24	17.39	0.4941
31	2830	3.77	60.20	12.34	0.2801
32	2802	3.77	63.59	12.44	0.2982
33	2801	4.69	64.40	12.48	0.3771
34	2853	6.19	43.96	13.67	0.3720
35	2880	3.97	50.45	13.30	0.2664
36	2845	3.9	47.24	13.42	0.2473
37	2828	4.1	62.15	11.76	0.2997
38	2808	4.46	68.41	12.81	0.3907
39	2896	7.04	65.50	10.90	0.5027
40	2826	3.91	64.55	13.26	0.3347
41	2899	9.26	61.38	13.08	0.7436
42	2836	4.1	48.10	13.70	0.2702

43	2851	6.78	46.59	10.97	0.3465
44	2822	3.49	54.89	11.95	0.2289
45	2857	6.27	54.01	11.72	0.3969
46	2803	4.11	66.13	12.19	0.3313
47	2878	3.29	54.11	10.26	0.1826
48	2837	3.56	56.48	13.21	0.2656
49	2875	6.23	50.09	12.80	0.3993
50	2846	3.54	50.62	12.01	0.2152
51	2874	3.84	35.93	13.67	0.1885
52	2893	7.55	53.13	11.76	0.4719
53	2864	3.62	52.38	12.91	0.2447
54	2843	6.53	47.05	13.50	0.4147
55	2827	4.3	64.30	12.72	0.3517
56	2834	3.91	53.30	12.20	0.2541
57	2872	3.19	42.41	13.23	0.1790
58	2816	4.13	72.40	12.68	0.3791
59	2821	7.48	58.00	12.97	0.5625
60	2858	6.54	57.69	13.02	0.4912
61	2889	4.37	61.56	12.18	0.3278
62	2856	6.8	54.87	11.55	0.4311
63	2886	6.68	60.01	12.16	0.4876
64	2862	4.1	47.95	11.80	0.2321
65	2866	7.86	45.17	12.71	0.4512
66	2892	4.22	59.35	14.05	0.3519
67	2855	4.26	44.58	16.89	0.3208
68	2820	4.52	55.16	14.96	0.3729
69	2870	3.62	43.56	16.74	0.2639
70	2813	3.54	52.12	13.12	0.2421
71	2861	7.64	49.17	15.46	0.5806
72	2877	5.81	58.18	13.63	0.4607
73	2887	7.39	49.76	15.23	0.5602
74	2854	5.8	36.35	16.12	0.3399
75	2850	4.09	52.65	14.99	0.3227
76	2833	2.74	39.53	15.94	0.1726
77	2894	4.33	56.88	13.87	0.3416
78	2883	6.86	41.81	14.33	0.4109
79	2895	3.53	59.50	14.34	0.3011
80	2824	4.22	52.51	16.32	0.3617
81	2809	3.51	56.03	11.24	0.2211
82	2806	7.48	61.01	12.52	0.5715
83	2865	3.63	50.22	12.90	0.2352
84	2815	3.75	62.39	12.95	0.3030
85	2867	6.4	47.12	12.54	0.3782
86	2863	3.66	54.83	13.00	0.2610
87	2805	3.81	57.29	12.27	0.2678
88	2868	4.19	58.61	13.50	0.3314
89	2829	3.59	56.03	13.40	0.2696

90	2898	4.22	59.12	14.34	0.3579
91	2818	3.83	60.83	13.27	0.3091
92	2888	7.54	63.45	12.51	0.5987
93	2810	4.24	60.28	12.13	0.3099
94	2885	7.62	58.53	12.56	0.5601
95	2811	4.39	57.57	12.94	0.3271
96	2817	4.72	57.90	13.61	0.3719
97	2876	6.74	56.42	13.38	0.5089
98	2838	7.02	44.21	15.81	0.4907
99	2814	3.78	64.27	14.36	0.3489
100	2823	4.31	48.97	13.68	0.2888

Date: 03.09.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 36/375**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3564	5.95	50.73	12.81	0.3867
2	3505	3.62	58.89	10.27	0.2190
3	3570	3.93	37.79	13.15	0.1953
4	3582	4.57	61.70	11.65	0.3286
5	3573	3.82	45.05	12.87	0.2216
6	3584	4.19	49.59	12.62	0.2623
7	3551	3.65	66.06	12.31	0.2967
8	3501	4.6	64.62	10.96	0.3257
9	3574	4.09	51.45	14.25	0.2998
10	3544	3.57	59.86	12.71	0.2717
11	3506	7.86	55.65	13.42	0.5871
12	3522	4.51	62.72	13.36	0.3779
13	3563	3.47	62.61	14.12	0.3067
14	3525	3.76	59.32	13.33	0.2974
15	3518	4.38	58.26	14.35	0.3662
16	3543	7.32	57.55	14.27	0.6010
17	3598	4.26	53.26	13.56	0.3076
18	3568	3.95	51.28	16.13	0.3267
19	3514	7.19	64.56	13.49	0.6262
20	3556	6.8	62.75	15.06	0.6426
21	3552	3.68	67.20	11.92	0.2948
22	3600	4.37	53.28	11.19	0.2605
23	3572	6.88	44.83	10.75	0.3316
24	3565	3.91	51.29	12.60	0.2526
25	3520	4.3	64.81	12.42	0.3461
26	3528	7.28	64.86	11.86	0.5598
27	3537	3.97	65.82	11.96	0.3124
28	3532	7.32	66.56	12.58	0.6127
29	3567	6.53	67.58	13.01	0.5740
30	3583	4.19	59.20	11.44	0.2837
31	3578	4.29	55.36	12.64	0.3003
32	3562	2.86	57.27	13.99	0.2291
33	3523	7.18	58.28	12.41	0.5191
34	3590	8.41	60.38	11.46	0.5820
35	3545	4.37	68.00	11.97	0.3557
36	3507	6.99	58.00	12.97	0.5256
37	3541	3.47	64.71	12.05	0.2707
38	3517	4.41	61.93	12.45	0.3400
39	3599	6.79	60.18	11.02	0.4502
40	3538	3.86	62.65	11.21	0.2710
41	3530	4.45	65.72	12.74	0.3725
42	3504	8.36	55.43	12.39	0.5743

43	3588	4.35	58.85	13.56	0.3471
44	3557	7.2	56.40	13.79	0.5602
45	3503	6.93	53.32	15.70	0.5800
46	3597	8.17	51.04	13.77	0.5744
47	3502	4.06	50.56	14.70	0.3017
48	3536	6.56	65.23	13.38	0.5727
49	3531	4.37	61.35	13.20	0.3540
50	3589	8.58	62.45	13.61	0.7293
51	3549	3.8	59.20	14.44	0.3249
52	3554	7.35	60.51	12.26	0.5454
53	3540	3.6	62.49	12.27	0.2761
54	3511	3.49	61.43	12.27	0.2631
55	3515	4.29	66.82	11.76	0.3372
56	3571	7.81	47.25	13.38	0.4936
57	3575	4.08	49.67	13.35	0.2705
58	3534	8.62	67.99	12.13	0.7111
59	3513	4.36	58.73	12.06	0.3087
60	3576	4.14	53.23	13.04	0.2873
61	3529	4.47	56.10	13.19	0.3308
62	3587	3.57	62.85	13.91	0.3120
63	3585	3.71	63.36	14.36	0.3376
64	3548	4.33	63.94	13.40	0.3711
65	3559	3.66	52.00	14.87	0.2829
66	3555	4.18	65.07	14.20	0.3862
67	3592	8.47	56.00	13.30	0.6310
68	3569	7.07	44.74	16.85	0.5331
69	3519	4.48	61.50	13.85	0.3817
70	3516	4.46	59.09	12.66	0.3336
71	3561	3.02	60.94	12.83	0.2362
72	3553	7.26	65.93	12.60	0.6033
73	3546	3.7	63.23	13.08	0.3060
74	3547	6.86	62.27	10.68	0.4562
75	3594	7.11	50.84	10.94	0.3953
76	3593	4.15	54.43	12.60	0.2847
77	3566	4.2	59.93	12.15	0.3058
78	3512	3.87	64.69	12.88	0.3224
79	3591	8.44	63.35	12.23	0.6541
80	3550	3.47	62.39	12.71	0.2752
81	3595	5.31	46.67	13.73	0.3404
82	3581	4.08	57.85	14.61	0.3448
83	3535	3.62	55.65	14.90	0.3001
84	3521	3.67	66.19	14.53	0.3531
85	3527	8.29	58.10	13.56	0.6533
86	3596	3.19	51.28	13.24	0.2166
87	3579	4.22	66.67	13.68	0.3849
88	3508	8.28	63.41	13.26	0.6963
89	3580	6.97	58.64	15.19	0.6210



90	3509	3.7	52.16	13.75	0.2653
91	3510	7.16	68.67	10.09	0.4962
92	3524	3.54	67.16	10.60	0.2520
93	3586	4.25	63.33	11.31	0.3043
94	3560	3.43	61.06	12.84	0.2689
95	3539	3.65	75.30	12.67	0.3482
96	3526	4.35	66.49	11.28	0.3262
97	3533	3.61	57.91	13.14	0.2747
98	3542	4.32	66.45	10.90	0.3128
99	3577	3.16	51.46	12.86	0.2092
100	3558	3.48	58.79	12.60	0.2579

**Name of Division : Mandsaur-II**

**Challan No. : 37/408**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3610	3.59	58.70	13.39	0.2822
2	3646	3.16	64.45	14.68	0.2989
3	3638	3.4	69.79	13.24	0.3142
4	3607	3.54	66.14	12.10	0.2832
5	3670	4.39	56.30	10.87	0.2687
6	3671	3.44	64.74	14.40	0.3206
7	3694	7.31	56.95	13.49	0.5614
8	3631	7.23	69.44	13.09	0.6572
9	3685	3.6	55.37	12.66	0.2524
10	3692	4.42	55.57	14.02	0.3443
11	3611	3.41	63.99	13.19	0.2878
12	3619	3.89	59.39	13.87	0.3205
13	3690	4.57	57.72	14.00	0.3693
14	3664	4.26	68.72	13.23	0.3872
15	3652	3.62	61.15	13.12	0.2903
16	3699	4.75	53.88	13.96	0.3572
17	3691	7.39	59.16	12.81	0.5602
18	3641	7.16	63.32	14.94	0.6773
19	3665	3.68	46.52	16.55	0.2834
20	3632	3.71	62.80	14.84	0.3458
21	3657	3.54	63.38	11.98	0.2687
22	3684	4.34	66.02	11.74	0.3363
23	3669	4.21	54.80	13.05	0.3010
24	3621	4.65	59.17	12.37	0.3404
25	3668	4.37	64.09	12.67	0.3548
26	3602	7.01	57.02	10.87	0.4346
27	3673	4.31	59.01	12.69	0.3228
28	3601	4.13	62.56	10.58	0.2734
29	3680	4.49	54.34	12.27	0.2995
30	3679	4.16	58.19	12.85	0.3112
31	3676	6.96	51.01	12.19	0.4329
32	3650	3.5	52.71	13.58	0.2506
33	3686	3.78	73.42	14.23	0.3950

34	3651	7.12	66.83	12.60	0.5995
35	3659	4.12	64.56	11.68	0.3106
36	3675	3.5	64.68	14.24	0.3224
37	3698	4.74	65.54	12.76	0.3963
38	3608	7.41	56.90	11.88	0.5009
39	3682	4.16	62.97	12.28	0.3216
40	3688	3.55	51.26	11.65	0.2119
41	3649	3.2	52.21	14.15	0.2365
42	3625	4.34	54.97	12.55	0.2995
43	3616	7.4	56.84	13.56	0.5705
44	3647	3.48	63.42	13.99	0.3087
45	3634	3.44	57.77	15.79	0.3137
46	3654	3.55	49.69	14.75	0.2602
47	3687	4.23	52.16	14.93	0.3295
48	3628	3.75	61.39	13.34	0.3071
49	3648	3.44	63.43	15.26	0.3330
50	3615	7.57	54.59	15.00	0.6200
51	3636	3.38	71.41	13.39	0.3231
52	3609	7.25	59.75	11.85	0.5133
53	3617	4.59	65.75	12.67	0.3823
54	3612	7.27	63.07	12.91	0.5918
55	3630	3.36	57.06	13.16	0.2523
56	3637	3.46	55.23	11.14	0.2128
57	3663	4.25	56.72	12.89	0.3107
58	3613	7.26	59.39	12.95	0.5583
59	3618	3.69	48.46	12.71	0.2273
60	3624	4.27	63.29	12.62	0.3412
61	3606	3.78	48.83	15.52	0.2865
62	3662	4.26	55.06	15.35	0.3600
63	3661	3.54	54.89	14.50	0.2818
64	3658	7.07	74.12	13.29	0.6964
65	3604	7.2	55.88	13.28	0.5342
66	3629	4.47	59.55	13.22	0.3518
67	3700	4.69	59.01	13.32	0.3686
68	3689	4.08	54.71	13.51	0.3015
69	3667	4.19	49.55	12.59	0.2615
70	3643	3.55	53.20	15.51	0.2929
71	3681	3.34	49.51	13.35	0.2208
72	3697	3.79	61.64	11.76	0.2748
73	3693	4.34	62.00	12.52	0.3368
74	3696	4.71	61.07	13.20	0.3796
75	3605	4.02	56.40	13.19	0.2991
76	3640	8.65	69.12	13.40	0.8010
77	3656	4.32	57.99	12.85	0.3218
78	3677	3.67	56.86	12.24	0.2554
79	3639	4.34	71.30	11.15	0.3450
80	3653	3.58	48.00	13.73	0.2359

81	3622	3.81	55.32	15.91	0.3353
82	3642	3.59	54.54	15.40	0.3016
83	3620	3.45	52.62	12.54	0.2277
84	3695	4.49	51.91	14.12	0.3291
85	3678	3.32	48.78	13.69	0.2218
86	3683	4.2	53.19	13.24	0.2957
87	3626	3.68	55.65	11.61	0.2377
88	3635	8.13	64.33	13.23	0.6919
89	3645	8.99	55.16	14.83	0.7354
90	3627	3.28	52.73	14.93	0.2581
91	3623	4.31	63.99	12.88	0.3551
92	3644	8.52	62.85	12.19	0.6526
93	3660	3.37	62.37	12.84	0.2699
94	3674	3.53	58.87	13.25	0.2753
95	3633	3.64	70.41	13.01	0.3334
96	3666	3.65	59.04	12.03	0.2592
97	3603	4.28	50.15	11.37	0.2440
98	3655	4.34	57.78	13.48	0.3381
99	3672	4.28	66.93	12.33	0.3531
100	3614	7.12	59.96	12.16	0.5190

Date: 02.09.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 06/33**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	528	3.45	58.66	13.54	0.2739
2	546	4.16	49.85	12.38	0.2567
3	593	7.03	60.42	12.63	0.5364
4	535	6.77	55.68	8.51	0.3209
5	538	4.44	56.54	10.15	0.2549
6	566	7.37	59.84	12.38	0.5461
7	577	7.75	64.53	12.09	0.6045
8	553	4.54	52.87	12.43	0.2983
9	518	7.93	56.35	12.90	0.5765
10	596	7.05	45.99	12.76	0.4138
11	501	3.48	51.20	13.03	0.2321
12	570	4.39	64.82	11.52	0.3279
13	573	3.9	52.35	9.91	0.2024
14	562	8.51	66.53	10.78	0.6102
15	574	4.18	59.15	12.14	0.3001
16	557	7.06	59.93	13.38	0.5662
17	551	4.46	57.17	10.44	0.2663
18	584	6.98	55.01	9.07	0.3483
19	526	4.36	59.35	10.41	0.2694
20	563	7.31	59.67	11.33	0.4942
21	576	7.19	51.31	14.32	0.5285
22	524	4.32	55.62	13.74	0.3300
23	579	8.57	58.05	13.44	0.6685
24	534	4.17	49.60	13.71	0.2836
25	529	4.77	57.38	14.22	0.3892
26	541	4.94	46.76	15.89	0.3670
27	515	3.8	54.11	14.27	0.2934
28	521	7.22	51.77	14.04	0.5249
29	569	3.51	53.97	13.47	0.2552
30	548	8.62	45.57	16.52	0.6491
31	544	6.61	44.40	13.92	0.4085
32	578	8.39	46.51	14.38	0.5613
33	589	7.29	50.26	14.46	0.5300
34	533	8.96	61.20	13.09	0.7177
35	542	8.52	49.57	12.85	0.5427
36	536	4.26	50.84	13.47	0.2918
37	599	3.71	51.00	14.16	0.2679
38	582	8.48	54.38	14.73	0.6792
39	568	7.4	48.03	15.78	0.5609
40	585	3.59	53.21	14.87	0.2840
41	516	3.64	61.52	13.78	0.3087
42	505	8.99	58.87	13.16	0.6967

43	540	3.63	54.98	12.68	0.2530
44	554	8.5	51.95	10.16	0.4488
45	594	4.16	61.06	12.71	0.3228
46	583	7.12	56.80	11.62	0.4699
47	590	4.01	45.11	11.86	0.2145
48	560	8.68	58.69	11.23	0.5720
49	502	3.66	63.52	11.29	0.2624
50	575	8.47	54.91	13.29	0.6183
51	586	7.05	55.46	14.42	0.5640
52	572	4.45	50.86	15.20	0.3440
53	504	8.68	53.67	16.10	0.7500
54	510	3.68	61.53	11.78	0.2668
55	552	8.38	45.94	13.84	0.5330
56	545	4.05	43.43	15.52	0.2730
57	517	3.69	49.10	16.09	0.2915
58	525	7.49	50.53	15.00	0.5677
59	561	4.62	50.73	13.90	0.3257
60	539	7.24	45.11	16.38	0.5350
61	503	3.76	65.28	12.07	0.2963
62	523	3.61	57.37	12.58	0.2606
63	592	4.05	61.50	11.79	0.2936
64	597	3.65	54.41	10.51	0.2088
65	555	3.53	57.82	11.24	0.2295
66	559	6.97	59.95	11.54	0.4823
67	591	8.38	45.38	12.43	0.4726
68	530	4.05	54.03	12.23	0.2677
69	511	3.58	69.25	11.28	0.2796
70	600	7.25	55.07	10.75	0.4292
71	587	7.09	43.51	17.26	0.5325
72	571	4.2	50.69	14.52	0.3091
73	519	3.64	46.05	16.66	0.2792
74	549	6.85	50.32	15.08	0.5199
75	565	7.1	42.91	15.89	0.4842
76	598	7.21	46.59	15.48	0.5198
77	520	3.69	53.86	15.82	0.3144
78	507	6.75	56.32	14.29	0.5434
79	558	8.48	46.11	15.18	0.5936
80	580	7.3	49.14	13.06	0.4687
81	514	3.72	60.76	15.52	0.3508
82	567	7.3	52.55	15.11	0.5796
83	543	8.23	51.58	15.74	0.6683
84	532	4.52	49.47	15.16	0.3390
85	527	4.72	63.51	12.30	0.3686
86	506	3.84	54.45	13.87	0.2899
87	513	7.12	56.77	15.66	0.6330
88	531	7.16	48.98	15.35	0.5384
89	595	7	48.30	14.31	0.4837

90	588	7.31	44.42	14.34	0.4656
91	564	4.2	60.35	12.86	0.3259
92	581	6.79	62.16	12.37	0.5222
93	547	7.49	56.77	11.15	0.4741
94	556	4.32	61.85	9.52	0.2544
95	522	3.56	61.96	12.54	0.2766
96	512	7.65	65.04	12.47	0.6204
97	550	4.53	54.16	11.26	0.2763
98	509	3.51	56.49	12.69	0.2517
99	537	4.17	53.89	11.13	0.2502
100	508	8.63	50.03	12.55	0.5420

**Name of Division : Mandsaur-II**

**Challan No. : 13/148**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1214	8.33	59.99	13.59	0.6789
2	1282	4.26	71.31	12.13	0.3685
3	1297	7.23	64.01	13.04	0.6037
4	1239	7	51.57	15.73	0.5677
5	1257	4.5	47.05	15.03	0.3181
6	1210	9.35	59.65	14.22	0.7929
7	1249	7.35	61.22	14.72	0.6622
8	1267	4.34	61.41	13.35	0.3559
9	1209	9.29	59.98	14.09	0.7850
10	1212	8.51	66.57	13.88	0.7863
11	1271	9.16	64.52	10.71	0.6330
12	1202	7.79	69.07	13.15	0.7073
13	1225	4.53	60.72	13.82	0.3801
14	1270	4.47	61.04	12.21	0.3330
15	1204	7.49	63.05	13.07	0.6172
16	1208	8.55	65.95	12.01	0.6772
17	1277	4.55	63.83	9.96	0.2894
18	1223	7.32	62.32	12.52	0.5710
19	1228	7.32	59.32	12.34	0.5358
20	1226	7.37	61.16	13.62	0.6139
21	1240	4.44	57.50	12.16	0.3104
22	1294	3.63	62.77	13.62	0.3104
23	1254	4.55	68.76	13.23	0.4141
24	1291	4.52	64.27	12.81	0.3720
25	1246	4.6	64.55	11.06	0.3284
26	1231	4.33	54.92	14.33	0.3408
27	1289	3.87	61.36	13.62	0.3235
28	1244	4.2	53.95	12.60	0.2856
29	1266	4.54	63.29	13.76	0.3954
30	1221	8.74	66.44	13.35	0.7752
31	1288	4.41	61.81	13.75	0.3749
32	1265	7.1	64.46	13.48	0.6170
33	1207	9.06	62.85	12.01	0.6840
34	1232	7.58	64.31	13.64	0.6648
35	1245	4.28	63.04	12.74	0.3437
36	1233	4.42	54.03	13.38	0.3196

37	1283	8.84	66.01	14.12	0.8239
38	1219	4.31	62.84	12.67	0.3431
39	1263	4.61	67.86	13.85	0.4333
40	1264	4.53	49.63	13.84	0.3112
41	1293	4.44	58.88	12.72	0.3326
42	1256	7.54	59.85	10.44	0.4712
43	1253	4.4	64.43	12.20	0.3458
44	1285	7.33	61.17	11.98	0.5373
45	1227	4.47	68.45	12.78	0.3911
46	1299	3.72	56.31	13.28	0.2783
47	1268	4.47	71.74	13.17	0.4224
48	1213	9.24	63.03	10.96	0.6385
49	1229	8.6	62.02	12.96	0.6914
50	1230	8.82	59.88	11.04	0.5830
51	1296	4.29	43.44	15.06	0.2806
52	1242	7.45	59.80	13.01	0.5796
53	1292	8.79	54.90	13.52	0.6522
54	1222	8.74	49.51	14.02	0.6066
55	1234	7.24	51.37	11.99	0.4460
56	1241	4.41	51.06	14.16	0.3188
57	1279	7.15	58.98	13.84	0.5834
58	1284	3.59	66.85	12.80	0.3073
59	1255	4.53	53.78	13.87	0.3379
60	1287	7.26	61.93	13.61	0.6120
61	1260	7.4	61.41	14.92	0.6778
62	1273	4.29	64.32	15.00	0.4140
63	1251	4.4	52.28	14.12	0.3247
64	1243	7.46	53.09	14.07	0.5573
65	1259	7.23	54.92	13.82	0.5488
66	1278	7.06	62.71	14.10	0.6241
67	1261	4.26	60.67	13.28	0.3434
68	1247	7.3	49.82	12.93	0.4701
69	1220	4.13	57.50	14.90	0.3539
70	1295	7.44	53.68	14.12	0.5640
71	1215	8.76	65.71	13.94	0.8024
72	1281	7.02	67.38	14.54	0.6880
73	1298	3.99	60.09	12.58	0.3016
74	1248	7	60.30	13.67	0.5768
75	1269	4.39	68.71	14.45	0.4359
76	1276	4.35	67.06	13.33	0.3889
77	1250	4.67	54.29	12.49	0.3166
78	1275	7.67	63.20	11.91	0.5776
79	1252	7.4	56.75	11.95	0.5017
80	1237	4.31	66.00	12.53	0.3564
81	1203	8.5	60.60	13.28	0.6843
82	1300	4.41	53.44	13.70	0.3228
83	1211	4.53	44.11	14.69	0.2935
84	1235	4.91	57.73	13.18	0.3737
85	1280	4.46	52.64	13.83	0.3247
86	1218	7.38	49.81	14.03	0.5159

87	1205	7.23	59.70	15.53	0.6702
88	1274	8.47	61.90	15.51	0.8131
89	1236	7.39	60.88	15.06	0.6777
90	1258	7.22	55.25	13.52	0.5393
91	1286	4.38	66.47	13.84	0.4030
92	1262	6.38	65.09	12.86	0.5340
93	1290	3.59	67.15	12.79	0.3084
94	1217	6.68	54.09	14.40	0.5204
95	1216	7.14	63.10	12.20	0.5498
96	1238	4.57	67.35	12.53	0.3857
97	1206	7.32	57.32	13.19	0.5534
98	1224	3.64	62.03	10.99	0.2482
99	1272	7.39	72.45	12.51	0.6695
100	1201	8.95	69.02	13.33	0.8234

**Name of Division : Mandsaur-II**

**Challan No. : 15/204**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1464	8.74	48.70	16.10	0.6852
2	1495	7.62	50.15	15.99	0.6111
3	1401	4.14	63.79	14.00	0.3697
4	1442	8.1	45.88	16.19	0.6018
5	1496	7.24	52.09	14.99	0.5654
6	1413	7.32	58.30	14.84	0.6332
7	1489	8.32	56.80	14.95	0.7064
8	1429	3.85	56.81	15.23	0.3330
9	1497	7.3	56.04	15.36	0.6285
10	1459	4.2	44.62	16.67	0.3125
11	1441	3.41	51.22	12.61	0.2203
12	1490	3.5	58.25	11.64	0.2373
13	1453	4.22	52.29	11.74	0.2591
14	1414	4.19	61.88	12.96	0.3360
15	1457	7.03	40.15	12.33	0.3480
16	1484	3.63	61.25	14.11	0.3136
17	1406	7.29	59.13	14.00	0.6036
18	1443	7.62	46.73	8.50	0.3025
19	1481	7.43	58.89	13.40	0.5862
20	1421	3.5	59.71	12.44	0.2600
21	1466	6.82	56.36	11.28	0.4338
22	1491	7.13	61.85	12.59	0.5554
23	1454	7.11	57.51	10.42	0.4259
24	1410	7.81	57.77	12.50	0.5639
25	1408	7.33	57.21	12.79	0.5366
26	1445	6.07	50.21	10.93	0.3332
27	1472	3.72	67.17	13.82	0.3452
28	1418	3.6	67.15	12.75	0.3082
29	1473	4.37	65.56	14.83	0.4248
30	1456	6.27	42.95	11.87	0.3198
31	1478	7.19	56.95	11.94	0.4889
32	1467	7.15	47.89	13.16	0.4505
33	1492	6.7	66.58	12.48	0.5568



34	1498	3.55	60.23	13.37	0.2858
35	1412	7.56	48.50	13.36	0.4899
36	1449	6.78	51.66	11.17	0.3912
37	1452	4.29	40.83	11.85	0.2076
38	1405	4.49	49.64	11.46	0.2555
39	1422	4.4	58.12	13.49	0.3450
40	1419	4.39	62.74	13.23	0.3644
41	1428	3.43	53.32	13.58	0.2483
42	1462	4.66	58.48	11.20	0.3052
43	1493	3.53	62.62	11.71	0.2587
44	1487	3.8	65.09	13.27	0.3283
45	1458	3.94	35.11	11.85	0.1639
46	1460	4.29	58.52	12.87	0.3230
47	1431	4.13	47.56	10.47	0.2057
48	1409	4.42	63.69	11.60	0.3266
49	1417	3.87	61.41	13.11	0.3115
50	1465	4.26	49.86	13.20	0.2803
51	1483	3.77	58.93	14.75	0.3276
52	1446	3.63	40.80	13.41	0.1986
53	1470	7.04	53.39	12.91	0.4851
54	1434	4.53	50.30	14.19	0.3234
55	1426	4.47	45.75	15.21	0.3111
56	1451	5.75	39.90	13.73	0.3151
57	1415	4.17	53.00	11.45	0.2531
58	1447	8.61	42.81	13.45	0.4959
59	1448	4.02	45.44	13.20	0.2412
60	1455	6.96	47.23	14.78	0.4858
61	1438	4.85	44.40	11.44	0.2464
62	1469	3.5	41.11	15.15	0.2181
63	1440	6.13	48.24	11.75	0.3476
64	1423	3.71	41.17	13.70	0.2092
65	1468	7.17	41.36	12.86	0.3814
66	1476	8.56	63.80	13.20	0.7208
67	1494	8.16	61.70	13.73	0.6912
68	1439	7.08	34.22	12.30	0.2981
69	1500	4.43	53.23	13.04	0.3074
70	1416	4.27	44.74	16.50	0.3151
71	1499	7.6	55.57	12.04	0.5084
72	1402	8.74	55.38	11.99	0.5803
73	1407	8.3	64.25	12.81	0.6831
74	1411	6.99	64.67	12.90	0.5830
75	1480	7.11	68.74	13.22	0.6463
76	1479	3.5	58.51	14.08	0.2884
77	1488	8.74	65.50	11.53	0.6599
78	1463	8.14	54.99	12.07	0.5405
79	1477	8.68	65.67	13.78	0.7855
80	1482	7.12	67.98	11.97	0.5796
81	1486	3.64	64.36	10.99	0.2573
82	1427	6.98	54.87	14.51	0.5556
83	1461	6.63	55.00	12.02	0.4382

84	1437	7.35	52.78	14.23	0.5520
85	1425	4.42	51.03	13.44	0.3032
86	1433	3.78	54.30	14.38	0.2952
87	1436	7.5	59.04	15.13	0.6698
88	1430	7.32	52.00	14.52	0.5527
89	1403	3.67	65.27	13.67	0.3274
90	1444	3.56	45.45	12.98	0.2100
91	1485	7.08	63.60	14.56	0.6556
92	1450	7.09	62.06	11.44	0.5034
93	1432	7.49	50.59	12.47	0.4726
94	1404	3.61	50.23	11.81	0.2141
95	1471	7.07	56.30	12.40	0.4935
96	1420	3.58	55.49	12.42	0.2467
97	1475	3.87	57.47	13.40	0.2980
98	1435	3.75	44.60	10.40	0.1740
99	1424	4.24	68.51	10.58	0.3074
100	1474	3.63	66.12	12.42	0.2980

**Name of Division : Mandsaur-II**

**Challan No. : 34/373**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3313	4.2	65.26	11.98	0.3284
2	3352	3.53	70.27	12.49	0.3099
3	3387	3.23	71.98	10.20	0.2371
4	3336	7.36	64.13	9.45	0.4460
5	3303	3.68	63.17	13.61	0.3165
6	3356	3.18	64.04	11.37	0.2315
7	3394	3.02	53.62	14.10	0.2283
8	3381	2.92	60.79	13.41	0.2380
9	3345	7.96	60.23	12.65	0.6066
10	3396	3.26	58.38	14.56	0.2771
11	3376	2.88	50.64	11.26	0.1642
12	3318	7.28	63.98	12.14	0.5657
13	3358	2.82	59.77	12.36	0.2084
14	3347	7.58	59.90	11.84	0.5374
15	3325	4.19	60.95	12.55	0.3205
16	3337	3.84	61.71	12.15	0.2880
17	3359	3.5	56.88	12.41	0.2471
18	3375	3.01	63.31	14.82	0.2823
19	3377	3.27	58.74	12.97	0.2492
20	3364	3.63	65.39	12.28	0.2915
21	3360	3.45	51.92	16.37	0.2932
22	3330	7.05	50.18	16.34	0.5781
23	3374	2.92	61.51	14.92	0.2681
24	3385	3.53	47.68	15.12	0.2545
25	3382	2.67	43.24	16.00	0.1848
26	3361	7.27	58.98	14.41	0.6179
27	3390	3.56	60.38	13.85	0.2976
28	3316	6.91	71.72	14.93	0.7401
29	3388	3.19	50.90	15.87	0.2578
30	3343	7.22	50.33	15.12	0.5494

31	3322	4.4	61.75	13.86	0.3766
32	3332	4.13	70.77	13.64	0.3985
33	3301	8.43	57.08	15.52	0.7469
34	3340	4.24	49.10	16.17	0.3367
35	3367	3.54	50.18	15.92	0.2828
36	3335	4.18	47.24	16.43	0.3244
37	3384	1.51	49.41	14.81	0.1105
38	3399	3.03	60.14	14.35	0.2615
39	3341	3.83	37.56	17.04	0.2451
40	3398	3.34	55.56	14.02	0.2602
41	3393	2.98	59.90	14.71	0.2625
42	3305	4.44	60.40	13.05	0.3499
43	3309	4.36	71.73	12.21	0.3819
44	3320	7.31	57.05	12.55	0.5234
45	3397	3.16	58.30	13.70	0.2525
46	3380	3.22	65.31	12.79	0.2689
47	3373	3.35	60.44	13.70	0.2774
48	3379	3.36	56.22	13.61	0.2570
49	3315	3.95	55.04	12.55	0.2729
50	3366	3.51	53.08	13.06	0.2432
51	3310	4.19	56.25	15.66	0.3691
52	3389	3.36	47.69	16.67	0.2671
53	3311	3.64	56.10	14.53	0.2967
54	3312	4.31	59.37	15.26	0.3905
55	3331	4.48	63.19	15.03	0.4256
56	3371	3.23	60.77	15.11	0.2965
57	3327	4.17	60.12	14.27	0.3578
58	3346	7.67	37.39	17.01	0.4878
59	3334	7.08	51.34	14.14	0.5140
60	3338	3.46	48.39	15.73	0.2633
61	3344	3.54	68.00	12.06	0.2903
62	3365	3.21	57.89	13.84	0.2571
63	3333	8.43	63.15	10.70	0.5699
64	3362	3.19	68.48	12.53	0.2737
65	3370	3.71	65.16	12.14	0.2935
66	3321	7.24	57.62	12.46	0.5198
67	3349	3.33	74.96	11.90	0.2970
68	3319	4.33	68.01	11.92	0.3512
69	3326	7.79	67.20	12.02	0.6294
70	3395	3.45	59.49	13.08	0.2684
71	3353	3.32	50.37	16.14	0.2699
72	3351	2.86	54.17	16.73	0.2591
73	3368	3.38	55.05	15.84	0.2947
74	3378	3.42	51.18	14.99	0.2623
75	3317	4.13	59.80	14.63	0.3614
76	3372	3.57	54.41	14.08	0.2735
77	3308	4.37	69.02	14.43	0.4353
78	3329	6.81	60.34	15.74	0.6470
79	3350	2.94	65.00	11.83	0.2261
80	3348	3.57	52.08	15.13	0.2813

81	3302	4.42	64.75	12.08	0.3456
82	3314	4.11	49.61	13.81	0.2815
83	3392	2.96	54.59	14.93	0.2412
84	3342	4.11	61.29	13.54	0.3411
85	3369	3.6	54.16	14.07	0.2743
86	3354	3.55	57.98	16.26	0.3348
87	3328	4.13	59.78	14.75	0.3643
88	3339	3.71	48.00	16.69	0.2972
89	3386	3.15	52.97	16.80	0.2804
90	3357	3.46	57.70	14.56	0.2906
91	3324	4.38	55.08	12.38	0.2987
92	3391	3.39	60.53	14.27	0.2929
93	3383	3.32	64.61	13.88	0.2978
94	3306	4.42	60.32	12.10	0.3227
95	3323	7.27	63.42	12.87	0.5932
96	3363	3.4	73.14	13.02	0.3237
97	3400	2.16	57.63	13.78	0.1715
98	3355	3.24	67.53	12.91	0.2825
99	3307	7.33	59.42	11.95	0.5204
100	3304	3.68	69.94	10.85	0.2793

**Name of Division : Mandsaur-II**

**Challan No. : 44/436**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4312	1.58	64.19	9.81	0.0995
2	4340	7.33	65.59	13.20	0.6348
3	4370	4.49	65.48	12.68	0.3727
4	4373	4.16	62.73	13.02	0.3399
5	4304	4.09	62.24	12.10	0.3080
6	4325	2.88	64.21	9.58	0.1771
7	4376	4.43	57.72	14.03	0.3588
8	4361	7.23	54.04	13.18	0.5148
9	4313	3.12	54.26	11.32	0.1916
10	4324	4.24	59.01	9.49	0.2374
11	4341	7.87	63.39	11.94	0.5958
12	4364	4.16	67.74	13.52	0.3811
13	4371	7.42	67.82	13.08	0.6582
14	4338	3.58	55.67	10.76	0.2144
15	4389	7.09	59.87	13.11	0.5566
16	4354	3.73	61.32	13.52	0.3092
17	4307	3.52	53.25	10.80	0.2024
18	4360	3.62	54.61	13.09	0.2588
19	4358	3.83	59.28	11.93	0.2708
20	4337	3.87	59.34	10.62	0.2438
21	4383	3.68	55.61	14.69	0.3007
22	4353	4.41	57.53	15.00	0.3806
23	4384	3.66	60.00	15.32	0.3364
24	4379	4.26	43.45	18.02	0.3336
25	4375	7.31	67.90	15.20	0.7544
26	4398	4.01	55.55	14.31	0.3188
27	4306	6.65	46.36	15.79	0.4868

28	4310	4.06	47.20	17.01	0.3260
29	4319	4.33	59.18	14.67	0.3758
30	4392	4.52	47.34	15.00	0.3209
31	4317	3.25	47.82	15.64	0.2431
32	4359	3.77	63.24	14.01	0.3340
33	4395	4.61	37.48	17.58	0.3038
34	4346	4.15	52.64	12.86	0.2810
35	4391	4.34	53.74	16.10	0.3754
36	4345	4.5	57.47	13.78	0.3564
37	4374	3.99	58.27	13.94	0.3240
38	4328	3.36	37.22	15.88	0.1986
39	4333	1.86	57.87	8.81	0.0949
40	4382	3.62	53.51	13.31	0.2577
41	4377	4.24	55.80	13.66	0.3231
42	4369	4.47	61.54	13.65	0.3755
43	4390	4.32	54.52	12.53	0.2951
44	4305	7.21	63.31	12.78	0.5833
45	4321	6.11	63.35	13.12	0.5077
46	4357	4.28	61.95	13.16	0.3488
47	4394	4	51.21	12.32	0.2524
48	4323	3.81	56.97	13.29	0.2884
49	4327	1.28	68.03	11.82	0.1029
50	4399	7.44	50.39	12.24	0.4590
51	4315	3.15	56.78	14.99	0.2681
52	4339	3.31	44.39	14.98	0.2201
53	4332	6.87	54.15	14.42	0.5365
54	4314	3.51	53.98	16.88	0.3198
55	4368	3.49	60.58	14.99	0.3169
56	4303	6.99	50.41	12.93	0.4557
57	4385	4.81	44.66	17.89	0.3843
58	4380	3.97	57.99	16.57	0.3815
59	4365	4.28	49.13	16.65	0.3501
60	4362	3.82	55.77	15.08	0.3213
61	4363	4.48	64.79	12.36	0.3588
62	4308	6.11	57.94	9.48	0.3354
63	4331	2.29	60.12	10.51	0.1447
64	4355	3.71	73.70	11.53	0.3153
65	4396	4.48	60.61	12.75	0.3463
66	4386	9.81	57.52	11.93	0.6730
67	4356	3.71	64.81	11.71	0.2816
68	4309	2.73	51.45	10.42	0.1463
69	4351	4.62	62.72	14.29	0.4140
70	4348	7.3	63.44	13.08	0.6059
71	4311	1.54	49.58	18.09	0.1381
72	4367	3.64	61.05	13.76	0.3058
73	4326	3.94	51.18	12.78	0.2577
74	4320	6.36	55.07	15.67	0.5489
75	4342	4.44	58.85	15.06	0.3934
76	4316	3.99	55.50	16.13	0.3571
77	4343	4.18	65.29	14.89	0.4063

78	4344	4.15	54.06	14.98	0.3362
79	4318	5.26	58.11	13.56	0.4145
80	4334	6.25	54.36	13.98	0.4750
81	4387	4.48	50.28	15.16	0.3414
82	4388	3.91	62.06	13.95	0.3386
83	4336	3.72	40.98	16.81	0.2563
84	4347	3.65	48.15	14.10	0.2478
85	4400	7.02	43.49	14.42	0.4402
86	4397	3.69	58.52	13.43	0.2900
87	4322	2.99	40.23	15.71	0.1890
88	4349	3.74	53.98	14.89	0.3007
89	4378	8.29	58.60	15.39	0.7478
90	4366	4.26	59.46	14.77	0.3740
91	4352	3.59	64.56	13.21	0.3062
92	4330	3.34	52.78	11.03	0.1944
93	4393	7.24	60.24	12.67	0.5524
94	4329	1.89	61.61	13.10	0.1525
95	4381	4.42	62.15	12.26	0.3368
96	4335	6.76	44.66	14.35	0.4333
97	4302	4.33	66.72	13.28	0.3836
98	4301	4.47	65.90	12.76	0.3759
99	4350	4.5	64.94	12.47	0.3645
100	4372	3.3	62.79	13.87	0.2874

Date: 01.09.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 21/271**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2099	7.44	61.73	11.81	0.5424
2	2045	3.59	65.85	11.63	0.2750
3	2065	3.65	66.23	13.74	0.3322
4	2068	7.2	68.19	13.43	0.6595
5	2018	3.53	55.18	14.01	0.2729
6	2008	7.27	63.67	13.71	0.6347
7	2078	7.75	59.12	12.23	0.5603
8	2024	3.67	61.91	11.86	0.2694
9	2084	8.06	59.18	12.50	0.5964
10	2032	7.09	58.93	12.74	0.5325
11	2088	8.9	46.93	14.66	0.6123
12	2055	9.18	57.66	14.33	0.7583
13	2006	6.27	46.42	15.83	0.4608
14	2014	4.31	52.67	15.17	0.3444
15	2059	8.46	56.30	14.87	0.7081
16	2058	8.56	61.55	13.91	0.7327
17	2097	7.53	60.61	14.14	0.6453
18	2061	7.16	65.68	13.37	0.6286
19	2053	4.78	61.91	12.03	0.3561
20	2050	8.79	65.97	13.55	0.7858
21	2007	7.72	66.87	12.79	0.6601
22	2016	8.63	67.25	14.20	0.8242
23	2082	7.56	57.98	13.85	0.6071
24	2064	9.2	59.60	13.17	0.7222
25	2043	3.72	54.11	13.51	0.2719
26	2013	7.03	67.71	14.37	0.6840
27	2066	4.32	59.31	10.69	0.2739
28	2071	4.91	56.97	11.76	0.3290
29	2042	7.26	55.18	14.48	0.5801
30	2023	3.31	62.77	14.93	0.3101
31	2072	3.92	63.81	13.56	0.3391
32	2094	4.05	64.31	14.59	0.3799
33	2035	6.53	57.03	14.69	0.5472
34	2020	3.61	54.53	14.84	0.2920
35	2027	7.2	42.16	17.24	0.5234
36	2031	3.52	41.64	17.12	0.2510
37	2039	7.31	61.87	13.90	0.6287
38	2021	3.76	50.23	15.89	0.3000
39	2051	9.35	54.79	13.67	0.7003
40	2001	8.78	53.67	14.42	0.6796
41	2036	4.44	62.93	13.16	0.3676
42	2030	6.55	49.99	15.02	0.4919

43	2019	3.65	56.01	14.71	0.3008
44	2092	9.36	62.00	13.08	0.7591
45	2034	8.69	66.70	13.36	0.7743
46	2063	3.85	69.36	12.17	0.3249
47	2005	8.51	73.21	12.79	0.7965
48	2029	7.45	64.10	14.10	0.6735
49	2075	8.11	68.76	13.12	0.7315
50	2038	3.92	76.50	11.52	0.3454
51	2073	4.01	72.96	11.58	0.3388
52	2087	8.71	64.19	12.70	0.7099
53	2052	7.36	66.22	12.43	0.6057
54	2025	6.48	75.50	13.23	0.6474
55	2046	3.95	68.40	12.53	0.3385
56	2044	3.96	51.96	15.13	0.3113
57	2089	9.5	61.60	12.21	0.7144
58	2077	3.77	55.42	13.51	0.2824
59	2022	3.67	61.51	12.88	0.2907
60	2017	3.72	55.29	14.69	0.3021
61	2086	8.49	60.94	14.00	0.7242
62	2010	4.22	53.09	14.45	0.3237
63	2033	3.52	55.53	14.66	0.2865
64	2048	3.96	58.76	11.86	0.2760
65	2047	3.8	56.37	13.78	0.2953
66	2095	3.68	57.30	16.25	0.3426
67	2079	7.21	41.37	17.36	0.5177
68	2083	3.92	49.23	14.40	0.2779
69	2011	7.18	40.52	17.37	0.5055
70	2054	9.41	49.98	14.63	0.6879
71	2009	7.36	43.24	15.15	0.4821
72	2004	9.11	50.05	14.07	0.6413
73	2062	8.87	62.90	14.10	0.7868
74	2074	4.58	56.72	14.99	0.3893
75	2090	3.65	58.52	13.72	0.2931
76	2096	6.95	58.60	13.57	0.5525
77	2085	9.52	68.52	12.49	0.8149
78	2076	4.47	58.47	13.73	0.3589
79	2028	4.48	56.34	13.84	0.3494
80	2002	7.76	65.29	12.54	0.6355
81	2069	7.5	65.90	12.34	0.6098
82	2093	8.95	54.08	13.11	0.6346
83	2091	3.82	73.81	11.83	0.3335
84	2012	4.22	51.31	13.97	0.3026
85	2070	7.61	59.63	12.21	0.5540
86	2026	3.47	54.45	14.67	0.2773
87	2056	8.49	63.92	13.09	0.7106
88	2080	9.5	56.96	12.80	0.6925
89	2041	7.36	53.48	14.57	0.5733



90	2015	7.47	66.77	13.09	0.6529
91	2049	3.81	59.03	12.04	0.2709
92	2060	3.91	66.29	11.34	0.2940
93	2067	7.51	68.82	12.53	0.6474
94	2040	7.31	63.98	12.33	0.5768
95	2057	8.42	67.26	12.31	0.6972
96	2003	3.84	67.31	14.01	0.3621
97	2081	3.69	56.70	13.16	0.2753
98	2037	3.86	66.86	13.49	0.3482
99	2100	3.72	66.06	14.23	0.3497
100	2098	7.61	69.44	11.92	0.6301

**Name of Division : Mandsaur-II**

**Challan No. : 30/338**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2911	7.34	62.52	13.00	0.5967
2	2920	7.55	54.47	12.83	0.5277
3	2938	4.23	66.06	13.70	0.3828
4	2949	8.4	62.68	10.66	0.5611
5	2985	3.53	56.88	13.38	0.2686
6	2926	4.32	59.31	12.75	0.3266
7	2935	7.97	52.85	12.20	0.5141
8	2933	3.54	71.15	10.85	0.2733
9	2965	7.19	54.19	10.39	0.4048
10	2917	3.59	59.39	12.86	0.2743
11	2908	4.38	55.13	14.29	0.3451
12	2955	7.28	56.85	12.54	0.5191
13	2973	3.92	53.60	14.55	0.3058
14	2987	7.04	49.57	12.81	0.4470
15	2918	3.51	58.60	14.45	0.2973
16	2963	3.54	56.54	13.69	0.2740
17	2939	9.09	49.36	15.05	0.6754
18	2905	4.13	55.26	14.57	0.3325
19	2950	3.67	52.79	14.89	0.2885
20	2927	3.33	52.12	17.38	0.3017
21	2981	6.9	53.33	14.40	0.5299
22	2907	3.6	53.91	15.80	0.3067
23	2962	3.11	58.22	14.62	0.2647
24	2919	8.87	58.18	14.32	0.7389
25	2902	7	58.67	14.57	0.5985
26	2945	7.05	56.00	14.21	0.5612
27	2936	4.2	48.05	16.19	0.3268
28	2984	7.07	52.35	14.36	0.5317
29	2942	9.33	54.66	13.90	0.7091
30	2983	7.94	50.36	10.60	0.4240
31	2925	3.35	57.57	14.85	0.2864
32	2923	7.17	52.73	16.92	0.6396
33	2915	3.63	52.39	14.77	0.2810
34	2989	6.78	53.25	14.12	0.5099
35	2969	3.59	54.42	14.08	0.2750
36	2995	4.14	38.16	15.36	0.2426

37	2924	7.14	50.34	16.37	0.5883
38	2966	6.77	53.94	12.22	0.4461
39	2947	8.78	60.29	11.51	0.6093
40	2930	3.72	54.29	14.44	0.2916
41	2941	3.75	58.33	12.43	0.2719
42	2948	7.57	65.02	12.67	0.6238
43	2922	6.96	60.70	12.41	0.5241
44	2937	4.37	64.04	12.95	0.3623
45	2990	4.25	69.11	13.21	0.3880
46	2904	4.79	68.72	12.11	0.3985
47	2946	3.65	72.17	11.72	0.3088
48	2954	7.02	65.40	12.46	0.5721
49	2960	3.53	63.86	12.07	0.2722
50	2972	6.02	65.04	12.38	0.4846
51	2944	7.58	63.56	13.40	0.6458
52	2909	4.62	64.62	13.71	0.4093
53	2992	6.97	49.70	13.14	0.4551
54	2980	4.44	57.48	12.87	0.3286
55	2953	4.27	49.40	14.92	0.3147
56	3000	3.84	49.01	13.87	0.2611
57	2914	9.41	54.67	13.43	0.6907
58	2971	8.19	46.83	14.99	0.5749
59	2956	6.93	52.07	14.12	0.5094
60	2952	3.78	62.42	12.70	0.2998
61	2994	3.98	39.66	15.38	0.2428
62	2976	4.05	40.89	15.09	0.2499
63	2932	3.7	48.69	15.47	0.2786
64	2959	2.9	40.61	16.15	0.1902
65	2975	1.97	36.70	15.40	0.1113
66	2977	3.42	38.89	16.10	0.2141
67	2979	3.72	49.72	15.04	0.2783
68	2964	4.37	62.88	13.12	0.3605
69	2903	4.59	50.30	14.29	0.3300
70	2991	4.18	52.73	12.74	0.2809
71	2912	3.78	56.97	13.67	0.2945
72	2940	9.62	64.10	12.20	0.7523
73	2974	4.29	59.93	11.36	0.2921
74	2970	4.64	52.83	13.38	0.3280
75	2951	7.2	70.26	12.89	0.6523
76	2929	4.43	55.94	12.82	0.3176
77	2978	4.03	42.21	11.92	0.2027
78	2934	7.56	51.02	12.45	0.4801
79	2996	4.15	45.72	9.93	0.1884
80	2921	3.74	55.83	12.14	0.2536
81	2967	4.47	52.74	10.79	0.2543
82	2906	4.13	59.81	12.99	0.3209
83	2968	3.88	61.07	12.02	0.2848
84	2943	8.92	55.07	11.42	0.5611
85	2982	4.12	55.19	10.91	0.2480
86	2988	4.42	58.93	11.49	0.2992

87	2931	4.22	61.20	11.54	0.2979
88	2910	3.73	61.10	11.41	0.2600
89	2901	5	60.56	11.61	0.3515
90	2916	3.77	59.62	13.03	0.2929
91	2961	3.78	55.43	14.29	0.2994
92	2997	4.28	48.27	13.22	0.2731
93	2986	6.16	64.67	7.19	0.2864
94	2928	7.22	70.26	12.01	0.6094
95	2913	3.67	68.92	11.97	0.3028
96	2957	4.01	66.58	12.57	0.3356
97	2958	7.58	58.74	12.51	0.5571
98	2993	3.32	45.61	14.84	0.2248
99	2999	3.71	46.12	12.71	0.2174
100	2998	4.06	50.84	11.19	0.2310

**Name of Division : Mandsaur-II**

**Challan No. : 41/412**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4085	3.77	51.84	15.70	0.3069
2	4074	3.38	56.53	15.02	0.2870
3	4053	3.87	52.87	12.69	0.2597
4	4037	4.28	67.20	13.76	0.3959
5	4093	3.65	52.52	13.90	0.2665
6	4075	4.29	54.20	14.67	0.3411
7	4032	7.11	44.48	13.58	0.4294
8	4076	3.6	53.70	16.00	0.3092
9	4011	7.18	55.05	15.48	0.6117
10	4058	3.57	56.80	14.07	0.2852
11	4024	4.09	64.02	14.37	0.3763
12	4010	4.2	67.08	13.60	0.3830
13	4073	7.34	57.46	11.75	0.4954
14	4055	4.21	66.58	12.66	0.3549
15	4039	4.32	73.36	11.35	0.3599
16	4099	7.17	56.05	13.24	0.5320
17	4095	3.65	66.22	12.38	0.2993
18	4081	3.67	55.66	13.47	0.2753
19	4029	4.28	59.40	12.79	0.3253
20	4089	3.62	69.60	13.49	0.3399
21	4043	8.65	63.11	14.83	0.8096
22	4045	3.68	49.61	14.01	0.2558
23	4026	3.56	45.78	15.81	0.2577
24	4004	6.2	63.44	12.70	0.4997
25	4054	4.23	62.41	14.92	0.3938
26	4060	6.54	59.47	13.89	0.5402
27	4031	3.47	51.46	14.13	0.2523
28	4019	4.26	57.98	14.28	0.3527
29	4001	6.81	61.28	12.12	0.5060
30	4035	3.46	48.66	14.16	0.2384
31	4008	7.24	51.70	14.70	0.5502
32	4070	4.19	62.27	15.51	0.4048
33	4051	3.61	53.92	16.26	0.3166

34	4013	4.12	57.01	15.52	0.3646
35	4006	3.97	56.46	13.85	0.3105
36	4057	7.33	60.82	14.58	0.6502
37	4052	7.61	65.23	14.73	0.7313
38	4056	4.17	52.76	14.95	0.3290
39	4034	4	38.17	16.74	0.2556
40	4012	4.29	48.88	15.12	0.3170
41	4049	4.35	62.79	12.01	0.3280
42	4038	7.3	69.78	12.30	0.6263
43	4007	4.21	67.73	12.68	0.3616
44	4069	4.33	63.28	12.80	0.3507
45	4021	4.13	60.64	12.91	0.3234
46	4094	4.14	60.53	13.38	0.3353
47	4050	4.33	55.81	11.07	0.2676
48	4077	3.41	60.53	11.22	0.2315
49	4030	3.74	65.37	11.66	0.2850
50	4020	3.47	70.19	12.57	0.3061
51	4046	4.05	60.60	12.74	0.3127
52	4022	3.92	48.04	13.78	0.2595
53	4017	4.26	61.12	14.04	0.3655
54	4092	8.79	55.19	11.54	0.5599
55	4072	3.67	57.92	12.83	0.2727
56	4078	7.37	61.85	10.49	0.4783
57	4068	3.68	59.64	12.73	0.2793
58	4005	3.94	59.33	13.13	0.3069
59	4014	7.02	69.43	10.72	0.5223
60	4036	7.46	55.30	12.44	0.5132
61	4063	4.33	55.45	15.49	0.3719
62	4025	4.24	52.00	15.52	0.3422
63	4042	4.27	53.77	14.79	0.3395
64	4084	4.22	54.73	16.23	0.3747
65	4009	4.22	63.90	15.32	0.4131
66	4098	8.29	73.74	14.17	0.8663
67	4015	3.55	53.04	15.29	0.2879
68	4016	3.21	49.89	15.53	0.2488
69	4018	3.49	52.72	14.26	0.2624
70	4061	4.25	53.67	15.71	0.3583
71	4003	3.92	60.88	12.35	0.2948
72	4066	7.38	62.46	13.27	0.6118
73	4059	4.52	67.03	13.87	0.4204
74	4090	4.1	58.46	14.69	0.3522
75	4065	3.71	45.39	14.89	0.2508
76	4086	4.01	58.99	14.44	0.3417
77	4041	7.26	59.26	13.18	0.5670
78	4079	3.47	57.35	14.47	0.2880
79	4062	4.39	57.50	14.31	0.3613
80	4080	4.31	57.07	14.98	0.3685
81	4067	4.28	61.97	12.30	0.3261
82	4091	4.22	63.15	13.22	0.3524
83	4071	3.54	60.63	11.86	0.2545

84	4040	6.98	63.53	9.07	0.4020
85	4100	8.21	61.99	13.73	0.6987
86	4096	9.08	59.36	11.93	0.6429
87	4097	3.8	62.55	11.93	0.2835
88	4083	3.7	55.96	12.79	0.2649
89	4033	3.8	54.84	11.94	0.2489
90	4047	3.6	66.11	10.18	0.2423
91	4088	3.53	62.81	11.38	0.2524
92	4087	4.2	66.79	10.53	0.2953
93	4064	3.5	61.53	11.20	0.2412
94	4044	7.43	52.21	11.13	0.4317
95	4082	7.11	67.67	12.03	0.5788
96	4027	4.28	57.13	12.46	0.3047
97	4002	3.94	64.15	11.94	0.3018
98	4048	6.83	57.76	10.70	0.4221
99	4023	3.03	59.43	11.16	0.2009
100	4028	7.28	60.20	11.18	0.4899

**Name of Division : Mandsaur-II**

**Challan No. : 42/434**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4183	3.8	56.39	10.05	0.2155
2	4139	9.17	52.75	13.18	0.6373
3	4188	7.56	53.01	12.94	0.5186
4	4174	3.8	52.32	11.81	0.2348
5	4138	4.27	63.05	11.91	0.3207
6	4107	4.22	58.70	9.51	0.2355
7	4156	4.16	61.33	11.43	0.2916
8	4170	4.06	57.21	9.88	0.2294
9	4121	3.26	59.87	12.06	0.2354
10	4153	3.86	51.31	12.45	0.2467
11	4179	3.84	54.63	13.97	0.2930
12	4187	4.34	56.78	14.97	0.3689
13	4168	6.79	45.28	11.95	0.3673
14	4182	4.2	52.64	15.81	0.3494
15	4127	7.29	55.22	13.02	0.5242
16	4143	4.37	56.12	12.94	0.3173
17	4155	4.2	46.33	14.38	0.2797
18	4164	4.1	58.13	9.50	0.2263
19	4184	3.55	65.62	14.61	0.3404
20	4186	7.36	52.12	13.89	0.5329
21	4172	4.33	38.28	14.03	0.2325
22	4160	3.86	44.37	16.16	0.2768
23	4106	6.97	45.49	14.46	0.4586
24	4122	8.55	47.19	15.98	0.6447
25	4166	3.77	60.59	13.04	0.2978
26	4162	3.74	49.99	14.66	0.2741
27	4132	3.71	48.51	16.49	0.2968
28	4126	6.41	46.93	15.43	0.4641
29	4147	4.05	55.15	15.12	0.3378
30	4178	3.72	64.83	10.30	0.2485

31	4137	3.76	44.11	15.85	0.2628
32	4148	3.73	53.04	15.27	0.3021
33	4173	3.54	60.62	14.98	0.3214
34	4116	7.79	55.75	15.25	0.6621
35	4193	7.65	52.13	14.66	0.5845
36	4133	3.1	45.19	14.18	0.1987
37	4108	3.34	47.77	15.91	0.2538
38	4140	7.05	46.01	16.30	0.5287
39	4123	7.22	50.58	14.57	0.5321
40	4171	3.59	43.51	15.15	0.2366
41	4149	7.01	58.59	11.81	0.4851
42	4176	7.24	56.08	9.72	0.3946
43	4157	3.97	51.22	11.69	0.2378
44	4102	3.96	52.29	12.66	0.2622
45	4165	4.21	64.05	10.84	0.2922
46	4189	4.44	65.73	13.77	0.4018
47	4200	3.63	61.90	13.02	0.2926
48	4195	3.7	61.50	11.54	0.2627
49	4124	3.48	63.57	12.40	0.2742
50	4131	4.08	60.25	11.88	0.2921
51	4180	7.4	52.93	15.06	0.5898
52	4196	3.54	64.23	13.23	0.3009
53	4158	3.93	53.84	13.48	0.2853
54	4118	4.23	58.22	12.59	0.3101
55	4154	4.04	50.96	13.42	0.2763
56	4161	4.42	51.71	14.04	0.3209
57	4125	4.24	59.05	13.78	0.3451
58	4146	3.92	47.66	13.30	0.2485
59	4199	3.6	54.58	11.95	0.2347
60	4111	3.03	45.02	17.57	0.2397
61	4134	7.12	49.93	13.88	0.4934
62	4142	3.15	49.00	14.04	0.2167
63	4120	9.01	48.65	13.94	0.6109
64	4191	3.85	57.90	14.73	0.3284
65	4167	3.98	50.86	13.04	0.2639
66	4141	3.49	49.69	14.73	0.2555
67	4129	7.41	59.14	13.75	0.6024
68	4144	4.21	52.70	13.02	0.2888
69	4159	4.03	53.03	14.93	0.3192
70	4104	6.56	57.94	13.98	0.5314
71	4114	3.81	51.04	12.75	0.2480
72	4136	3.53	49.19	12.42	0.2157
73	4112	3.67	52.43	14.06	0.2705
74	4163	3.86	59.38	13.12	0.3007
75	4198	4.68	63.75	12.38	0.3693
76	4181	4.3	53.69	14.17	0.3272
77	4135	3.63	57.32	11.18	0.2327
78	4101	4.24	68.39	13.06	0.3786
79	4109	6.32	54.42	13.91	0.4784
80	4113	3.75	50.85	14.53	0.2771

81	4192	3.61	68.05	12.12	0.2978
82	4175	3.65	58.63	11.91	0.2548
83	4105	3.93	52.73	11.74	0.2433
84	4169	3.79	62.65	12.31	0.2922
85	4150	4.09	58.36	11.14	0.2659
86	4128	4.21	69.07	12.51	0.3637
87	4110	7.1	47.05	11.80	0.3940
88	4177	3.81	47.36	14.23	0.2568
89	4117	9.24	51.32	11.69	0.5544
90	4185	3.54	66.85	13.52	0.3200
91	4152	3.98	61.10	13.08	0.3180
92	4151	7.16	62.66	13.76	0.6172
93	4103	3.8	55.02	14.05	0.2937
94	4130	7.16	66.99	11.88	0.5699
95	4190	3.54	69.76	12.23	0.3020
96	4145	8.28	54.44	11.46	0.5167
97	4119	6.38	64.12	12.94	0.5295
98	4197	3.7	65.42	12.49	0.3023
99	4115	4.41	65.85	15.08	0.4379
100	4194	6.67	74.27	13.60	0.6737

Date: 31.08.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 18/213**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1794	4.42	58.92	14.24	0.3708
2	1709	7.17	62.11	13.70	0.6102
3	1742	7.24	58.91	14.87	0.6342
4	1771	8.81	58.08	14.34	0.7339
5	1735	7.26	57.51	15.09	0.6302
6	1788	7.57	49.79	13.32	0.5019
7	1757	4.49	55.32	13.99	0.3475
8	1734	9.06	56.10	12.66	0.6433
9	1787	7.55	57.37	12.88	0.5579
10	1751	4.61	57.12	12.71	0.3347
11	1762	4.46	61.98	11.46	0.3167
12	1738	8.54	68.71	11.50	0.6747
13	1796	4.21	58.74	13.81	0.3414
14	1786	7.44	70.12	12.09	0.6309
15	1703	4.4	60.61	12.08	0.3221
16	1780	7.16	73.59	11.56	0.6093
17	1770	8.67	67.76	11.73	0.6893
18	1737	4.47	66.15	13.47	0.3983
19	1750	8.19	65.60	13.84	0.7437
20	1706	7.41	62.51	13.44	0.6224
21	1790	4.55	62.86	10.50	0.3003
22	1769	4.37	66.13	9.65	0.2788
23	1784	4.41	64.24	11.83	0.3352
24	1722	3.56	66.57	12.36	0.2930
25	1745	7.29	58.85	11.72	0.5030
26	1744	7.14	67.91	11.96	0.5798
27	1767	7.25	64.33	12.39	0.5778
28	1739	7.25	64.36	11.68	0.5452
29	1759	7.13	68.93	11.36	0.5583
30	1701	4.37	61.64	13.19	0.3553
31	1725	7.47	69.76	11.08	0.5774
32	1752	8.35	65.69	12.33	0.6764
33	1795	4.55	59.82	12.60	0.3431
34	1773	7.29	60.28	12.13	0.5329
35	1774	7.61	72.53	12.82	0.7077
36	1732	3.76	65.25	11.19	0.2745
37	1760	8.52	63.38	10.65	0.5751
38	1756	8.06	63.41	11.45	0.5852
39	1711	4.35	64.07	11.58	0.3228
40	1765	7.1	64.24	12.52	0.5708
41	1731	7.52	65.81	12.25	0.6061
42	1791	7.71	71.57	12.98	0.7163



43	1728	7.43	71.15	11.93	0.6308
44	1763	7.47	77.85	12.47	0.7253
45	1775	8.15	68.45	12.04	0.6716
46	1723	4.37	62.07	12.78	0.3465
47	1702	4.51	65.45	12.07	0.3563
48	1800	8.85	67.11	13.20	0.7841
49	1733	7.36	61.79	12.77	0.5807
50	1720	6.98	56.97	10.53	0.4188
51	1730	4.66	63.13	12.42	0.3653
52	1740	4.17	57.05	12.08	0.2873
53	1724	7.15	68.82	11.78	0.5799
54	1704	8.37	66.68	12.85	0.7173
55	1761	7.64	69.97	12.91	0.6899
56	1766	4.4	67.72	11.71	0.3489
57	1718	4.25	55.83	12.04	0.2856
58	1755	4.46	58.34	11.66	0.3033
59	1721	7.44	65.82	11.82	0.5788
60	1754	8.63	60.08	11.14	0.5773
61	1746	7.1	60.29	14.94	0.6397
62	1753	8.17	56.24	16.68	0.7663
63	1713	9.25	58.14	13.78	0.7409
64	1777	4.31	65.24	14.06	0.3952
65	1798	4.65	58.99	13.99	0.3836
66	1710	4.07	58.42	13.93	0.3313
67	1797	7.07	59.54	13.60	0.5727
68	1716	4.5	56.43	14.80	0.3757
69	1764	7.48	54.24	14.25	0.5782
70	1749	4.07	60.11	12.98	0.3175
71	1789	4.63	62.29	12.01	0.3463
72	1785	7.59	70.06	13.76	0.7317
73	1714	7.7	66.16	13.88	0.7069
74	1707	3.77	56.19	13.92	0.2948
75	1705	9.28	64.12	13.55	0.8064
76	1776	3.55	65.36	14.21	0.3298
77	1779	8.72	62.97	13.86	0.7613
78	1782	4.6	62.46	12.46	0.3579
79	1708	4.49	68.75	12.89	0.3978
80	1799	4.74	54.52	13.59	0.3512
81	1783	7.48	58.26	11.71	0.5101
82	1772	3.55	68.11	12.47	0.3014
83	1781	4.57	69.33	12.71	0.4026
84	1778	4.46	67.85	12.51	0.3787
85	1729	7.1	62.28	12.25	0.5417
86	1727	9	61.06	12.71	0.6984
87	1717	7.63	55.81	11.77	0.5013
88	1747	7.7	62.09	13.45	0.6429
89	1768	8.49	62.89	13.26	0.7081

90	1719	3.71	68.13	11.71	0.2961
91	1748	6.98	64.35	11.90	0.5347
92	1793	8.93	60.28	12.84	0.6912
93	1741	4.24	55.86	11.40	0.2701
94	1792	8.57	69.86	12.67	0.7584
95	1712	7.48	67.92	12.44	0.6321
96	1758	8.82	70.35	12.30	0.7629
97	1736	8.82	70.97	12.88	0.8061
98	1726	7.51	61.45	11.26	0.5197
99	1715	7.32	62.70	11.48	0.5270
100	1743	3.74	64.51	11.78	0.2842

Date: 30.08.2022

**अस्वीकरण:—**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 01/09**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	14	4.53	62.20	13.28	0.3742
2	1	3.99	63.68	13.38	0.3399
3	5	4.42	63.15	12.08	0.3372
4	88	4.35	60.58	14.16	0.3732
5	100	3.81	59.92	14.39	0.3284
6	70	3.32	57.02	12.07	0.2284
7	63	8.34	52.62	12.26	0.5379
8	79	4.83	66.65	12.89	0.4149
9	68	7.74	60.20	13.87	0.6463
10	41	3.59	62.59	13.21	0.2969
11	3	7.31	56.78	13.26	0.5504
12	4	7.38	55.54	14.87	0.6096
13	24	9.01	62.74	14.62	0.8262
14	73	3.67	55.73	14.09	0.2881
15	61	3.28	57.02	14.94	0.2795
16	85	8.26	52.54	14.41	0.6253
17	87	4.67	59.57	12.89	0.3587
18	9	8.44	65.91	14.20	0.7900
19	91	7.16	57.08	13.40	0.5477
20	17	4.65	60.84	13.02	0.3683
21	58	6.37	54.07	10.50	0.3618
22	28	8.33	60.07	11.97	0.5989
23	55	3.53	59.27	12.91	0.2700
24	83	8.3	63.53	12.86	0.6781
25	10	7.29	61.64	13.12	0.5898
26	89	3.72	67.99	11.99	0.3032
27	32	7.64	63.77	12.59	0.6135
28	53	3.42	58.15	12.50	0.2486
29	56	7.01	54.96	12.99	0.5005
30	44	7.3	57.88	13.34	0.5636
31	34	4.47	70.23	11.83	0.3715
32	52	6.9	62.01	13.03	0.5575
33	97	7.36	69.63	13.73	0.7036
34	33	7.4	73.66	13.25	0.7222
35	21	9.28	55.05	12.33	0.6301
36	77	8.81	67.63	12.85	0.7656
37	30	7.13	67.56	12.43	0.5989
38	74	8.58	64.97	12.71	0.7087
39	50	8.12	55.58	11.50	0.5189
40	43	6.73	51.27	13.36	0.4610
41	37	7.54	56.25	14.54	0.6168
42	47	3.46	52.61	13.74	0.2502

43	36	7.26	58.65	13.28	0.5656
44	35	7.37	49.40	14.92	0.5432
45	94	8.95	59.63	13.45	0.7178
46	64	8.37	52.65	15.80	0.6964
47	48	7.1	44.31	16.20	0.5098
48	98	4.31	61.30	13.05	0.3448
49	99	4.21	60.31	14.21	0.3608
50	90	4.66	57.51	13.13	0.3518
51	71	7.63	57.79	12.61	0.5562
52	95	8.92	64.10	10.70	0.6119
53	76	7.31	68.35	12.44	0.6213
54	93	4.19	66.01	13.07	0.3616
55	84	4.27	62.57	15.28	0.4082
56	22	9.1	57.40	13.94	0.7280
57	39	8.06	56.36	13.54	0.6150
58	20	4.3	58.29	12.30	0.3083
59	18	6.35	66.34	12.59	0.5302
60	86	4.54	63.98	13.89	0.4036
61	8	7.48	57.16	13.14	0.5617
62	92	7.27	51.24	14.11	0.5256
63	66	4.01	42.44	15.25	0.2594
64	31	8.78	56.06	14.68	0.7226
65	38	7.31	59.94	13.91	0.6097
66	78	9.07	53.93	13.98	0.6839
67	51	7.63	54.69	14.23	0.5936
68	60	3.5	51.31	13.99	0.2513
69	12	9.11	52.63	14.44	0.6924
70	46	7.86	46.28	15.69	0.5706
71	11	4.53	62.72	13.31	0.3783
72	7	7.54	69.84	12.61	0.6643
73	69	3.09	40.30	13.05	0.1625
74	15	7.49	62.03	10.69	0.4966
75	25	8.9	64.06	11.96	0.6817
76	62	6.87	56.33	12.18	0.4713
77	23	3.74	57.36	14.03	0.3011
78	2	4.11	65.15	12.60	0.3374
79	19	4.34	57.25	12.96	0.3220
80	67	1.65	51.11	11.23	0.0947
81	81	9.25	60.30	14.11	0.7872
82	96	4.64	66.23	13.45	0.4134
83	26	4.56	64.36	11.06	0.3247
84	45	3.28	49.60	11.01	0.1791
85	80	8.21	68.41	12.97	0.7282
86	27	9.2	58.67	11.27	0.6081
87	75	7.71	63.13	12.77	0.6214
88	40	8.5	71.36	11.87	0.7199
89	72	7.25	49.54	12.45	0.4473

90	42	3.46	59.62	11.32	0.2335
91	6	9.03	64.10	14.45	0.8362
92	16	8.98	60.08	15.21	0.8208
93	59	5.73	52.22	14.78	0.4424
94	65	3.11	48.90	14.85	0.2258
95	82	4.53	52.62	14.75	0.3515
96	13	3.97	64.83	14.41	0.3708
97	57	8.05	56.79	15.67	0.7165
98	49	3.51	49.76	16.38	0.2861
99	54	3.97	53.93	15.06	0.3224
100	29	8.7	60.17	15.09	0.7900

**Name of Division : Mandsaur-II**

**Challan No. : 20/215**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1913	7.08	52.33	16.03	0.5940
2	1942	4.04	51.93	16.39	0.3438
3	1955	4.26	56.74	14.87	0.3595
4	1918	4.52	57.92	14.49	0.3792
5	1901	8.42	49.38	15.17	0.6307
6	1929	8.67	52.99	15.55	0.7144
7	1938	3.93	55.00	16.44	0.3553
8	1966	7.16	61.31	15.01	0.6587
9	1971	4.02	59.71	12.53	0.3007
10	1904	3.57	60.96	13.22	0.2877
11	1952	3.81	43.15	15.92	0.2617
12	1976	6.52	53.39	15.27	0.5314
13	1996	7.54	70.36	13.35	0.7080
14	1979	7.04	58.67	13.50	0.5576
15	1921	4.34	50.91	13.91	0.3073
16	1964	8.78	55.36	13.91	0.6761
17	1983	4.29	57.65	14.24	0.3522
18	1917	7.63	55.17	13.32	0.5608
19	1956	7.14	52.98	14.78	0.5591
20	1937	4.13	54.18	15.52	0.3473
21	1936	3.91	49.23	15.11	0.2909
22	1903	7.41	64.23	13.06	0.6217
23	1934	6.68	64.80	15.05	0.6513
24	1967	8.22	57.01	11.96	0.5606
25	1982	4.15	60.90	13.79	0.3486
26	1919	3.96	64.79	12.93	0.3318
27	1939	3.6	53.15	13.77	0.2635
28	1940	7.94	59.12	14.88	0.6987
29	1946	4.07	53.65	11.44	0.2499
30	1973	6.23	62.50	11.50	0.4479
31	1941	4.18	50.51	12.27	0.2592
32	1905	7.33	59.16	11.26	0.4882
33	1954	4.08	48.64	15.09	0.2995
34	1911	3.85	65.79	12.66	0.3207
35	1931	7.1	69.27	13.41	0.6596
36	1920	7.4	55.39	11.37	0.4662

37	1984	6.81	61.40	12.95	0.5414
38	1997	7.52	67.05	11.10	0.5595
39	1925	4.36	57.62	10.76	0.2703
40	1977	6.84	59.51	13.21	0.5376
41	1974	4.15	59.97	10.06	0.2502
42	1924	8.6	59.85	12.90	0.6639
43	1963	4.21	59.59	11.58	0.2905
44	1958	3.28	58.07	14.65	0.2791
45	1916	7.47	59.91	11.47	0.5132
46	1951	4.27	52.61	14.22	0.3194
47	1910	3.5	61.33	12.56	0.2695
48	1959	8.99	67.23	14.23	0.8603
49	1992	7.18	57.58	13.53	0.5593
50	1969	7.42	65.54	13.26	0.6448
51	1928	4.25	57.62	14.18	0.3472
52	1926	7.26	64.74	13.01	0.6113
53	1930	4.27	58.06	15.67	0.3886
54	1907	4.57	57.71	10.67	0.2815
55	1970	3.52	68.97	14.35	0.3485
56	1909	7.07	63.24	11.78	0.5267
57	1975	7.98	59.75	11.10	0.5291
58	1932	7.54	66.36	11.45	0.5730
59	2000	4.47	64.94	13.34	0.3871
60	1953	8.69	66.40	13.69	0.7899
61	1961	8.25	62.68	12.03	0.6220
62	1948	4.27	59.08	12.64	0.3190
63	1923	8.36	66.67	13.30	0.7415
64	1986	4.29	60.31	13.51	0.3496
65	1985	4.19	62.67	10.60	0.2782
66	1981	6.76	61.51	11.12	0.4624
67	1989	3.59	53.40	13.76	0.2639
68	1991	4.43	68.64	13.01	0.3956
69	1995	8.25	58.85	13.75	0.6674
70	1950	3.85	70.38	12.94	0.3507
71	1988	7.01	52.65	12.80	0.4725
72	1947	7.04	50.02	13.89	0.4893
73	1922	7.35	70.45	11.88	0.6152
74	1993	3.83	61.29	11.91	0.2796
75	1994	7.55	53.21	12.61	0.5066
76	1914	8.24	57.05	10.11	0.4754
77	1943	6.93	53.95	14.37	0.5371
78	1906	3.86	61.50	13.54	0.3215
79	1927	7.18	60.77	11.24	0.4904
80	1962	4.16	71.14	11.34	0.3357
81	1945	4	52.04	16.74	0.3484
82	1957	8.38	51.45	16.17	0.6972
83	1960	8.1	55.46	16.26	0.7306
84	1902	4.43	60.42	13.90	0.3721
85	1949	4.29	53.09	15.46	0.3522
86	1944	7.15	53.07	15.17	0.5756

87	1972	4.25	56.33	15.02	0.3596
88	1965	4.11	58.90	15.67	0.3794
89	1978	4.01	59.65	14.23	0.3404
90	1915	6.96	52.40	16.07	0.5860
91	1980	6.95	47.51	16.59	0.5477
92	1990	7.64	56.52	16.15	0.6975
93	1933	6.59	48.79	16.99	0.5463
94	1968	8.54	60.74	14.24	0.7387
95	1935	6.93	46.27	17.27	0.5537
96	1987	3.58	47.05	14.05	0.2366
97	1998	7.36	57.85	13.26	0.5645
98	1912	3.99	58.36	13.26	0.3088
99	1999	4.56	52.31	13.65	0.3256
100	1908	4.48	53.66	14.20	0.3414

**Name of Division : Mandsaur-II**

**Challan No. : 46/469**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4569	4.11	62.48	13.46	0.3457
2	4554	3.48	57.75	11.71	0.2352
3	4518	7.96	47.26	11.93	0.4489
4	4558	3.63	67.12	13.22	0.3220
5	4525	3.89	54.44	13.08	0.2770
6	4509	3.72	64.22	12.43	0.2969
7	4563	4.61	65.02	13.29	0.3983
8	4551	4.12	54.33	11.74	0.2629
9	4539	3.58	64.90	11.26	0.2617
10	4542	3.95	62.80	13.69	0.3397
11	4514	3.75	54.00	14.98	0.3034
12	4568	3.97	57.49	14.51	0.3311
13	4531	6.55	49.91	13.44	0.4395
14	4553	3.68	51.01	16.11	0.3025
15	4592	4.49	54.84	14.42	0.3552
16	4543	3.5	56.25	13.64	0.2684
17	4517	4.52	57.16	13.40	0.3462
18	4596	4.18	57.97	13.96	0.3382
19	4549	3.73	42.35	13.67	0.2160
20	4570	3.82	57.35	14.30	0.3132
21	4588	3.57	52.99	13.44	0.2542
22	4586	3.52	63.04	12.60	0.2795
23	4567	4.12	57.37	13.39	0.3164
24	4597	4.41	44.70	13.06	0.2575
25	4541	3.71	65.76	10.78	0.2630
26	4562	4.33	65.44	12.81	0.3629
27	4510	7.51	62.41	12.31	0.5768
28	4504	7.49	56.70	10.46	0.4442
29	4555	3.68	60.80	11.60	0.2594
30	4512	4.48	53.96	12.03	0.2908
31	4576	3.63	69.15	13.90	0.3488
32	4534	3.89	51.31	12.49	0.2493
33	4582	3.6	61.64	12.33	0.2736

34	4552	8.71	50.93	10.78	0.4782
35	4522	6.57	55.08	10.71	0.3876
36	4572	3.51	51.73	13.36	0.2425
37	4573	4.15	58.23	12.81	0.3096
38	4598	7.01	58.46	14.11	0.5783
39	4593	7.07	58.08	15.20	0.6243
40	4591	4.14	52.77	12.60	0.2753
41	4590	6.86	48.79	15.11	0.5056
42	4564	3.56	56.15	13.87	0.2773
43	4535	6.58	51.59	14.40	0.4889
44	4547	3.81	37.53	15.16	0.2168
45	4530	3.67	41.39	15.83	0.2404
46	4506	3.48	43.83	12.94	0.1973
47	4526	3.9	44.98	13.43	0.2356
48	4578	4.36	43.80	14.93	0.2851
49	4521	3.7	47.86	13.23	0.2342
50	4523	8.27	42.93	15.89	0.5640
51	4520	3.81	63.45	13.03	0.3151
52	4544	3.94	56.23	13.98	0.3097
53	4519	3.89	47.29	11.69	0.2151
54	4584	4.17	55.99	9.73	0.2273
55	4561	4.17	69.21	13.74	0.3966
56	4507	4.2	52.35	14.00	0.3079
57	4503	4.45	54.88	12.43	0.3035
58	4532	6.74	47.72	10.71	0.3444
59	4580	3.85	67.62	12.95	0.3373
60	4556	6.61	50.75	11.65	0.3907
61	4589	3.51	47.12	16.21	0.2682
62	4545	4.08	49.78	14.83	0.3011
63	4548	8.15	43.14	14.09	0.4955
64	4583	4.2	45.34	15.00	0.2856
65	4587	3.64	53.14	14.98	0.2897
66	4540	3.33	53.91	15.08	0.2707
67	4566	4.38	48.11	15.51	0.3267
68	4502	4.15	38.45	18.08	0.2884
69	4581	7.48	49.29	15.40	0.5677
70	4560	3.57	60.40	14.45	0.3117
71	4538	3.53	64.32	12.38	0.2810
72	4536	8.29	50.07	11.06	0.4593
73	4550	5.96	50.47	11.69	0.3516
74	4574	3.59	66.43	13.01	0.3102
75	4537	3.23	60.26	12.53	0.2439
76	4527	3.8	45.08	12.98	0.2223
77	4557	7.12	47.08	11.94	0.4001
78	4579	4.64	68.75	10.72	0.3420
79	4546	3.33	50.67	12.41	0.2095
80	4559	4.18	50.89	12.32	0.2621
81	4571	7.81	65.98	13.13	0.6763
82	4508	7.27	68.61	11.41	0.5692
83	4528	3.76	62.64	12.96	0.3053



84	4585	4.36	52.38	13.46	0.3074
85	4594	4.24	65.49	14.34	0.3981
86	4524	3.8	53.51	12.09	0.2459
87	4511	4.49	72.73	10.90	0.3561
88	4599	4.25	52.63	12.54	0.2805
89	4565	3.57	58.75	12.65	0.2653
90	4595	3.44	55.40	11.93	0.2274
91	4577	3.56	60.64	14.84	0.3204
92	4513	5.27	62.64	15.26	0.5038
93	4505	8.4	56.59	16.06	0.7636
94	4516	3.13	48.42	14.21	0.2153
95	4529	3.62	52.14	14.15	0.2672
96	4575	4.32	55.27	13.68	0.3266
97	4515	3.77	38.71	14.18	0.2070
98	4600	4.11	42.80	16.54	0.2910
99	4533	6.33	49.00	13.10	0.4064
100	4501	3.93	49.74	14.01	0.2739

Date: 29.08.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 03/30**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	224	9.17	60.80	11.17	0.6226
2	277	8.81	63.00	13.40	0.7436
3	282	7.79	57.21	11.71	0.5219
4	213	3.94	70.08	11.70	0.3231
5	289	8.94	59.15	11.56	0.6115
6	278	4.38	64.64	13.04	0.3692
7	231	3.74	63.33	14.10	0.3340
8	230	7.18	58.50	12.65	0.5313
9	226	8.97	55.25	12.62	0.6252
10	294	7.24	66.62	12.50	0.6031
11	222	7.11	59.85	13.42	0.5709
12	235	7.37	66.32	11.93	0.5830
13	214	3.65	69.63	12.72	0.3234
14	287	8.77	67.00	13.69	0.8042
15	248	9.36	58.64	11.12	0.6103
16	233	3.73	60.08	14.68	0.3290
17	275	8.57	56.28	12.22	0.5896
18	215	3.64	61.05	13.30	0.2956
19	251	7.64	59.65	12.84	0.5852
20	204	3.87	56.58	14.02	0.3069
21	279	8.78	59.92	10.56	0.5558
22	211	4.44	65.90	12.61	0.3690
23	281	7.49	52.52	10.59	0.4164
24	250	8.91	58.59	12.31	0.6424
25	232	7.42	70.15	12.96	0.6745
26	240	7.14	60.35	11.40	0.4912
27	247	8.86	52.18	11.50	0.5316
28	246	7.45	59.79	12.16	0.5416
29	272	8.99	65.41	11.77	0.6922
30	264	8.17	69.37	13.23	0.7500
31	280	8.71	58.81	14.20	0.7273
32	298	7.64	61.01	14.21	0.6624
33	299	8.97	61.32	12.98	0.7140
34	239	8.46	57.41	15.43	0.7496
35	249	9.05	53.79	13.26	0.6453
36	259	9.03	61.90	13.91	0.7775
37	274	8.74	55.98	14.34	0.7018
38	218	7.19	54.25	13.94	0.5436
39	286	9.04	64.21	13.92	0.8082
40	269	8.76	59.92	14.77	0.7753
41	216	4.48	57.24	15.36	0.3938
42	244	7.25	58.19	12.60	0.5314

43	202	4.74	58.41	14.52	0.4020
44	300	3.76	63.81	13.78	0.3305
45	290	7.52	57.41	13.85	0.5978
46	252	8.8	56.14	13.91	0.6873
47	270	3.57	62.02	14.29	0.3163
48	288	8.89	59.87	12.94	0.6890
49	267	9.19	60.51	12.74	0.7085
50	205	7.79	55.05	13.46	0.5772
51	207	3.71	59.23	13.91	0.3057
52	220	9.18	57.27	13.62	0.7160
53	263	8.81	55.59	13.89	0.6801
54	212	8.83	60.17	13.30	0.7064
55	268	4.78	60.50	11.97	0.3461
56	273	7.22	52.98	13.76	0.5263
57	223	7.52	59.08	13.08	0.5813
58	257	8.63	52.70	13.74	0.6248
59	258	8.8	52.95	12.94	0.6028
60	234	3.84	57.51	11.60	0.2561
61	241	7.39	65.73	12.70	0.6171
62	256	8.68	63.14	12.84	0.7039
63	229	3.83	62.03	12.53	0.2976
64	296	8.39	62.45	11.50	0.6024
65	209	3.96	54.83	12.68	0.2752
66	243	7.14	64.43	13.74	0.6319
67	293	3.88	67.03	13.55	0.3523
68	265	4.66	58.96	12.40	0.3406
69	236	8.51	62.08	12.97	0.6851
70	284	7.36	61.59	12.40	0.5623
71	228	7.17	57.13	11.19	0.4582
72	283	4.33	62.79	13.52	0.3676
73	254	8.95	63.08	12.13	0.6847
74	201	9.13	64.31	12.32	0.7231
75	219	8.68	69.23	13.30	0.7994
76	271	7.19	53.88	11.06	0.4285
77	255	7.77	65.45	11.83	0.6014
78	291	7.13	61.12	12.45	0.5426
79	225	7.46	66.17	11.73	0.5789
80	217	7.37	65.73	12.99	0.6294
81	203	3.94	60.24	12.50	0.2967
82	245	9.18	67.77	12.53	0.7794
83	238	7.46	53.25	12.15	0.4827
84	210	3.85	62.85	12.94	0.3130
85	297	7.27	70.70	12.29	0.6318
86	206	8.72	59.35	11.64	0.6026
87	292	9.02	74.55	12.39	0.8334
88	266	6.5	60.44	12.89	0.5063
89	208	3.89	60.45	13.58	0.3194

90	295	8.48	66.48	13.30	0.7496
91	221	4.42	53.44	16.06	0.3792
92	253	8.45	57.25	13.14	0.6354
93	285	4.23	60.36	13.97	0.3566
94	242	8.45	58.29	14.72	0.7250
95	276	9.56	57.40	14.74	0.8088
96	227	8.4	50.79	15.24	0.6502
97	262	8.84	50.94	16.18	0.7284
98	261	7.38	62.04	16.09	0.7365
99	260	7.42	55.19	13.99	0.5728
100	237	7.26	52.65	15.33	0.5859

**Name of Division : Mandsaur-II**

**Challan No. : 09/106**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	881	7.34	68.71	13.68	0.6900
2	864	7.3	57.56	12.49	0.5249
3	836	4.26	53.30	13.68	0.3106
4	848	8.85	59.23	14.11	0.7399
5	837	4.26	54.68	11.83	0.2756
6	855	7.27	72.25	12.89	0.6768
7	834	4.32	55.52	13.49	0.3236
8	828	4.22	67.96	13.43	0.3853
9	844	7.03	52.91	12.70	0.4724
10	866	4.34	59.19	12.70	0.3264
11	847	8.31	57.50	13.60	0.6498
12	861	4.53	62.44	13.48	0.3814
13	821	8.17	64.11	13.23	0.6928
14	852	6.98	54.12	14.10	0.5326
15	887	3.97	71.70	12.94	0.3684
16	827	4.65	60.92	14.22	0.4027
17	819	4.05	60.44	14.51	0.3552
18	893	4.01	54.86	12.63	0.2779
19	842	4.16	56.19	13.42	0.3137
20	890	7.28	57.66	12.28	0.5154
21	839	4.19	55.95	11.87	0.2782
22	830	4.29	59.35	13.45	0.3423
23	897	7.33	57.48	11.15	0.4699
24	874	3.83	56.12	10.83	0.2329
25	808	4.18	66.90	11.97	0.3348
26	811	7.08	62.66	12.53	0.5558
27	826	3.62	56.70	11.96	0.2454
28	817	4.19	65.95	12.24	0.3381
29	856	8.71	57.73	11.95	0.6010
30	873	3.87	59.80	11.67	0.2701
31	900	7.07	52.52	15.29	0.5677
32	805	8.23	70.36	12.46	0.7218
33	835	7.19	59.88	13.08	0.5630
34	885	3.64	56.40	14.45	0.2967
35	807	7.21	65.59	12.47	0.5898
36	889	3.82	63.72	13.79	0.3358

37	840	4.3	52.35	16.75	0.3771
38	845	8.41	55.59	15.29	0.7148
39	896	7.56	58.00	15.10	0.6623
40	884	3.67	56.23	12.56	0.2591
41	867	4.27	62.52	13.07	0.3489
42	869	3.69	57.18	14.03	0.2959
43	829	4.51	54.50	13.28	0.3265
44	841	4.1	52.69	14.39	0.3108
45	882	3.61	61.70	15.01	0.3343
46	871	3.56	43.20	16.62	0.2556
47	810	8.04	59.02	14.20	0.6738
48	818	4.21	52.03	12.99	0.2846
49	892	3.67	53.77	14.06	0.2775
50	858	8.91	55.20	13.44	0.6611
51	806	3.82	52.47	14.35	0.2876
52	832	3.51	59.91	16.57	0.3485
53	822	6.92	52.15	13.75	0.4962
54	863	3.67	61.72	14.10	0.3193
55	895	7.41	47.26	14.22	0.4980
56	853	8.73	54.99	13.71	0.6582
57	850	4.07	55.15	13.98	0.3138
58	898	7.27	62.01	13.71	0.6179
59	877	3.63	61.75	13.31	0.2984
60	824	4.28	52.21	14.38	0.3214
61	865	4.26	60.80	10.00	0.2590
62	809	7	61.15	13.16	0.5635
63	843	8.37	55.45	12.77	0.5926
64	813	8.32	68.76	12.68	0.7255
65	875	3.9	61.78	10.39	0.2504
66	854	6.67	54.64	13.91	0.5069
67	899	6.94	60.03	13.14	0.5476
68	833	4.2	61.62	13.39	0.3465
69	891	3.6	46.67	12.38	0.2081
70	846	7.15	48.21	12.45	0.4290
71	859	8.88	51.12	11.37	0.5159
72	803	8.48	69.37	12.48	0.7344
73	879	3.63	58.95	12.81	0.2741
74	888	3.86	60.97	10.97	0.2582
75	876	7.29	66.39	11.93	0.5774
76	880	3.52	63.13	12.37	0.2749
77	857	7.19	57.04	12.78	0.5242
78	849	6.88	57.76	13.12	0.5215
79	883	4.53	63.23	11.09	0.3176
80	823	7.42	65.18	12.96	0.6270
81	868	3.53	61.12	11.49	0.2478
82	812	8.48	69.67	12.49	0.7378
83	894	7.23	61.48	12.91	0.5741
84	878	3.63	66.40	12.21	0.2944
85	814	7.19	67.06	12.32	0.5939
86	838	4.4	63.20	12.83	0.3568

87	804	8.47	67.27	9.68	0.5514
88	802	7.19	62.29	11.27	0.5047
89	870	3.77	61.98	12.46	0.2910
90	801	8.36	71.47	13.01	0.7775
91	820	7.12	62.24	13.48	0.5974
92	860	4.4	52.79	14.13	0.3282
93	851	8.48	61.39	14.55	0.7573
94	815	7.17	55.75	14.98	0.5987
95	816	8.34	70.71	13.04	0.7689
96	831	4.47	60.00	14.78	0.3965
97	825	7.29	47.78	15.61	0.5438
98	862	3.74	58.87	13.95	0.3071
99	886	3.58	57.94	15.91	0.3301
100	872	3.35	51.02	15.19	0.2596

**Name of Division : Mandsaur-II**

**Challan No. : 14/149**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1381	8.5	69.25	12.98	0.7642
2	1389	8.57	67.00	13.40	0.7696
3	1353	7.13	70.56	13.76	0.6923
4	1348	4.42	65.70	13.55	0.3934
5	1326	7	60.89	14.93	0.6363
6	1360	6.79	73.65	14.28	0.7143
7	1356	4.28	60.89	13.76	0.3587
8	1311	4.21	70.46	14.02	0.4159
9	1376	8.74	55.27	11.54	0.5576
10	1336	7.09	58.55	12.67	0.5261
11	1304	4.32	48.74	13.30	0.2799
12	1302	4.46	54.38	13.33	0.3234
13	1331	3.63	48.12	14.48	0.2530
14	1329	6.9	63.28	12.74	0.5561
15	1323	4.16	69.44	10.43	0.3012
16	1308	7.02	64.11	13.91	0.6262
17	1316	3.6	63.02	14.15	0.3211
18	1373	7.02	70.48	14.02	0.6936
19	1319	7	50.02	14.01	0.4907
20	1320	4.24	64.38	13.02	0.3553
21	1306	7.06	69.22	11.59	0.5662
22	1377	8.55	55.94	10.03	0.4797
23	1338	3.89	61.32	11.01	0.2626
24	1398	7.01	56.70	13.35	0.5307
25	1370	4.01	60.37	13.33	0.3228
26	1382	4.24	67.60	11.42	0.3273
27	1394	8.36	65.30	12.07	0.6588
28	1309	4.02	60.31	13.71	0.3325
29	1386	8.39	58.11	11.65	0.5680
30	1374	4.23	63.89	11.80	0.3189
31	1400	3.65	53.11	13.56	0.2628
32	1357	8.42	61.07	13.44	0.6913
33	1361	4.25	51.49	14.60	0.3196

34	1372	4.14	52.89	15.20	0.3329
35	1384	7.77	57.85	14.64	0.6581
36	1305	7.15	59.31	14.33	0.6078
37	1367	8.3	65.23	15.48	0.8383
38	1322	4.27	56.46	14.56	0.3510
39	1315	8.34	48.38	15.96	0.6438
40	1371	4.18	52.01	16.07	0.3494
41	1344	3.5	66.19	12.80	0.2965
42	1324	4.03	49.63	16.66	0.3333
43	1340	4.29	42.86	16.64	0.3059
44	1341	8.14	52.79	15.38	0.6610
45	1310	6.85	61.72	14.57	0.6158
46	1349	8.09	58.37	14.43	0.6812
47	1375	3.65	50.97	15.68	0.2916
48	1351	3.49	58.33	14.40	0.2932
49	1395	7.21	59.27	15.27	0.6525
50	1388	4.46	48.30	14.68	0.3162
51	1390	7.17	63.23	14.00	0.6345
52	1354	6.37	67.74	9.17	0.3956
53	1337	8.74	63.91	14.47	0.8084
54	1313	4.19	50.55	14.78	0.3130
55	1391	8.57	56.79	15.25	0.7422
56	1301	6.86	64.73	13.52	0.6003
57	1352	6.96	69.08	13.36	0.6424
58	1346	3.69	61.81	14.43	0.3291
59	1369	7.47	65.17	13.03	0.6342
60	1362	4.13	50.76	16.53	0.3465
61	1359	3.84	74.48	11.08	0.3168
62	1358	6.86	70.76	11.55	0.5605
63	1387	4.3	62.24	13.09	0.3505
64	1379	8.5	60.18	11.37	0.5814
65	1325	3.94	61.01	12.88	0.3097
66	1332	8.93	63.52	11.38	0.6456
67	1368	4.09	52.78	13.11	0.2830
68	1350	8.27	67.86	11.35	0.6368
69	1330	7.6	41.22	13.95	0.4370
70	1380	4.17	64.98	12.93	0.3503
71	1364	7.09	51.17	13.19	0.4786
72	1327	4.06	52.33	12.57	0.2671
73	1383	3.65	64.08	11.92	0.2789
74	1321	4.51	64.22	13.19	0.3820
75	1318	6.92	58.64	11.89	0.4823
76	1335	3.49	62.41	12.63	0.2750
77	1314	7.04	55.02	12.69	0.4914
78	1328	3.42	61.22	13.39	0.2804
79	1393	4.37	59.99	11.82	0.3098
80	1396	3.75	64.47	12.98	0.3139
81	1342	6.64	60.16	12.67	0.5060
82	1347	8.34	57.62	11.63	0.5588
83	1355	6.84	58.12	12.63	0.5021

84	1378	7.09	67.25	11.75	0.5601
85	1363	4.17	65.92	13.99	0.3845
86	1307	6.96	61.02	10.69	0.4538
87	1343	8.27	65.64	12.16	0.6599
88	1334	7.05	54.43	13.83	0.5309
89	1312	8.02	60.19	12.74	0.6151
90	1392	3.72	62.77	12.39	0.2894
91	1345	4.15	52.21	15.80	0.3424
92	1317	3.49	46.31	15.87	0.2565
93	1303	4.51	57.62	14.86	0.3861
94	1397	4.47	59.55	14.06	0.3741
95	1339	7.16	49.61	16.29	0.5785
96	1333	6.85	54.53	15.94	0.5953
97	1385	8.51	56.45	14.61	0.7021
98	1365	6.95	58.13	14.67	0.5928
99	1366	3.71	58.55	14.47	0.3142
100	1399	7.35	58.24	15.23	0.6519

**Name of Division : Mandsaur-II**

**Challan No. : 16/211**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1550	7.5	60.24	13.50	0.6097
2	1587	4.75	63.81	14.72	0.4460
3	1586	4.05	67.77	12.14	0.3333
4	1556	9.13	71.53	12.15	0.7934
5	1598	4.55	67.56	12.63	0.3881
6	1519	3.69	58.59	12.17	0.2631
7	1547	8.59	55.85	14.70	0.7052
8	1540	3.61	61.21	13.51	0.2985
9	1570	4.74	61.98	11.94	0.3508
10	1589	3.61	62.29	14.21	0.3195
11	1544	4.37	59.46	13.89	0.3610
12	1567	7.73	66.72	11.66	0.6014
13	1577	4.36	66.46	12.53	0.3632
14	1566	9.14	55.54	12.96	0.6581
15	1597	4.67	67.39	12.08	0.3801
16	1590	3.47	65.03	13.90	0.3137
17	1515	3.63	65.12	14.02	0.3314
18	1584	9.21	50.70	13.45	0.6281
19	1555	8.01	70.88	13.57	0.7706
20	1536	7.07	49.11	12.71	0.4412
21	1546	3.76	53.23	11.82	0.2365
22	1524	3.57	51.09	12.27	0.2238
23	1557	9.19	52.82	12.78	0.6203
24	1512	3.83	57.35	11.96	0.2627
25	1593	7.59	54.97	12.61	0.5260
26	1554	8.83	65.93	12.45	0.7249
27	1521	3.51	67.14	13.84	0.3261
28	1575	8.71	65.27	11.64	0.6620
29	1580	3.65	59.21	14.12	0.3051
30	1543	7.56	56.02	11.34	0.4801



31	1561	7.56	57.58	14.35	0.6245
32	1549	7.49	57.50	14.64	0.6307
33	1538	3.66	55.32	14.28	0.2891
34	1581	3.73	46.89	16.14	0.2824
35	1596	3.97	54.59	14.73	0.3192
36	1559	7.58	51.74	15.06	0.5905
37	1532	4.56	58.28	15.25	0.4054
38	1600	4.37	60.62	14.35	0.3802
39	1582	9.16	61.66	13.10	0.7401
40	1578	4.61	67.62	13.44	0.4190
41	1564	4.76	60.93	14.64	0.4246
42	1503	4.25	68.74	13.86	0.4050
43	1504	4.47	56.99	16.25	0.4139
44	1533	4.36	45.18	16.14	0.3178
45	1537	3.66	62.02	15.22	0.3455
46	1548	7.17	54.84	16.17	0.6360
47	1523	4.47	54.42	14.77	0.3594
48	1588	4.67	58.61	15.03	0.4114
49	1502	8.48	59.56	13.67	0.6903
50	1535	3.69	53.37	16.75	0.3299
51	1571	8.91	60.74	13.42	0.7262
52	1545	8.93	49.13	14.84	0.6510
53	1563	3.7	62.94	14.27	0.3323
54	1569	3.9	59.78	12.13	0.2828
55	1520	3.87	54.66	13.96	0.2953
56	1526	8.23	55.09	15.68	0.7111
57	1591	7.26	58.03	13.91	0.5859
58	1560	7.28	57.23	13.89	0.5788
59	1507	3.8	53.83	15.33	0.3135
60	1573	4.55	56.40	12.78	0.3281
61	1579	9	58.28	11.19	0.5868
62	1552	6.98	54.66	11.84	0.4516
63	1501	4.21	52.61	15.24	0.3376
64	1531	3.6	64.67	11.72	0.2729
65	1541	4.37	51.46	12.79	0.2875
66	1513	3.32	64.66	13.36	0.2868
67	1599	3.88	67.57	12.48	0.3271
68	1506	7.16	61.96	12.49	0.5542
69	1576	7.64	61.20	11.00	0.5142
70	1514	7.63	55.84	12.25	0.5219
71	1510	3.86	57.85	11.43	0.2551
72	1542	7.4	64.34	12.05	0.5735
73	1585	9.23	63.51	11.54	0.6766
74	1594	4.31	65.88	12.31	0.3495
75	1565	4.49	67.13	13.05	0.3933
76	1595	6.64	67.18	12.61	0.5624
77	1534	4.39	58.79	12.13	0.3130
78	1528	7.06	57.59	11.44	0.4653
79	1509	7.19	62.54	12.73	0.5723
80	1539	3.7	55.74	11.11	0.2290

81	1516	7.33	60.00	11.53	0.5072
82	1574	8.91	61.89	11.91	0.6567
83	1551	3.8	44.66	13.01	0.2208
84	1562	4.15	61.96	11.83	0.3042
85	1568	4.65	61.88	10.16	0.2925
86	1558	7.85	56.17	10.90	0.4804
87	1505	7.12	63.28	12.59	0.5675
88	1527	3.46	62.07	13.95	0.2996
89	1511	3.68	66.25	13.58	0.3312
90	1518	7.27	51.75	12.41	0.4667
91	1553	3.49	66.91	14.18	0.3312
92	1530	4.3	59.81	14.66	0.3771
93	1508	3.53	55.86	16.13	0.3181
94	1529	3.72	56.90	15.61	0.3303
95	1572	3.57	58.71	14.78	0.3099
96	1592	7.38	57.98	14.32	0.6125
97	1525	7.36	53.47	11.60	0.4563
98	1517	7.56	48.54	16.52	0.6063
99	1583	4.27	54.83	14.37	0.3365
100	1522	3.48	61.77	15.01	0.3226

**Name of Division : Mandsaur-II**

**Challan No. : 22/272**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2158	6.9	63.78	12.75	0.5610
2	2185	3.58	62.18	11.84	0.2635
3	2163	4.26	64.78	11.36	0.3135
4	2174	8.46	61.82	12.92	0.6760
5	2173	3.99	65.83	14.73	0.3870
6	2109	9.35	63.18	12.99	0.7676
7	2120	3.65	63.30	14.69	0.3395
8	2183	6.93	57.39	12.82	0.5100
9	2175	4.45	66.12	13.11	0.3858
10	2115	4.61	62.39	12.28	0.3531
11	2172	6.81	62.90	12.27	0.5257
12	2170	7.66	63.54	11.35	0.5523
13	2137	7.51	52.73	11.21	0.4438
14	2199	6.72	63.55	11.49	0.4906
15	2142	4.23	62.34	13.51	0.3562
16	2200	3.62	60.04	10.98	0.2386
17	2139	4.18	62.36	12.54	0.3269
18	2195	4.13	62.80	13.44	0.3486
19	2198	4.26	64.38	11.80	0.3238
20	2156	4.24	69.01	12.29	0.3596
21	2107	3.82	68.07	12.08	0.3140
22	2164	4.61	67.47	12.15	0.3780
23	2132	7.16	58.51	11.52	0.4826
24	2149	6.77	53.31	14.58	0.5260
25	2103	8.8	65.19	11.83	0.6785
26	2113	7.42	52.41	11.24	0.4370
27	2150	7.25	69.28	12.89	0.6474

28	2168	4.26	63.66	10.82	0.2935
29	2143	7.07	64.20	10.81	0.4907
30	2159	8.84	65.82	11.17	0.6497
31	2124	3.71	52.26	14.52	0.2816
32	2197	3.93	58.44	13.02	0.2991
33	2116	4	55.15	14.14	0.3120
34	2162	4.22	57.78	13.40	0.3266
35	2141	4.09	53.96	12.62	0.2785
36	2114	4.01	63.02	13.84	0.3497
37	2166	4.09	58.09	16.03	0.3808
38	2102	3.71	65.40	13.41	0.3254
39	2165	4.44	56.42	13.56	0.3397
40	2135	7.71	53.76	15.42	0.6392
41	2104	7.34	57.07	13.74	0.5755
42	2179	4.29	58.50	15.33	0.3848
43	2117	7.76	61.83	13.88	0.6658
44	2140	4.21	50.80	16.89	0.3612
45	2105	9.3	62.74	13.39	0.7812
46	2151	4.14	57.36	14.71	0.3494
47	2148	4.07	54.51	14.69	0.3260
48	2126	9.33	58.30	13.93	0.7576
49	2118	9.27	56.66	14.08	0.7397
50	2196	7.12	67.25	13.96	0.6686
51	2146	3.52	60.41	12.70	0.2700
52	2171	4.25	58.60	14.97	0.3727
53	2193	3.39	62.25	13.83	0.2919
54	2133	9.02	56.17	14.63	0.7414
55	2131	4.83	48.87	10.56	0.2492
56	2136	3.64	55.25	13.70	0.2755
57	2145	3.38	51.54	14.28	0.2488
58	2119	9.2	56.26	13.30	0.6882
59	2161	7.13	62.30	14.09	0.6260
60	2190	6.69	58.29	15.49	0.6041
61	2169	7.16	65.73	10.62	0.4998
62	2189	4.15	58.02	10.79	0.2598
63	2123	3.83	68.89	10.89	0.2872
64	2106	6.62	61.63	11.67	0.4760
65	2134	9.62	60.11	10.08	0.5830
66	2128	9.39	60.37	11.21	0.6357
67	2144	4.16	54.22	14.40	0.3249
68	2111	8.7	65.78	12.16	0.6960
69	2127	4.57	64.83	11.71	0.3469
70	2187	7.17	57.46	11.90	0.4904
71	2178	6.44	62.81	15.89	0.6427
72	2138	3.47	44.19	12.51	0.1919
73	2157	4.49	61.06	11.58	0.3174
74	2188	4.47	62.98	10.81	0.3044
75	2153	4.36	64.27	12.01	0.3366
76	2160	8.66	65.29	12.30	0.6954
77	2186	4.23	60.81	10.59	0.2724

78	2194	7.38	66.35	11.41	0.5587
79	2129	4.85	53.29	10.68	0.2760
80	2155	9.04	54.88	12.57	0.6238
81	2154	4.06	60.81	12.99	0.3207
82	2110	8.88	61.94	12.45	0.6846
83	2182	4.28	62.98	13.45	0.3625
84	2101	8.85	60.74	11.38	0.6115
85	2121	7.73	68.12	12.08	0.6362
86	2147	4.21	55.33	13.84	0.3225
87	2180	4.55	62.24	10.70	0.3030
88	2191	4.29	67.90	11.91	0.3471
89	2112	7.44	62.09	12.40	0.5729
90	2177	4.13	66.84	11.49	0.3172
91	2176	4.24	57.19	14.88	0.3608
92	2184	4.2	58.16	13.63	0.3331
93	2152	4.28	67.99	13.91	0.4049
94	2108	3.86	63.67	14.62	0.3594
95	2192	8.58	60.30	13.48	0.6976
96	2181	4.26	54.28	14.76	0.3412
97	2125	8.6	45.63	17.60	0.6906
98	2167	8.73	58.86	14.68	0.7543
99	2130	3.89	61.70	14.08	0.3380
100	2122	8.73	53.60	15.84	0.7412

Date: 27.08.2022

**अस्वीकरण:—**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 19/214**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1826	6.99	68.68	12.39	0.5948
2	1893	6.9	57.52	13.53	0.5368
3	1882	8.34	61.65	12.88	0.6622
4	1856	7.98	62.53	14.04	0.7006
5	1828	7.07	57.01	9.93	0.4002
6	1889	4.28	59.94	11.78	0.3022
7	1802	7.49	72.85	11.57	0.6314
8	1883	7.09	63.78	10.68	0.4828
9	1881	6.24	61.32	10.37	0.3969
10	1830	7.32	58.21	11.03	0.4699
11	1820	7.31	54.72	14.49	0.5797
12	1894	3.43	52.29	15.49	0.2778
13	1853	6.86	65.65	14.93	0.6723
14	1887	3.81	65.34	13.42	0.3341
15	1850	3.53	61.79	15.49	0.3378
16	1844	3.87	53.47	13.76	0.2848
17	1864	7.17	50.68	15.25	0.5542
18	1832	7.57	52.91	14.35	0.5746
19	1818	4.38	53.99	14.60	0.3451
20	1851	4.1	60.38	15.25	0.3776
21	1837	7.36	62.80	13.79	0.6374
22	1885	8.51	59.21	14.02	0.7063
23	1855	6.56	38.43	18.42	0.4644
24	1869	6.15	50.91	16.48	0.5160
25	1807	8.48	68.88	13.18	0.7700
26	1803	3.71	53.10	11.47	0.2259
27	1808	7.14	62.30	12.83	0.5705
28	1892	4.28	67.28	14.54	0.4186
29	1847	3.65	60.91	14.14	0.3143
30	1872	3.9	57.84	15.13	0.3413
31	1831	4.48	61.25	10.81	0.2966
32	1816	4.17	64.17	11.31	0.3027
33	1886	8.75	56.36	11.14	0.5495
34	1846	7.06	60.23	11.57	0.4921
35	1819	7.36	65.80	12.01	0.5814
36	1804	8.79	71.77	12.83	0.8096
37	1810	4.24	62.27	10.74	0.2837
38	1834	4.32	53.21	12.63	0.2903
39	1860	3.53	60.86	13.64	0.2930
40	1823	6.93	65.42	11.79	0.5343
41	1888	6.48	56.41	15.25	0.5573
42	1817	7.45	64.12	14.60	0.6973

43	1865	7.07	57.99	16.14	0.6618
44	1879	7	44.80	9.67	0.3031
45	1825	7.14	64.25	14.43	0.6619
46	1824	8.56	58.66	15.55	0.7807
47	1867	6.63	63.72	15.33	0.6478
48	1877	4.37	59.27	16.15	0.4182
49	1884	7.37	66.15	14.44	0.7038
50	1815	8.66	64.87	13.86	0.7785
51	1880	7.92	60.81	13.76	0.6629
52	1861	8.41	51.17	15.54	0.6686
53	1812	8.55	61.17	11.08	0.5797
54	1890	7.16	63.48	12.67	0.5757
55	1827	6.95	67.05	12.27	0.5720
56	1899	7.37	67.29	12.25	0.6073
57	1848	4.06	53.08	14.45	0.3114
58	1805	3.57	71.29	11.77	0.2995
59	1839	7.08	68.87	13.87	0.6761
60	1814	4.24	58.37	12.75	0.3155
61	1801	7.03	65.36	13.95	0.6411
62	1840	7.58	56.90	12.86	0.5549
63	1871	7	58.28	15.97	0.6517
64	1870	7.98	60.05	15.52	0.7437
65	1900	4.43	63.28	12.97	0.3637
66	1878	3.89	57.37	15.69	0.3501
67	1854	6.49	51.25	12.92	0.4296
68	1896	3.54	57.24	15.44	0.3129
69	1866	7.25	56.57	15.93	0.6532
70	1895	7.54	58.61	16.04	0.7088
71	1876	7.03	42.55	17.46	0.5223
72	1873	6.35	44.51	16.96	0.4794
73	1821	8.09	68.90	13.89	0.7742
74	1809	7.24	58.96	13.64	0.5821
75	1838	4.46	53.16	12.81	0.3037
76	1806	9.16	64.65	12.79	0.7575
77	1822	7.09	60.62	11.91	0.5119
78	1843	4.2	56.58	11.98	0.2848
79	1891	4.52	64.61	12.83	0.3747
80	1835	4.11	63.38	12.61	0.3284
81	1841	4.25	62.49	14.10	0.3744
82	1863	5.87	53.03	13.39	0.4168
83	1868	6.69	44.90	13.47	0.4047
84	1862	7.29	59.31	15.60	0.6743
85	1852	7.15	57.31	12.11	0.4962
86	1857	7.01	62.35	10.46	0.4571
87	1858	6.81	55.02	13.41	0.5026
88	1811	6.85	57.65	13.06	0.5158
89	1842	7.24	62.87	13.69	0.6234

90	1874	4.07	47.26	12.40	0.2385
91	1833	4.52	54.99	15.44	0.3837
92	1845	7.04	46.46	14.92	0.4879
93	1836	7.81	59.87	14.41	0.6740
94	1875	7.95	62.01	15.72	0.7751
95	1813	6.98	56.31	14.94	0.5870
96	1898	6.97	50.26	10.21	0.3576
97	1859	5.71	57.30	12.93	0.4231
98	1829	4.25	64.00	14.66	0.3987
99	1849	3.77	54.13	19.14	0.3906
100	1897	4.41	65.99	14.59	0.4247

**Name of Division : Mandsaur-II**

**Challan No. : 28/336**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2704	4.42	53.53	13.00	0.3076
2	2758	7	55.72	11.02	0.4298
3	2713	4.4	58.28	13.18	0.3379
4	2773	4.47	66.72	11.86	0.3536
5	2732	4.08	50.14	14.52	0.2970
6	2768	3.54	66.56	10.64	0.2506
7	2795	3.87	66.16	13.97	0.3576
8	2728	7.28	57.36	13.89	0.5802
9	2750	3.55	62.98	12.26	0.2741
10	2702	4.38	71.67	11.48	0.3605
11	2722	8.41	64.15	13.52	0.7291
12	2751	4.18	58.93	13.42	0.3306
13	2765	4.48	59.94	13.35	0.3584
14	2753	4.35	58.86	12.76	0.3267
15	2772	3.22	57.38	11.96	0.2209
16	2785	7.02	43.08	15.67	0.4739
17	2743	7.03	60.83	15.57	0.6657
18	2799	4.47	51.65	16.11	0.3719
19	2730	3.77	60.96	15.11	0.3472
20	2767	8.68	57.16	14.42	0.7152
21	2760	4.28	56.22	15.53	0.3736
22	2763	7.1	63.49	12.73	0.5737
23	2744	3.59	60.85	15.05	0.3288
24	2789	7.49	57.38	13.59	0.5842
25	2738	4.26	63.94	14.48	0.3945
26	2761	4.4	59.80	12.73	0.3348
27	2790	7.75	58.55	12.40	0.5626
28	2797	3.81	62.15	12.15	0.2877
29	2701	4.56	54.61	11.96	0.2978
30	2708	3.44	57.25	13.40	0.2638
31	2778	3.64	66.76	11.52	0.2799
32	2712	4.39	55.33	12.05	0.2928
33	2745	7.11	64.72	13.30	0.6122

34	2793	4.54	69.46	13.13	0.4140
35	2703	4.51	60.86	11.73	0.3220
36	2739	3.67	54.53	15.73	0.3149
37	2710	7.51	44.55	9.07	0.3034
38	2749	4.44	65.40	2.23	0.0648
39	2731	7.25	61.88	15.06	0.6757
40	2711	4.86	55.10	14.75	0.3951
41	2721	8.13	53.61	16.15	0.7041
42	2796	3.76	55.13	15.00	0.3110
43	2777	7.23	48.24	15.36	0.5357
44	2742	4.05	56.35	14.94	0.3410
45	2733	3.64	58.08	15.72	0.3323
46	2747	4.16	45.91	16.27	0.3108
47	2762	8.85	62.06	14.02	0.7700
48	2770	7.07	63.34	15.27	0.6837
49	2787	3.67	64.63	14.54	0.3450
50	2735	3.44	55.33	15.76	0.3000
51	2726	8.22	58.47	14.06	0.6757
52	2724	7.03	64.90	12.59	0.5744
53	2783	7.3	65.61	12.21	0.5847
54	2746	7.04	62.65	13.14	0.5794
55	2748	3.62	61.21	13.76	0.3048
56	2784	7.18	61.60	12.19	0.5392
57	2791	7.45	59.97	12.91	0.5766
58	2715	4.67	53.42	12.09	0.3017
59	2718	7.13	63.53	13.40	0.6068
60	2727	8.25	61.48	14.26	0.7235
61	2798	3.56	55.71	15.47	0.3069
62	2737	3.65	52.60	17.11	0.3285
63	2781	6.92	59.91	14.24	0.5903
64	2766	7.52	59.11	15.56	0.6918
65	2782	3.49	52.36	15.97	0.2918
66	2786	7.18	50.36	15.67	0.5665
67	2706	7.64	54.16	15.38	0.6364
68	2780	6.98	40.82	17.54	0.4998
69	2775	7.09	51.25	14.77	0.5367
70	2719	7.74	59.69	14.54	0.6718
71	2764	3.38	56.19	15.77	0.2995
72	2716	7.19	54.24	15.21	0.5932
73	2774	7	50.34	14.40	0.5075
74	2705	3.6	62.49	13.86	0.3118
75	2723	8.39	56.95	15.89	0.7593
76	2769	4.11	56.20	12.33	0.2848
77	2800	3.61	65.18	12.37	0.2910
78	2725	3.6	56.85	13.97	0.2858
79	2709	4.69	62.76	11.76	0.3461
80	2756	4.35	52.57	12.80	0.2928



81	2771	3.59	61.52	12.86	0.2840
82	2734	8.57	59.49	12.20	0.6222
83	2776	6.84	64.44	12.26	0.5404
84	2717	3.64	62.28	12.38	0.2806
85	2707	7.41	60.73	12.47	0.5609
86	2755	3.76	51.67	13.70	0.2662
87	2740	3.61	58.82	14.16	0.3007
88	2792	3.86	61.28	12.68	0.2999
89	2752	6.06	54.65	13.76	0.4557
90	2720	3.79	59.68	14.70	0.3324
91	2779	7.27	47.86	16.67	0.5801
92	2759	3.46	66.06	15.46	0.3533
93	2714	4.52	55.67	14.66	0.3688
94	2741	4.27	61.78	9.66	0.2549
95	2794	3.68	50.57	13.55	0.2521
96	2788	3.84	63.85	14.94	0.3663
97	2736	3.88	56.17	16.56	0.3608
98	2757	6.88	56.54	16.27	0.6330
99	2754	3.75	52.65	14.70	0.2903
100	2729	6.89	56.42	16.77	0.6518

Date: 26.08.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 24/274**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2364	3.8	53.74	14.70	0.3002
2	2387	4.07	60.05	13.71	0.3350
3	2301	4.39	59.37	14.00	0.3648
4	2344	3.49	60.97	11.99	0.2551
5	2348	4.06	66.28	12.34	0.3321
6	2320	7.46	62.71	15.04	0.7035
7	2393	3.65	62.29	10.40	0.2365
8	2369	4.3	56.54	11.00	0.2675
9	2315	6.58	61.49	15.48	0.6264
10	2382	4.22	57.73	14.27	0.3477
11	2306	4.58	59.91	12.77	0.3504
12	2335	4.11	64.21	13.19	0.3481
13	2330	6.96	72.15	12.46	0.6257
14	2343	6.47	61.05	12.30	0.4859
15	2347	4.32	64.47	13.36	0.3720
16	2327	3.96	59.86	13.36	0.3168
17	2366	7.24	59.23	11.67	0.5003
18	2399	3.63	65.18	14.04	0.3321
19	2322	4.2	65.94	13.82	0.3826
20	2380	4.17	62.42	12.10	0.3148
21	2384	6.98	46.62	15.92	0.5179
22	2304	4.19	46.43	17.60	0.3423
23	2400	7.08	52.82	14.88	0.5565
24	2353	3.87	50.67	14.84	0.2910
25	2312	8.64	55.27	13.84	0.6610
26	2328	7.03	55.15	12.91	0.5005
27	2374	7.98	55.42	13.32	0.5889
28	2307	3.57	53.45	14.52	0.2770
29	2391	4.37	47.88	12.66	0.2648
30	2361	6.95	37.99	15.37	0.4059
31	2367	3.47	49.90	13.77	0.2384
32	2371	4.32	59.82	12.57	0.3249
33	2338	4.07	73.28	11.59	0.3455
34	2365	3.76	62.13	10.32	0.2410
35	2375	4.13	60.06	11.57	0.2870
36	2331	4.53	65.40	11.19	0.3316
37	2394	6.5	65.10	12.57	0.5317
38	2336	4.39	59.80	10.99	0.2884
39	2329	4.02	62.12	11.77	0.2939
40	2368	3.53	57.96	14.70	0.3008
41	2363	4.03	60.70	13.72	0.3357
42	2332	4.29	68.69	11.31	0.3333

43	2346	4.27	61.80	12.33	0.3254
44	2396	8.52	56.32	14.56	0.6986
45	2388	1.11	60.73	9.50	0.0640
46	2317	7.4	57.37	13.68	0.5809
47	2309	8.77	59.23	13.15	0.6832
48	2362	3.29	55.16	12.15	0.2204
49	2352	3.61	59.91	14.79	0.3198
50	2324	8.91	64.60	12.79	0.7360
51	2314	4.38	62.57	11.60	0.3180
52	2395	4.36	54.75	10.76	0.2568
53	2341	6.97	52.95	12.96	0.4781
54	2381	3.56	58.17	14.18	0.2937
55	2351	7.02	61.29	11.39	0.4900
56	2303	8.21	64.79	16.05	0.8538
57	2383	3.58	51.52	14.01	0.2585
58	2321	4.47	49.49	14.57	0.3223
59	2340	4.2	58.78	13.18	0.3255
60	2311	3.7	54.69	15.01	0.3038
61	2308	7.09	60.56	13.74	0.5899
62	2325	7.23	62.34	12.99	0.5856
63	2360	3.45	54.73	14.07	0.2656
64	2355	7.17	52.44	13.16	0.4947
65	2350	4.27	59.47	12.95	0.3288
66	2305	4.23	60.82	14.34	0.3689
67	2356	6.99	63.56	14.03	0.6235
68	2392	8.24	53.23	12.38	0.5430
69	2357	7.05	49.01	11.98	0.4138
70	2358	6.99	59.38	11.67	0.4844
71	2334	3.74	60.72	14.20	0.3224
72	2310	6.5	53.36	15.33	0.5317
73	2339	3.41	54.97	14.34	0.2687
74	2378	3.87	52.39	13.32	0.2701
75	2398	8.4	53.74	14.79	0.6678
76	2333	7.26	66.41	12.14	0.5852
77	2302	7.54	66.49	14.59	0.7314
78	2390	6.78	64.43	13.46	0.5878
79	2354	6.91	58.49	13.44	0.5431
80	2389	4.24	60.24	15.21	0.3884
81	2385	6.33	59.15	12.04	0.4507
82	2345	5.07	64.59	14.43	0.4725
83	2337	4.07	66.77	12.19	0.3313
84	2313	3.77	62.16	16.09	0.3770
85	2318	8.48	65.12	15.05	0.8310
86	2373	4.04	54.32	14.21	0.3119
87	2376	4.44	57.95	12.65	0.3255
88	2323	7.17	52.67	16.14	0.6095
89	2370	7.08	58.05	14.99	0.6160

90	2349	4.01	53.17	14.35	0.3060
91	2377	6.9	39.87	14.50	0.3988
92	2379	6.37	52.78	14.87	0.5000
93	2316	4.18	53.10	13.13	0.2913
94	2319	4.37	46.94	14.78	0.3033
95	2386	7.07	50.70	14.14	0.5069
96	2372	4.16	57.59	11.13	0.2667
97	2326	8.64	65.07	12.77	0.7180
98	2397	7.66	62.83	14.31	0.6886
99	2342	8.51	63.49	13.44	0.7259
100	2359	3.41	56.63	13.44	0.2595

**Name of Division : Mandsaur-II**

**Challan No. : 47/470**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4607	4.12	68.95	13.76	0.3910
2	4675	3.96	60.16	13.53	0.3223
3	4691	4.03	68.58	13.27	0.3667
4	4665	3.18	59.85	15.00	0.2856
5	4656	8.26	66.99	12.24	0.6773
6	4660	8.79	68.13	13.44	0.8052
7	4618	4.17	65.38	14.35	0.3911
8	4653	3.89	66.56	12.58	0.3256
9	4615	3.55	63.05	14.29	0.3199
10	4626	3.37	71.04	14.18	0.3394
11	4658	4.02	63.60	13.07	0.3341
12	4649	7.26	65.45	13.48	0.6403
13	4633	3.64	59.06	12.70	0.2730
14	4628	3.29	64.15	13.83	0.2918
15	4624	4.07	62.19	14.60	0.3696
16	4667	3.8	55.03	14.70	0.3074
17	4647	3.57	59.68	13.19	0.2810
18	4614	4.01	66.83	13.20	0.3537
19	4630	3.54	62.65	15.37	0.3409
20	4644	3.56	64.37	14.31	0.3279
21	4625	3.5	63.57	13.43	0.2989
22	4685	4.35	56.59	12.97	0.3193
23	4651	2.51	58.77	16.28	0.2402
24	4673	3.41	56.62	13.25	0.2557
25	4631	7.17	51.77	13.02	0.4833
26	4686	4.1	63.81	13.95	0.3649
27	4608	3.72	45.57	12.40	0.2102
28	4643	4.51	57.60	13.02	0.3382
29	4650	7.18	65.62	14.90	0.7022
30	4700	4.18	43.03	15.99	0.2876
31	4681	4.41	58.34	13.87	0.3568
32	4609	3.61	63.49	12.76	0.2924
33	4645	3.39	67.84	13.84	0.3183
34	4694	3.39	63.58	14.89	0.3210
35	4602	3.54	56.55	13.62	0.2726
36	4682	4.39	69.77	12.63	0.3868

37	4688	3.38	66.76	14.29	0.3225
38	4677	6.15	63.38	12.05	0.4699
39	4627	3.37	56.32	14.47	0.2747
40	4657	7.14	70.67	12.74	0.6426
41	4668	3.94	68.01	13.62	0.3648
42	4616	3.46	61.52	13.52	0.2879
43	4697	4.27	73.08	12.52	0.3907
44	4606	3.61	58.42	15.10	0.3184
45	4648	3	66.97	13.98	0.2808
46	4670	4.2	59.24	13.35	0.3322
47	4639	7.16	55.91	12.02	0.4812
48	4683	3.4	59.09	10.37	0.2084
49	4623	3.47	63.21	10.74	0.2356
50	4610	3.74	62.53	12.91	0.3018
51	4684	4.03	64.22	15.15	0.3921
52	4641	2.99	57.50	15.74	0.2706
53	4636	4.07	56.76	13.74	0.3175
54	4664	5.84	55.19	14.21	0.4579
55	4696	4.16	58.84	14.63	0.3582
56	4663	4.21	56.67	12.85	0.3065
57	4689	4.27	59.81	14.66	0.3745
58	4690	4.42	52.23	14.30	0.3302
59	4680	3.76	51.11	14.64	0.2812
60	4678	4.09	50.01	15.28	0.3125
61	4622	4.07	50.17	16.17	0.3301
62	4693	3.62	60.46	15.53	0.3399
63	4612	3.66	65.31	13.75	0.3287
64	4669	8.17	67.02	13.31	0.7288
65	4646	3.44	52.69	15.15	0.2745
66	4635	3.6	58.24	14.97	0.3139
67	4676	3.65	55.95	15.16	0.3095
68	4698	3.38	53.23	14.90	0.2680
69	4601	4.14	46.74	14.59	0.2823
70	4621	4.32	48.52	14.92	0.3128
71	4640	4.08	57.73	16.77	0.3949
72	4611	4.38	53.33	15.17	0.3543
73	4632	4.56	51.57	13.65	0.3210
74	4666	7.92	42.53	15.33	0.5164
75	4605	6.86	38.71	14.80	0.3931
76	4661	6.62	59.11	12.16	0.4760
77	4662	3.97	59.01	13.93	0.3263
78	4642	3.29	72.07	14.28	0.3385
79	4617	4.3	60.41	11.69	0.3036
80	4659	8.09	63.82	13.48	0.6957
81	4619	4.45	61.68	11.49	0.3155
82	4620	3.55	60.09	14.08	0.3003
83	4637	4.08	68.90	14.27	0.4011
84	4655	3.42	71.44	11.48	0.2804
85	4687	4.51	67.85	11.08	0.3392
86	4679	3.15	64.41	14.25	0.2892

87	4603	4.23	61.08	15.24	0.3938
88	4672	3.62	56.11	14.35	0.2914
89	4699	6.78	49.68	14.25	0.4800
90	4634	3.99	47.58	16.20	0.3076
91	4652	3.78	49.64	13.88	0.2604
92	4604	3.84	40.61	14.63	0.2281
93	4654	6.46	62.81	14.81	0.6008
94	4674	8.66	62.44	13.29	0.7188
95	4613	3.67	53.10	16.12	0.3142
96	4692	3.62	65.76	14.55	0.3464
97	4638	3.41	53.30	13.90	0.2527
98	4671	4.35	57.15	12.77	0.3175
99	4629	3.74	61.81	13.06	0.3018
100	4695	3.97	59.70	13.38	0.3172

Date: 24.08.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 27/335**

<b>S.No.</b>	<b>Cont. No.</b>	<b>Factory Wt. (Kg.)</b>	<b>Consistence (%)</b>	<b>MS% (ODB)</b>	<b>MS Content (In Absolute Term)</b>
1	2635	8.52	56.88	15.30	0.7412
2	2614	7.31	68.69	12.71	0.6382
3	2613	6.49	55.93	15.57	0.5653
4	2687	7.65	62.97	13.28	0.6395
5	2643	7.33	66.61	14.13	0.6898
6	2678	4.21	59.89	14.83	0.3738
7	2621	3.64	55.44	15.67	0.3163
8	2619	3.41	55.98	14.81	0.2827
9	2673	7.1	48.46	14.28	0.4913
10	2669	6.73	46.10	15.12	0.4691
11	2608	4.01	50.39	15.56	0.3144
12	2650	4.32	56.26	13.74	0.3339
13	2610	3.47	57.65	8.73	0.1745
14	2626	7.17	64.33	13.94	0.6431
15	2631	4.13	60.19	13.49	0.3354
16	2624	6.41	66.49	14.60	0.6224
17	2694	7.84	68.73	11.61	0.6256
18	2695	7.87	60.84	12.69	0.6076
19	2616	4.27	59.30	12.39	0.3138
20	2627	3.57	65.36	13.60	0.3174
21	2605	3.49	55.61	13.50	0.2621
22	2688	7.43	69.46	13.79	0.7118
23	2641	3.46	49.39	13.71	0.2342
24	2617	3.65	60.23	13.15	0.2891
25	2675	4.17	59.70	13.35	0.3323
26	2601	8.54	54.68	13.51	0.6311
27	2677	4.22	58.92	13.42	0.3338
28	2699	7.56	53.83	13.10	0.5330
29	2685	4.5	67.67	11.87	0.3613
30	2647	4.23	65.56	13.15	0.3646
31	2668	4.31	59.38	13.91	0.3560
32	2674	4.23	56.19	13.54	0.3219
33	2671	4.01	52.44	14.65	0.3080
34	2659	4.1	61.38	12.54	0.3157
35	2680	4.37	52.39	13.99	0.3203
36	2628	4.15	59.95	16.13	0.4013
37	2639	4.08	58.17	12.76	0.3027
38	2692	7.96	60.02	14.41	0.6885
39	2649	4.05	52.09	13.53	0.2855
40	2681	4.29	59.64	14.49	0.3707
41	2686	7.57	59.45	12.55	0.5647
42	2602	7.2	59.80	13.88	0.5976

43	2696	4.8	53.01	13.96	0.3552
44	2607	3.49	70.29	13.97	0.3427
45	2637	3.26	59.33	14.31	0.2768
46	2664	7.14	65.66	14.16	0.6640
47	2634	3.55	57.25	14.48	0.2943
48	2698	4.47	67.97	12.45	0.3782
49	2644	4.19	70.93	11.52	0.3423
50	2689	4.48	66.00	13.26	0.3920
51	2630	3.67	74.18	12.15	0.3307
52	2618	8.12	69.79	13.20	0.7479
53	2658	7.31	59.92	13.52	0.5921
54	2652	4.25	70.97	12.79	0.3859
55	2620	3.55	70.29	12.49	0.3117
56	2633	6.96	59.58	14.85	0.6160
57	2667	4.16	52.43	13.07	0.2850
58	2700	4.84	60.19	13.77	0.4012
59	2697	9.66	64.16	12.48	0.7738
60	2615	3.5	62.04	13.72	0.2979
61	2683	3.89	62.04	12.72	0.3069
62	2645	4.35	65.47	12.91	0.3676
63	2662	4.26	75.26	12.45	0.3992
64	2655	4.16	68.53	13.96	0.3981
65	2606	3.65	58.50	14.39	0.3073
66	2604	7.45	65.79	13.59	0.6660
67	2666	7.17	55.71	13.34	0.5327
68	2690	7.41	72.74	12.54	0.6758
69	2660	6.91	52.14	12.58	0.4533
70	2693	7.54	73.69	12.53	0.6959
71	2622	3.71	59.23	12.98	0.2853
72	2656	7.11	56.33	13.99	0.5603
73	2612	8.39	60.35	15.19	0.7694
74	2657	4.33	64.45	12.61	0.3520
75	2653	7.08	58.37	13.62	0.5629
76	2684	7.23	69.15	12.26	0.6131
77	2679	4.33	42.86	13.30	0.2468
78	2676	4.21	44.59	13.61	0.2555
79	2640	8.44	76.27	11.73	0.7554
80	2654	4.07	52.85	12.24	0.2633
81	2691	4.63	53.59	12.95	0.3213
82	2646	2.42	50.05	13.53	0.1638
83	2623	6.52	49.62	15.34	0.4962
84	2665	6.77	51.31	14.81	0.5145
85	2632	4.31	55.86	14.30	0.3444
86	2609	7.3	55.04	13.94	0.5599
87	2636	6.8	61.29	15.01	0.6256
88	2661	7.06	55.52	14.21	0.5570
89	2663	4.09	63.97	12.90	0.3374



90	2642	4.41	55.94	14.89	0.3674
91	2672	7.13	50.47	14.36	0.5169
92	2670	6.81	52.46	13.72	0.4903
93	2651	6.7	60.12	14.32	0.5769
94	2648	3.49	54.50	14.07	0.2677
95	2611	3.57	59.56	15.14	0.3220
96	2629	4.45	56.34	15.73	0.3943
97	2625	4.22	55.23	14.72	0.3431
98	2682	6.65	50.57	13.41	0.4509
99	2638	3.5	53.16	13.69	0.2548
100	2603	3.73	52.53	14.83	0.2906

**Name of Division : Mandsaur-II**

**Challan No. : 35/374**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3464	7.24	56.23	15.10	0.6147
2	3452	6.7	44.54	16.59	0.4951
3	3416	6.68	42.23	16.79	0.4736
4	3434	4.26	56.79	14.56	0.3523
5	3419	6.7	47.00	13.60	0.4281
6	3470	4.32	60.28	14.48	0.3771
7	3499	6.53	55.56	15.69	0.5694
8	3430	7	52.90	15.33	0.5677
9	3440	4.57	55.87	12.55	0.3204
10	3488	3.68	65.40	12.77	0.3073
11	3465	4.36	61.33	13.13	0.3510
12	3424	8.81	41.74	14.64	0.5383
13	3444	3.74	46.73	15.49	0.2708
14	3427	7.89	55.06	14.64	0.6359
15	3403	3.47	57.86	14.34	0.2880
16	3447	3.53	60.59	11.60	0.2482
17	3409	3.35	55.08	12.93	0.2385
18	3480	4.36	59.44	14.40	0.3732
19	3459	3.94	49.38	14.88	0.2896
20	3458	3.87	41.55	12.56	0.2020
21	3415	5.01	43.87	12.67	0.2786
22	3475	3.55	61.01	13.46	0.2915
23	3491	6.67	59.27	11.91	0.4709
24	3497	7.31	59.96	14.01	0.6140
25	3486	8.8	60.35	11.38	0.6046
26	3438	7.12	49.93	13.44	0.4778
27	3437	3.82	48.55	10.96	0.2032
28	3469	8.41	66.10	13.34	0.7418
29	3487	4.27	66.70	13.01	0.3706
30	3467	3.4	59.14	15.07	0.3029
31	3460	7.64	63.05	13.89	0.6693
32	3402	3.58	55.08	13.65	0.2692
33	3404	3.49	62.00	13.79	0.2984
34	3454	7.43	36.13	15.58	0.4183
35	3493	6.69	62.26	12.79	0.5325
36	3446	3.81	42.87	18.31	0.2991

37	3413	9.17	40.92	15.27	0.5731
38	3498	6.59	60.45	14.09	0.5615
39	3426	4.14	58.24	12.35	0.2977
40	3450	7.24	51.12	13.36	0.4945
41	3406	3.17	61.96	11.49	0.2257
42	3405	3.13	51.39	14.15	0.2276
43	3412	4.03	54.31	11.43	0.2503
44	3429	9.17	47.40	11.81	0.5135
45	3432	3.69	56.30	13.85	0.2878
46	3431	2.82	55.83	13.49	0.2123
47	3436	4.15	61.43	14.75	0.3760
48	3494	6.95	65.21	13.02	0.5901
49	3451	4.27	60.51	13.44	0.3472
50	3484	4.41	69.40	11.41	0.3493
51	3443	3.51	54.14	12.86	0.2443
52	3473	4.8	71.34	11.61	0.3974
53	3481	3.49	59.70	12.56	0.2617
54	3408	3.31	63.04	15.02	0.3135
55	3410	2.76	60.89	13.17	0.2214
56	3448	7.23	43.59	13.17	0.4150
57	3474	8.53	60.32	11.82	0.6082
58	3466	4.22	67.59	12.16	0.3469
59	3445	3.26	57.29	8.47	0.1581
60	3478	7.35	69.92	13.30	0.6835
61	3407	3.06	59.67	12.99	0.2371
62	3457	3.88	53.64	12.79	0.2662
63	3401	3.55	55.71	13.16	0.2602
64	3442	6.46	54.23	12.98	0.4548
65	3455	2.97	48.77	13.43	0.1945
66	3456	3.46	60.51	12.64	0.2647
67	3423	6.59	54.47	11.11	0.3987
68	3496	4.34	59.42	12.00	0.3094
69	3411	3.46	64.16	14.87	0.3301
70	3471	3.67	69.63	11.37	0.2907
71	3492	3.55	59.47	11.45	0.2418
72	3463	4.35	48.50	13.81	0.2914
73	3428	6.57	62.40	13.53	0.5545
74	3435	4.03	47.14	11.96	0.2273
75	3449	3.11	59.03	11.37	0.2087
76	3462	3.79	66.06	11.26	0.2820
77	3490	3.9	65.83	11.36	0.2917
78	3476	8.89	74.25	11.80	0.7788
79	3453	4.19	60.91	13.15	0.3356
80	3477	4.28	63.74	12.43	0.3390
81	3472	4.01	57.32	14.41	0.3312
82	3483	3.3	50.93	14.00	0.2353
83	3495	7.04	57.94	13.57	0.5533
84	3420	4.21	53.62	14.92	0.3368
85	3489	8.63	61.21	13.40	0.7077
86	3433	3.08	51.63	12.98	0.2064

87	3461	8.55	67.19	13.26	0.7618
88	3418	4.34	39.91	14.73	0.2552
89	3421	6.83	59.25	13.67	0.5532
90	3482	4.17	53.27	14.45	0.3211
91	3422	4.02	58.12	13.02	0.3043
92	3479	4.09	54.71	14.46	0.3235
93	3417	3.91	50.77	13.79	0.2737
94	3441	8.09	57.26	13.40	0.6205
95	3485	3.74	67.64	13.78	0.3486
96	3439	4.39	55.19	12.21	0.2959
97	3414	3.41	49.80	14.24	0.2418
98	3500	4.23	67.08	13.25	0.3760
99	3425	3.44	55.32	14.35	0.2731
100	3468	3.6	55.92	14.41	0.2902

Date: 23.08.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 31/339**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3065	2.97	53.34	14.77	0.2340
2	3016	7.8	59.36	12.06	0.5585
3	3078	7.45	64.96	11.02	0.5334
4	3077	3.76	70.49	13.66	0.3621
5	3084	7.05	64.03	13.68	0.6176
6	3055	4.34	61.88	11.25	0.3021
7	3080	3.47	59.91	12.40	0.2578
8	3058	6.85	51.22	12.61	0.4425
9	3002	6.88	53.22	10.03	0.3674
10	3032	7.62	62.08	11.97	0.5662
11	3050	4.31	54.72	11.02	0.2599
12	3076	7.23	66.05	10.11	0.4830
13	3028	4.24	60.79	13.39	0.3451
14	3029	7.42	64.81	14.94	0.7183
15	3097	6.33	65.72	14.30	0.5950
16	3024	7.01	62.09	13.64	0.5937
17	3096	4.1	56.41	12.69	0.2936
18	3018	4.48	62.21	13.13	0.3660
19	3079	3.75	57.85	13.64	0.2959
20	3054	7.02	66.45	11.98	0.5588
21	3047	3.68	49.62	13.08	0.2388
22	3074	3.32	63.19	13.66	0.2865
23	3012	7.96	58.62	12.42	0.5795
24	3046	3.74	62.29	13.73	0.3198
25	3068	2.91	47.01	14.83	0.2028
26	3044	4.02	42.73	13.22	0.2271
27	3069	4.11	48.24	14.20	0.2815
28	3100	4.21	56.34	14.50	0.3440
29	3090	4.31	53.00	12.79	0.2922
30	3062	6.95	46.78	14.60	0.4747
31	3073	1.94	47.57	14.38	0.1327
32	3009	8.44	61.67	14.90	0.7756
33	3086	7.04	52.40	14.18	0.5231
34	3045	4.09	51.59	12.95	0.2732
35	3038	3.93	52.59	14.24	0.2944
36	3014	4.02	46.40	15.56	0.2902
37	3022	3.81	62.73	13.10	0.3132
38	3033	4.51	60.84	14.07	0.3861
39	3099	6.68	51.68	16.51	0.5698
40	3098	6.94	57.53	15.23	0.6079
41	3040	3.39	67.87	13.05	0.3004
42	3034	4.19	46.55	14.09	0.2749

43	3027	7.3	56.00	12.30	0.5030
44	3039	7.05	53.61	12.31	0.4653
45	3042	6.63	53.06	12.97	0.4561
46	3095	4.16	67.06	13.50	0.3765
47	3025	3.63	67.29	13.98	0.3416
48	3020	4.22	67.64	14.47	0.4131
49	3082	3.85	58.48	12.62	0.2841
50	3026	4.33	63.40	13.63	0.3741
51	3011	3.94	65.23	12.62	0.3243
52	3013	9	54.75	13.04	0.6426
53	3053	3.49	62.81	12.12	0.2656
54	3005	2.45	48.42	13.78	0.1634
55	3043	8.51	64.26	10.58	0.5787
56	3057	7.07	56.09	11.23	0.4454
57	3007	4.32	60.17	12.93	0.3361
58	3041	7.32	57.47	12.18	0.5124
59	3023	4.33	64.51	13.66	0.3815
60	3094	4.44	65.24	12.92	0.3743
61	3059	4.35	58.89	11.12	0.2849
62	3092	7.21	56.74	14.96	0.6121
63	3063	6.9	58.84	13.95	0.5665
64	3048	6.92	61.33	12.54	0.5321
65	3035	7.57	56.60	14.86	0.6366
66	3003	8.13	47.43	12.21	0.4707
67	3060	4.28	50.94	12.03	0.2624
68	3019	9.63	47.39	13.69	0.6250
69	3031	4.12	60.53	14.39	0.3589
70	3081	3.47	61.55	13.21	0.2821
71	3010	9	66.13	13.49	0.8028
72	3087	4.44	49.87	12.51	0.2771
73	3088	6.55	59.78	13.78	0.5397
74	3006	4.91	55.41	11.15	0.3034
75	3030	4.48	61.59	10.57	0.2916
76	3067	3.49	55.98	14.65	0.2862
77	3008	4.32	62.72	12.04	0.3262
78	3056	7.23	59.14	11.90	0.5090
79	3075	3.2	67.62	13.66	0.2957
80	3017	8.02	63.00	13.94	0.7042
81	3061	7.05	59.56	12.19	0.5118
82	3021	4.33	63.11	11.09	0.3031
83	3049	7.1	56.40	12.61	0.5048
84	3066	4.07	62.30	13.05	0.3309
85	3036	4.58	52.87	12.65	0.3064
86	3051	8.16	65.40	12.61	0.6732
87	3052	4.14	57.28	11.92	0.2828
88	3064	3.32	51.43	15.89	0.2712
89	3083	3.62	60.59	13.60	0.2983

90	3072	3.44	53.41	11.59	0.2129
91	3071	3.26	42.43	13.50	0.1868
92	3004	6.05	59.89	11.57	0.4193
93	3015	6.93	60.51	13.30	0.5579
94	3089	3.96	54.22	13.65	0.2930
95	3085	7.28	53.14	13.66	0.5285
96	3037	8.1	58.09	13.43	0.6318
97	3093	6.95	59.84	12.25	0.5094
98	3001	6.82	67.24	12.79	0.5865
99	3091	3.53	60.24	15.07	0.3205
100	3070	3.27	50.09	15.27	0.2502

Date: 22.08.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 26/334**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2562	7.55	57.31	10.31	0.4462
2	2581	3.69	71.58	12.25	0.3236
3	2514	4.05	58.02	10.50	0.2466
4	2560	7.4	55.98	12.52	0.5187
5	2547	7.16	59.49	11.23	0.4783
6	2507	6.74	46.62	12.03	0.3781
7	2546	8.58	48.08	11.61	0.4788
8	2598	3.7	57.21	12.69	0.2686
9	2522	8.44	47.31	13.78	0.5503
10	2579	4.24	69.62	12.53	0.3697
11	2518	6.74	60.25	10.47	0.4253
12	2561	7.19	53.72	12.01	0.4638
13	2587	8.33	52.26	13.26	0.5773
14	2545	7.37	52.82	12.19	0.4746
15	2577	3.48	67.28	11.76	0.2753
16	2566	4.14	54.81	11.93	0.2708
17	2551	3.47	63.61	13.65	0.3012
18	2535	7.2	61.84	12.05	0.5364
19	2572	4.18	66.95	13.92	0.3896
20	2554	7.57	56.41	12.89	0.5503
21	2591	3.14	53.93	12.81	0.2170
22	2570	3.76	55.92	11.78	0.2478
23	2588	2.39	60.11	12.29	0.1766
24	2517	6.91	60.16	12.23	0.5086
25	2532	7.27	52.06	11.24	0.4253
26	2586	6.88	50.67	15.04	0.5243
27	2595	7.17	57.34	13.83	0.5686
28	2516	4.21	54.23	13.96	0.3187
29	2515	8	41.66	16.35	0.5448
30	2553	7.17	61.50	14.37	0.6338
31	2559	7.4	54.03	13.99	0.5594
32	2520	7.81	48.55	14.32	0.5428
33	2531	4.01	58.54	13.70	0.3216
34	2525	7.06	51.64	15.40	0.5613
35	2544	8.93	56.93	14.19	0.7215
36	2549	7.15	58.60	15.12	0.6335
37	2502	3.51	56.88	15.00	0.2994
38	2555	3.6	52.92	13.13	0.2502
39	2526	8.56	57.10	13.47	0.6583
40	2594	4.06	55.45	13.94	0.3138
41	2585	6.79	56.51	13.52	0.5188
42	2569	8.55	52.03	14.28	0.6353

43	2567	8.71	52.22	14.86	0.6759
44	2536	3.11	45.48	17.02	0.2407
45	2504	6.5	44.47	17.34	0.5011
46	2593	3.53	58.09	15.79	0.3237
47	2548	7.21	58.10	14.22	0.5955
48	2539	6.87	38.80	15.39	0.4101
49	2537	7.86	54.96	14.21	0.6139
50	2528	4.25	52.00	14.52	0.3209
51	2574	4.22	59.61	13.25	0.3334
52	2523	6.38	49.86	12.90	0.4102
53	2534	4.23	53.41	11.10	0.2508
54	2578	7.18	63.93	13.28	0.6096
55	2584	8.23	57.72	14.38	0.6831
56	2511	4.16	63.59	12.41	0.3282
57	2582	3.52	66.02	12.89	0.2996
58	2565	6.97	55.99	12.54	0.4893
59	2550	4.39	65.38	12.01	0.3446
60	2583	7.48	71.85	13.60	0.7308
61	2573	4.28	57.30	14.14	0.3467
62	2600	4.23	52.56	14.55	0.3236
63	2552	3.77	57.34	15.29	0.3306
64	2512	7.38	44.22	15.94	0.5203
65	2589	3.72	60.67	13.86	0.3129
66	2519	4.06	57.99	12.98	0.3057
67	2592	7.28	61.75	11.69	0.5256
68	2558	3.54	62.68	12.76	0.2832
69	2557	4.04	55.74	12.85	0.2893
70	2543	3.79	53.34	13.24	0.2676
71	2541	4.07	57.52	10.21	0.2389
72	2505	4.1	47.59	10.55	0.2058
73	2503	3.59	69.74	12.59	0.3152
74	2530	3.98	64.32	11.01	0.2818
75	2513	7.28	65.34	10.90	0.5183
76	2501	3.49	59.74	12.40	0.2586
77	2599	4.12	59.52	11.79	0.2892
78	2563	3.08	53.14	11.63	0.1903
79	2556	4.51	62.76	13.02	0.3685
80	2580	3.4	63.67	11.83	0.2560
81	2533	4.03	56.34	10.77	0.2446
82	2527	7.09	58.98	11.58	0.4842
83	2508	6.65	45.78	11.84	0.3604
84	2510	4.22	56.44	12.35	0.2941
85	2540	7.1	52.05	11.60	0.4288
86	2597	3.47	53.34	15.88	0.2939
87	2524	5.39	52.06	14.27	0.4005
88	2590	7.1	51.64	14.83	0.5439
89	2568	3.51	52.97	13.06	0.2429



90	2542	8.31	49.00	16.27	0.6623
91	2521	7.12	38.95	16.46	0.4564
92	2575	7.22	51.76	15.49	0.5790
93	2538	4.36	57.82	7.56	0.1905
94	2506	6.56	47.16	15.99	0.4946
95	2596	4.24	56.60	14.86	0.3566
96	2509	4.1	49.75	15.80	0.3223
97	2571	3.95	52.43	15.85	0.3282
98	2529	4.08	58.62	13.80	0.3301
99	2576	7.06	61.63	15.22	0.6622
100	2564	6.17	53.28	14.94	0.4911

Date: 20.08.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 04/31**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	312	3.5	56.50	14.48	0.2863
2	347	8.22	53.95	15.03	0.6666
3	356	8.74	62.23	14.69	0.7988
4	357	4.46	53.85	15.25	0.3662
5	344	7.47	55.90	14.11	0.5894
6	363	7.01	49.77	18.18	0.6344
7	358	4.37	49.76	15.66	0.3404
8	310	4.17	56.64	13.91	0.3286
9	334	8.81	61.19	14.22	0.7665
10	323	7.67	57.70	14.04	0.6213
11	387	4.65	58.09	12.57	0.3395
12	327	7.59	59.19	12.38	0.5563
13	330	8.77	60.58	12.55	0.6665
14	394	3.81	44.71	12.64	0.2153
15	301	3.61	66.98	13.03	0.3152
16	324	3.62	72.91	11.99	0.3164
17	379	7.03	56.44	12.35	0.4900
18	304	3.71	64.20	11.01	0.2623
19	383	3.05	60.19	13.69	0.2513
20	337	3.83	59.97	11.79	0.2708
21	331	4.33	57.88	10.73	0.2689
22	392	3.39	61.45	10.92	0.2275
23	389	3.29	54.95	12.08	0.2185
24	338	9.03	54.29	12.05	0.5906
25	321	3.5	66.45	11.71	0.2723
26	354	4.1	59.62	11.93	0.2915
27	372	8.96	57.13	9.80	0.5018
28	346	8.18	62.39	12.66	0.6462
29	370	3.49	65.57	13.48	0.3085
30	352	7.52	59.88	9.94	0.4474
31	353	8.73	63.27	11.62	0.6417
32	390	4.3	62.48	13.04	0.3505
33	391	7.3	46.78	11.89	0.4059
34	325	8.68	53.90	10.17	0.4757
35	322	8.86	65.56	11.94	0.6937
36	396	3.49	51.83	14.12	0.2555
37	371	3.63	52.11	14.18	0.2683
38	382	4.69	54.54	14.32	0.3663
39	360	7.21	56.22	14.43	0.5847
40	306	8.49	59.68	15.00	0.7599
41	373	7.13	65.38	13.58	0.6331
42	365	4.67	57.84	13.81	0.3731

43	369	9.63	59.11	17.05	0.9707
44	342	3.72	62.04	14.46	0.3337
45	381	4.48	66.04	12.75	0.3772
46	393	3.69	54.18	14.21	0.2841
47	386	3.97	54.73	13.69	0.2974
48	350	9.63	55.74	13.74	0.7377
49	332	3.66	53.69	13.37	0.2628
50	335	7.21	63.52	13.22	0.6056
51	349	3.68	65.45	13.20	0.3180
52	316	7.46	55.31	14.68	0.6058
53	397	3.65	56.86	15.95	0.3311
54	378	8.08	60.91	15.81	0.7781
55	399	4.56	43.92	16.69	0.3342
56	388	4.28	55.69	15.17	0.3617
57	314	8.14	43.14	16.39	0.5755
58	320	4.38	46.11	15.53	0.3136
59	368	3.56	60.32	14.37	0.3087
60	400	4.51	48.28	16.09	0.3504
61	362	3.73	65.66	13.36	0.3271
62	317	3.68	60.02	11.50	0.2539
63	308	3.89	64.06	14.06	0.3505
64	380	4.31	67.62	13.12	0.3823
65	366	5.07	61.63	13.24	0.4137
66	302	4.22	59.97	12.24	0.3097
67	398	3.69	56.58	10.99	0.2295
68	328	4.36	56.42	11.98	0.2947
69	376	3.51	63.03	12.58	0.2783
70	315	4.38	56.31	14.01	0.3456
71	343	7.27	65.18	11.98	0.5678
72	367	8.52	61.99	11.97	0.6322
73	303	4.43	53.45	13.04	0.3088
74	361	4.27	67.74	12.47	0.3608
75	333	3.59	61.03	12.47	0.2732
76	345	8.28	60.23	12.25	0.6111
77	375	4.35	59.60	13.29	0.3445
78	305	4.2	62.94	13.22	0.3494
79	384	7.92	57.54	10.91	0.4974
80	341	8.81	59.40	9.95	0.5207
81	359	7.17	63.94	13.62	0.6245
82	364	3.68	61.97	12.31	0.2808
83	318	8.79	55.34	12.79	0.6223
84	340	6.86	59.78	12.40	0.5083
85	348	7.35	59.76	12.42	0.5454
86	374	9.03	58.94	13.74	0.7314
87	351	4.57	60.66	14.79	0.4099
88	313	8.83	52.10	14.61	0.6720
89	307	3.6	57.48	14.65	0.3031

90	355	8.69	65.86	14.08	0.8056
91	385	7.38	51.32	14.98	0.5675
92	336	3.73	61.08	12.90	0.2939
93	309	7.41	54.93	15.27	0.6217
94	339	7.33	50.40	12.20	0.4508
95	319	4.71	56.57	13.40	0.3570
96	395	7.55	52.34	13.79	0.5451
97	326	6.72	60.31	13.15	0.5329
98	311	3.73	59.14	14.64	0.3230
99	329	9.21	53.82	14.47	0.7175
100	377	8.69	55.51	13.76	0.6639

**Name of Division : Mandsaur-II**

**Challan No. : 43/435**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4294	3.5	58.49	16.07	0.3290
2	4250	4.41	59.64	13.83	0.3638
3	4234	3.66	60.67	13.35	0.2965
4	4300	4.34	62.53	14.63	0.3971
5	4290	4.15	64.04	13.38	0.3557
6	4265	3.93	55.16	13.54	0.2936
7	4238	4.49	57.25	12.75	0.3278
8	4209	7.09	60.84	15.15	0.6537
9	4252	7.45	57.18	14.01	0.5967
10	4258	4.29	50.37	14.49	0.3132
11	4255	4.26	63.70	13.58	0.3685
12	4272	3.75	62.83	14.40	0.3394
13	4259	4.41	54.43	14.16	0.3400
14	4261	4.47	67.24	12.63	0.3795
15	4216	3.79	62.52	14.46	0.3426
16	4235	3.79	59.26	12.64	0.2839
17	4271	4.34	54.20	10.63	0.2500
18	4262	4.46	59.11	12.62	0.3327
19	4278	6.78	55.91	11.38	0.4312
20	4243	7.47	60.33	12.15	0.5476
21	4260	7.33	56.91	11.49	0.4794
22	4283	6.74	65.53	13.40	0.5918
23	4244	3.58	61.55	13.44	0.2961
24	4239	3.94	63.23	12.27	0.3057
25	4282	3.59	54.34	10.07	0.1964
26	4274	3.57	57.78	13.69	0.2824
27	4225	3.54	55.13	12.46	0.2432
28	4230	4.35	58.42	14.31	0.3637
29	4273	3.64	68.51	12.14	0.3028
30	4256	4.51	62.70	12.81	0.3622
31	4270	4.15	60.71	13.44	0.3386
32	4275	7.36	69.16	11.89	0.6050
33	4213	3.75	58.29	12.45	0.2723

34	4297	3.97	39.03	11.81	0.1830
35	4206	4.37	59.34	13.26	0.3439
36	4242	4.49	71.03	12.81	0.4086
37	4284	4.3	63.33	10.99	0.2993
38	4220	4.23	63.86	12.75	0.3443
39	4210	4.5	53.47	11.69	0.2812
40	4212	4.28	67.99	12.27	0.3570
41	4202	7.05	55.19	15.38	0.5985
42	4219	3.71	58.02	14.03	0.3020
43	4229	3.64	57.65	15.25	0.3200
44	4223	7.52	53.00	15.26	0.6084
45	4231	3.77	43.91	14.17	0.2345
46	4253	8.81	55.11	12.72	0.6176
47	4232	3.95	43.82	13.85	0.2398
48	4288	4.52	64.96	13.25	0.3892
49	4241	4.1	56.43	13.33	0.3083
50	4207	8.91	60.40	12.75	0.6861
51	4245	4.73	55.06	13.17	0.3429
52	4248	7.04	59.99	13.47	0.5688
53	4276	7.32	59.82	13.62	0.5966
54	4201	7.43	53.91	13.95	0.5587
55	4249	4.45	57.92	14.31	0.3689
56	4221	3.72	59.07	15.05	0.3307
57	4246	4.38	53.56	14.30	0.3355
58	4204	3.39	51.73	15.58	0.2732
59	4208	4.75	58.15	14.58	0.4028
60	4247	3.94	60.16	13.71	0.3250
61	4236	3.76	53.88	15.72	0.3185
62	4286	3.81	66.04	14.55	0.3661
63	4222	4.21	50.41	14.32	0.3040
64	4267	8.24	51.61	15.97	0.6790
65	4281	4.14	63.55	13.83	0.3639
66	4277	7.2	67.06	12.15	0.5868
67	4214	4.39	66.59	13.82	0.4039
68	4203	4.34	55.95	11.06	0.2686
69	4296	4.24	75.09	11.51	0.3663
70	4299	4.29	61.69	11.66	0.3085
71	4215	7.66	62.57	13.70	0.6565
72	4228	3.31	55.73	12.40	0.2287
73	4264	7.31	56.80	9.58	0.3977
74	4240	4.16	57.15	13.18	0.3132
75	4205	7.75	62.39	12.25	0.5921
76	4285	3.53	64.71	12.36	0.2824
77	4295	4.19	57.53	11.77	0.2837
78	4251	3.81	57.76	11.88	0.2614
79	4293	4.05	63.11	11.90	0.3042
80	4211	9.12	63.36	13.56	0.7834

81	4266	7.03	61.70	11.39	0.4942
82	4269	4.15	61.40	12.36	0.3150
83	4291	4.28	57.03	11.56	0.2821
84	4279	3.97	59.18	10.88	0.2557
85	4218	3.42	52.60	13.06	0.2350
86	4289	4.36	50.40	11.77	0.2585
87	4217	3.79	65.97	13.48	0.3369
88	4268	3.95	60.13	11.59	0.2753
89	4257	4.33	65.35	11.87	0.3360
90	4254	7.38	62.28	12.22	0.5616
91	4227	3.56	68.46	13.98	0.3407
92	4287	3.96	60.99	14.23	0.3437
93	4237	8.99	58.17	13.94	0.7291
94	4292	3.87	50.49	15.03	0.2937
95	4226	7.43	63.48	14.30	0.6746
96	4280	3.78	59.99	14.59	0.3307
97	4298	4.37	47.30	14.52	0.3002
98	4224	3.6	56.80	14.95	0.3056
99	4233	3.65	59.70	14.61	0.3183
100	4263	3.74	48.66	14.65	0.2667

Date: 18.08.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 17/212**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1648	4.36	52.01	13.98	0.3170
2	1630	6.93	47.51	14.40	0.4740
3	1659	4.37	61.32	13.86	0.3714
4	1670	4.01	59.21	13.85	0.3288
5	1617	8.59	61.05	12.61	0.6614
6	1608	3.91	62.68	13.53	0.3316
7	1698	7.14	56.65	13.54	0.5476
8	1611	3.61	63.95	13.59	0.3137
9	1621	8.56	59.08	13.25	0.6702
10	1643	9.01	56.39	13.48	0.6848
11	1644	4.43	58.28	12.77	0.3296
12	1675	4.54	58.55	12.79	0.3400
13	1615	7.68	59.03	13.55	0.6144
14	1642	3.78	61.10	13.14	0.3035
15	1679	7.84	53.37	15.12	0.6327
16	1610	9.33	59.81	12.34	0.6886
17	1638	7.47	52.96	12.76	0.5050
18	1692	4.44	56.30	14.30	0.3574
19	1654	5.84	47.31	14.63	0.4041
20	1622	4.32	57.64	14.38	0.3581
21	1665	4.56	50.53	13.20	0.3042
22	1696	4.21	55.43	13.39	0.3124
23	1635	7.17	63.15	13.22	0.5987
24	1605	9.12	54.27	12.66	0.6265
25	1691	3.76	65.54	13.75	0.3388
26	1636	7.45	63.64	11.83	0.5610
27	1672	7.23	57.00	13.67	0.5632
28	1604	3.68	58.80	12.84	0.2778
29	1684	3.83	52.14	15.02	0.2999
30	1627	4.44	62.78	13.40	0.3734
31	1629	8.87	57.84	13.33	0.6839
32	1662	7.61	50.30	14.08	0.5388
33	1645	7.2	58.29	12.76	0.5357
34	1656	3.52	52.91	13.51	0.2517
35	1652	8.44	58.88	13.57	0.6744
36	1686	8.54	61.45	12.76	0.6695
37	1667	3.96	67.55	14.69	0.3928
38	1631	3.66	53.12	16.04	0.3118
39	1601	3.7	63.38	15.41	0.3615
40	1699	8.84	64.39	14.16	0.8062
41	1653	7.59	64.90	12.39	0.6102
42	1634	7.09	51.07	13.16	0.4764

43	1677	4.59	59.98	13.52	0.3722
44	1657	7.14	58.05	12.94	0.5362
45	1676	6.58	67.61	14.51	0.6455
46	1624	7.35	55.57	13.77	0.5623
47	1616	7.67	57.49	12.75	0.5622
48	1641	4.31	63.56	12.74	0.3491
49	1689	4.45	63.63	11.58	0.3280
50	1632	7.38	65.27	13.02	0.6273
51	1658	6.58	43.66	14.29	0.4106
52	1613	7.62	54.37	12.60	0.5220
53	1683	3.6	58.76	12.20	0.2581
54	1628	8	52.45	13.16	0.5520
55	1619	3.79	69.36	13.29	0.3494
56	1680	3.42	47.84	15.70	0.2568
57	1603	4.09	47.07	15.13	0.2912
58	1602	8.06	61.97	13.86	0.6924
59	1625	7.81	57.52	15.28	0.6865
60	1693	4.29	60.01	13.90	0.3578
61	1666	3.58	59.08	14.83	0.3136
62	1646	9.1	58.07	13.12	0.6934
63	1681	3.82	56.18	14.61	0.3136
64	1695	7.9	63.34	11.98	0.5996
65	1647	3.71	61.53	12.27	0.2801
66	1671	4.4	56.48	14.25	0.3542
67	1623	9.22	63.43	11.78	0.6887
68	1687	4.21	60.64	13.37	0.3414
69	1697	7.32	58.44	13.14	0.5622
70	1673	7.06	58.66	13.77	0.5704
71	1620	7.34	55.98	13.43	0.5520
72	1678	4.54	60.40	11.27	0.3092
73	1618	8.85	64.06	13.63	0.7726
74	1694	4.14	51.04	15.54	0.3283
75	1612	3.7	60.64	13.85	0.3108
76	1663	3.56	59.82	15.75	0.3354
77	1685	4.31	55.77	13.68	0.3289
78	1650	7.39	44.61	14.37	0.4737
79	1655	3.41	55.59	15.74	0.2984
80	1661	7.1	61.14	13.41	0.5822
81	1700	8.62	58.44	12.63	0.6362
82	1690	4.53	57.56	10.96	0.2858
83	1606	8.03	55.12	12.39	0.5484
84	1626	7.46	53.42	14.06	0.5602
85	1664	4.43	60.45	13.88	0.3717
86	1639	3.54	53.80	15.17	0.2889
87	1633	9.08	58.64	13.03	0.6937
88	1607	9.01	62.00	13.02	0.7271
89	1609	7.33	58.37	14.44	0.6179



90	1637	4.15	57.35	13.60	0.3237
91	1668	7.54	50.63	14.12	0.5391
92	1688	4.56	64.82	12.37	0.3657
93	1649	7.12	48.23	14.39	0.4941
94	1682	4.5	50.24	14.47	0.3272
95	1674	7.99	51.34	12.99	0.5329
96	1614	8.88	56.97	12.74	0.6447
97	1640	2.7	49.82	13.45	0.1809
98	1660	8.63	54.17	13.29	0.6214
99	1651	8.9	57.88	13.98	0.7200
100	1669	7.75	64.80	12.28	0.6169

Date: 10.08.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 05/32**

<b>S.No.</b>	<b>Cont. No.</b>	<b>Factory Wt. (Kg.)</b>	<b>Consistence (%)</b>	<b>MS% (ODB)</b>	<b>MS Content (In Absolute Term)</b>
1	401	3.57	58.84	13.66	0.287
2	402	3.52	59.06	13.27	0.276
3	403	8.76	58.66	14.8	0.7604
4	404	4.3	65.08	13.46	0.3767
5	405	3.52	59.06	13.11	0.2724
6	406	8.14	54.1	13.23	0.5828
7	407	3.58	56.97	13.31	0.2714
8	408	3.6	49.82	13.69	0.2455
9	409	7.39	52.51	12.4	0.4811
10	410	7.28	53.45	14.59	0.5678
11	411	8.55	53.98	12.47	0.5754
12	412	3.67	52.5	14.9	0.287
13	413	3.56	51.23	13.61	0.2481
14	414	6.8	45	15.07	0.461
15	415	6.97	51.93	13.23	0.4788
16	416	7.56	49.45	13.67	0.5111
17	417	3.69	58.03	13.8	0.2956
18	418	3.45	54.06	13.37	0.2494
19	419	7.06	54.78	13.29	0.514
20	420	4.45	52.04	14.49	0.3355
21	421	4.21	52.55	13.57	0.3002
22	422	3.66	52.95	13.98	0.2708
23	423	7.02	51.22	13.18	0.4739
24	424	3.62	55.41	14.29	0.2867
25	425	3.42	52.1	12.86	0.2291
26	426	3.68	57.9	14.96	0.3187
27	427	7.33	45.23	13.84	0.4589
28	428	3.58	52.3	13.15	0.2463
29	429	7.48	58.89	14.5	0.6388
30	430	3.76	51.16	13.21	0.2542
31	431	3.56	56.8	13.61	0.2752
32	432	4.26	59.17	12.59	0.3174
33	433	3.59	58.84	13.04	0.2754
34	434	4.56	58.98	12.95	0.3484
35	435	7.42	52.15	12.91	0.4994
36	436	3.58	62.87	14.73	0.3315
37	437	8.45	64.41	13.06	0.7106
38	438	9.31	65.67	12.9	0.7886
39	439	4.31	61.12	11.71	0.3086
40	440	3.51	51.58	14.66	0.2654
41	441	7.26	59.06	13.77	0.5902
42	442	7.42	61.8	13.38	0.6136

43	443	3.63	59.94	13.63	0.2966
44	444	4.41	56.51	13.96	0.3479
45	445	8.48	61.68	13.39	0.7004
46	446	4.17	49.22	14.36	0.2948
47	447	4.22	58.14	14.48	0.3553
48	448	3.84	49.56	14.73	0.2803
49	449	8.85	47.76	13.42	0.5673
50	450	9.68	57.59	14.45	0.8054
51	451	3.64	58.24	15.9	0.3371
52	452	8.71	60.42	13.12	0.6907
53	453	8.62	56.4	12.82	0.6232
54	454	3.67	64.13	13.8	0.3248
55	455	7.53	62.99	13.78	0.6536
56	456	8.99	53.4	13.82	0.6635
57	457	8.92	58.4	13.82	0.7198
58	458	8.46	51.73	13.45	0.5888
59	459	9.6	58.49	13.42	0.7536
60	460	3.3	54.25	14.43	0.2584
61	461	8.97	68.7	13.13	0.8091
62	462	3.73	52.46	11.67	0.2283
63	463	8.54	60.61	13.51	0.6994
64	464	3.73	51.44	14.13	0.2712
65	465	3.83	57.52	12.13	0.2673
66	466	8.83	58.76	12.97	0.6728
67	467	3.69	62.24	14.2	0.3262
68	468	8.5	54.86	12.65	0.5899
69	469	3.55	62.27	14.53	0.3213
70	470	7.52	56.67	13.48	0.5745
71	471	7.97	56.57	14.12	0.6368
72	472	3.8	59.08	12.95	0.2907
73	473	3.78	61.36	13.69	0.3175
74	474	3.4	58.29	14.55	0.2883
75	475	3.54	64.03	12.53	0.2839
76	476	6.99	59.41	13.68	0.5683
77	477	8.16	54.32	13.97	0.6193
78	478	8.56	55.16	12.24	0.5778
79	479	4.19	62.63	14.27	0.3746
80	480	6.91	50.99	14.53	0.512
81	481	3.67	51.57	14.19	0.2686
82	482	7.98	56.92	15.2	0.6903
83	483	4.2	55	14.31	0.3305
84	484	8.62	62.52	13.48	0.7267
85	485	6.9	62.78	11.9	0.5154
86	486	7.01	53.67	14.27	0.537
87	487	8.17	47.87	13.64	0.5335
88	488	7.19	53.04	14.46	0.5515
89	489	3.49	56.37	14.37	0.2827

90	490	3.48	65.19	13.84	0.3139
91	491	3.64	66.13	12.48	0.3003
92	492	3.56	57.2	14.37	0.2926
93	493	3.82	54.42	13.07	0.2716
94	494	7.39	61.05	14.4	0.6496
95	495	3.76	59.66	13.19	0.2959
96	496	7.9	63.89	13.18	0.6652
97	497	7.05	61.2	14.2	0.6126
98	498	3.57	63.79	15.41	0.3509
99	499	3.73	47.17	14.71	0.2589
100	500	3.71	55.84	13.68	0.2834

Date: 05.08.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 49/472**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4871	3.5	61.04	12.25	0.2618
2	4807	7.08	55.03	15.65	0.6096
3	4900	3.99	63.60	14.92	0.3787
4	4861	7.3	53.22	15.13	0.5877
5	4840	4.01	60.12	13.37	0.3224
6	4890	3.9	55.11	11.45	0.2461
7	4838	3.69	58.20	13.56	0.2911
8	4866	3.95	56.58	14.55	0.3251
9	4817	4.56	49.32	12.37	0.2782
10	4898	3.4	60.46	13.51	0.2778
11	4829	3.55	59.93	13.53	0.2879
12	4811	6.9	56.58	12.28	0.4796
13	4852	3.29	60.53	13.41	0.2671
14	4859	3.4	49.66	15.16	0.2560
15	4824	3.7	56.66	11.68	0.2449
16	4851	3.64	60.30	12.57	0.2759
17	4856	4.26	57.76	12.93	0.3182
18	4870	3.94	59.46	12.55	0.2939
19	4823	3.33	61.34	14.54	0.2970
20	4863	3.71	64.21	11.03	0.2627
21	4845	4.53	52.05	14.49	0.3416
22	4874	3.46	58.81	12.87	0.2619
23	4858	4.38	62.03	13.04	0.3543
24	4886	4.02	54.94	14.62	0.3228
25	4873	3.57	58.88	13.35	0.2806
26	4835	7.16	51.46	15.02	0.5535
27	4820	4.28	59.55	13.37	0.3407
28	4837	3.61	56.42	15.01	0.3058
29	4816	3.78	61.83	13.25	0.3096
30	4810	7.37	60.37	13.67	0.6080
31	4867	1.22	49.46	14.33	0.0865
32	4847	3.7	64.84	14.37	0.3448
33	4891	6.59	47.36	12.46	0.3888
34	4848	3.61	64.49	14.23	0.3314
35	4855	3.47	62.27	11.37	0.2457
36	4897	7.05	52.13	14.52	0.5337
37	4839	3.51	52.78	14.38	0.2664
38	4864	3.52	56.52	12.35	0.2457
39	4878	3.66	46.62	13.34	0.2277
40	4895	7.42	64.08	13.62	0.6478
41	4804	3.3	58.89	13.87	0.2696
42	4869	3.75	55.63	14.29	0.2981

43	4805	7.14	56.77	15.38	0.6233
44	4812	4.37	51.31	15.12	0.3391
45	4803	3.33	54.96	15.65	0.2864
46	4882	3.53	44.01	15.54	0.2415
47	4818	3.69	57.67	13.32	0.2834
48	4844	3.7	61.93	15.47	0.3545
49	4857	4.39	56.27	14.84	0.3666
50	4884	3.69	50.63	12.64	0.2362
51	4801	4.6	57.14	14.11	0.3708
52	4885	4.2	53.22	14.21	0.3175
53	4853	3.73	63.41	13.75	0.3253
54	4819	3.61	60.74	14.29	0.3133
55	4862	4.28	53.99	13.24	0.3060
56	4836	3.5	64.36	13.25	0.2985
57	4831	3.75	57.50	12.78	0.2756
58	4887	4.1	43.65	15.69	0.2808
59	4877	3.65	40.15	14.02	0.2055
60	4850	7.07	53.80	14.76	0.5614
61	4896	3.69	52.23	13.90	0.2679
62	4814	7.21	66.09	12.91	0.6150
63	4889	1.55	45.08	11.76	0.0822
64	4893	7.15	41.80	16.22	0.4848
65	4872	3.34	66.64	11.64	0.2592
66	4828	3.96	73.48	12.57	0.3659
67	4813	6.77	53.76	14.92	0.5430
68	4826	3.63	62.94	13.73	0.3136
69	4881	7.26	56.11	14.88	0.6062
70	4841	4.19	48.49	14.83	0.3013
71	4832	4.49	57.46	14.10	0.3637
72	4806	4.49	54.49	13.93	0.3408
73	4875	3.67	40.89	15.55	0.2334
74	4892	8.36	50.87	14.29	0.6078
75	4809	4.22	61.00	14.49	0.3730
76	4899	7.31	70.00	14.03	0.7178
77	4821	3.63	56.19	14.84	0.3027
78	4880	4.21	57.13	15.70	0.3776
79	4876	3.24	62.16	12.76	0.2569
80	4842	3.27	51.09	14.86	0.2482
81	4865	3.62	63.21	13.08	0.2994
82	4846	6.99	51.85	13.83	0.5012
83	4894	7.19	43.29	15.11	0.4702
84	4808	7.45	60.02	14.51	0.6489
85	4868	3.7	61.32	13.58	0.3082
86	4883	4.71	52.43	15.64	0.3862
87	4834	3.64	58.49	13.63	0.2901
88	4802	8.36	62.35	13.12	0.6838
89	4888	6.86	35.56	17.04	0.4157

90	4854	3.41	50.73	15.67	0.2711
91	4849	4.21	59.71	11.74	0.2951
92	4879	6.81	60.34	13.66	0.5611
93	4825	3.54	57.58	13.70	0.2793
94	4833	3.63	57.23	13.66	0.2839
95	4830	3.66	67.63	13.69	0.3389
96	4815	4.26	58.68	12.27	0.3067
97	4843	4.42	55.91	13.56	0.3350
98	4822	3.76	57.67	13.75	0.2982
99	4827	3.72	62.89	13.18	0.3084
100	4860	3.71	57.43	11.91	0.2538

Date: 02.08.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 12/147**

<b>S.No.</b>	<b>Cont. No.</b>	<b>Factory Wt. (Kg.)</b>	<b>Consistence (%)</b>	<b>MS% (ODB)</b>	<b>MS Content (In Absolute Term)</b>
1	1139	9.33	45.32	13.00	0.5495
2	1173	4	63.85	12.01	0.3068
3	1192	8.59	59.08	13.29	0.6743
4	1161	4.38	50.02	14.11	0.3092
5	1121	3.5	56.98	13.27	0.2646
6	1181	7.07	54.46	13.55	0.5218
7	1110	8.47	68.57	12.89	0.7487
8	1148	4.37	60.30	13.48	0.3553
9	1114	3.45	54.51	13.10	0.2463
10	1151	8.66	57.81	14.24	0.7127
11	1183	7.17	54.95	13.83	0.5449
12	1160	7.64	65.51	12.21	0.6112
13	1142	3.59	57.74	13.66	0.2833
14	1123	3.61	49.93	15.10	0.2722
15	1171	7.74	55.75	12.25	0.5286
16	1122	3.53	56.74	14.42	0.2888
17	1189	3.78	61.39	12.54	0.2911
18	1165	8.46	65.55	11.91	0.6607
19	1127	3.51	54.36	13.87	0.2647
20	1112	3.74	60.04	13.92	0.3127
21	1170	8.55	56.79	12.96	0.6293
22	1108	7.18	60.06	13.50	0.5823
23	1118	3.23	53.45	14.07	0.2429
24	1120	3.51	62.71	13.03	0.2868
25	1199	4.74	65.51	13.11	0.4072
26	1134	3.72	57.17	13.80	0.2935
27	1147	7.63	57.46	12.79	0.5608
28	1128	3.68	54.87	14.23	0.2874
29	1182	7.74	60.06	13.30	0.6184
30	1115	9.18	58.85	13.98	0.7555
31	1129	3.7	38.74	13.40	0.1920
32	1193	4	54.90	13.92	0.3056
33	1119	8.24	48.97	12.13	0.4895
34	1101	4.18	45.84	14.90	0.2855
35	1105	3.74	56.06	14.91	0.3127
36	1158	7.13	61.69	13.02	0.5725
37	1116	8.27	56.92	13.53	0.6368
38	1149	4.26	54.96	13.59	0.3182
39	1103	6.71	50.47	13.89	0.4704
40	1109	3.66	59.28	13.63	0.2957
41	1163	7.43	65.48	12.43	0.6048
42	1152	9.14	53.98	12.63	0.6233



43	1140	7.1	45.03	12.92	0.4132
44	1178	7.14	59.92	12.07	0.5162
45	1198	9.02	65.13	12.82	0.7532
46	1111	8.89	58.31	13.65	0.7076
47	1168	6.83	57.01	12.91	0.5027
48	1138	8.47	61.64	6.83	0.3566
49	1102	3.73	55.94	13.51	0.2820
50	1188	7.3	59.16	13.32	0.5752
51	1153	8.46	59.27	12.22	0.6125
52	1137	8.29	65.84	12.01	0.6557
53	1154	7.75	62.83	12.59	0.6130
54	1117	3.74	55.68	12.68	0.2640
55	1126	7.04	54.03	10.83	0.4118
56	1191	7.41	61.73	13.14	0.6010
57	1157	8.97	59.59	12.74	0.6808
58	1190	9.15	60.63	13.23	0.7338
59	1186	4.3	62.09	11.89	0.3173
60	1107	7.6	46.08	15.73	0.5510
61	1113	7.35	61.00	11.54	0.5174
62	1125	7.64	56.75	14.08	0.6104
63	1124	7.55	49.05	15.19	0.5625
64	1133	8.4	54.85	11.08	0.5107
65	1164	7.54	58.12	12.58	0.5512
66	1162	7.5	57.61	13.14	0.5677
67	1150	8.73	57.18	14.20	0.7089
68	1145	9.25	63.30	13.00	0.7613
69	1159	9.07	54.03	12.16	0.5959
70	1141	1.5	55.82	14.33	0.1200
71	1136	8.61	49.98	13.37	0.5751
72	1185	8.67	62.50	13.58	0.7361
73	1166	7.47	61.49	12.47	0.5729
74	1197	9.15	61.43	14.62	0.8217
75	1135	9.39	42.73	14.18	0.5690
76	1200	8.85	63.58	13.54	0.7620
77	1106	3.75	64.64	14.70	0.3562
78	1195	8.39	63.00	14.27	0.7543
79	1176	6.93	55.85	12.87	0.4983
80	1104	3.47	63.77	13.14	0.2908
81	1169	4.36	52.54	13.68	0.3135
82	1167	7.18	56.64	13.35	0.5428
83	1156	8.98	51.43	12.52	0.5783
84	1180	7.4	50.41	13.37	0.4988
85	1143	8.32	48.89	14.69	0.5974
86	1184	9.03	56.94	12.38	0.6366
87	1175	7.25	52.11	12.84	0.4850
88	1179	7.71	59.36	12.72	0.5821
89	1172	4.33	43.13	14.65	0.2737

90	1132	3.7	56.23	13.84	0.2879
91	1177	7.48	50.97	12.36	0.4712
92	1196	4.55	56.98	14.53	0.3767
93	1146	7.08	56.24	14.15	0.5636
94	1194	4.24	54.89	13.19	0.3070
95	1144	7.13	57.08	13.31	0.5419
96	1155	4.04	56.73	13.57	0.3111
97	1131	7.27	49.71	14.18	0.5125
98	1187	4.1	64.41	13.13	0.3469
99	1174	7.23	58.01	13.93	0.5842
100	1130	8.5	52.59	14.77	0.6604

Date: 01.08.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 40/411**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3979	2.53	43.85	12.59	0.1397
2	3909	3.96	56.61	12.75	0.2859
3	3994	6.86	64.67	11.44	0.5076
4	3951	3.68	59.84	13.60	0.2996
5	3903	7.87	53.11	14.37	0.6005
6	3922	3.56	51.18	15.26	0.2780
7	3986	3.25	55.17	13.87	0.2486
8	3913	3.75	57.54	13.56	0.2925
9	3920	3.89	61.51	12.52	0.2995
10	3938	3.51	65.36	13.82	0.3170
11	3971	3.51	49.89	15.13	0.2650
12	3916	3.88	53.35	13.81	0.2860
13	3956	3.84	55.99	12.77	0.2746
14	3958	3.65	64.64	14.42	0.3402
15	3907	3.71	48.57	14.82	0.2671
16	3923	3.68	62.75	11.86	0.2738
17	3946	3.67	67.07	11.76	0.2896
18	3929	3.67	51.70	13.60	0.2580
19	3960	3.68	59.67	12.70	0.2789
20	3948	3.69	58.72	13.59	0.2945
21	3919	3.56	65.02	13.12	0.3037
22	3952	3.5	54.31	14.10	0.2681
23	3984	3.53	56.31	13.87	0.2757
24	3947	3.6	48.47	13.06	0.2279
25	3944	7.55	58.83	13.09	0.5814
26	3918	3.58	57.47	13.03	0.2681
27	3935	3.55	51.31	15.84	0.2886
28	3939	3.77	62.92	14.81	0.3514
29	3985	3.34	57.56	14.42	0.2772
30	3981	3.54	65.31	14.13	0.3267
31	3965	3.57	57.87	13.98	0.2888
32	3962	3.8	66.08	13.77	0.3458
33	3996	3.78	75.31	11.23	0.3198
34	3987	3.54	62.54	14.42	0.3193
35	3961	3.13	66.17	12.00	0.2485
36	3998	3.56	56.99	12.37	0.2510
37	3991	3.31	47.26	15.51	0.2426
38	3933	3.55	60.29	13.19	0.2822
39	3906	4.44	66.52	13.54	0.4000
40	3990	3.4	55.94	14.59	0.2774
41	3942	3.39	53.82	12.88	0.2349
42	3931	3.64	59.00	12.32	0.2646

43	3915	3.68	58.30	10.67	0.2289
44	3902	3.97	52.62	14.25	0.2977
45	3908	3.7	56.38	13.53	0.2823
46	3970	4.51	53.20	9.57	0.2296
47	3982	3.79	58.94	14.64	0.3271
48	3964	3.8	65.43	13.62	0.3386
49	3968	3.72	54.97	13.32	0.2723
50	3941	8.79	59.58	12.35	0.6469
51	3980	2.76	63.04	11.02	0.1918
52	3967	3.46	52.84	14.50	0.2650
53	3954	3.57	58.39	13.94	0.2906
54	3911	8.76	62.42	14.39	0.7866
55	3995	4.57	68.74	11.00	0.3455
56	3925	3.68	58.67	12.83	0.2771
57	3959	3.74	54.02	14.77	0.2985
58	3926	3.78	61.36	13.85	0.3213
59	3912	3.83	54.96	15.19	0.3198
60	3972	3.62	52.45	15.04	0.2856
61	3977	7.4	54.34	12.51	0.5032
62	3975	4.19	49.45	12.60	0.2610
63	3969	6.21	56.15	14.71	0.5129
64	3989	3.47	61.24	15.37	0.3265
65	3914	3.61	65.17	12.72	0.2993
66	3940	3.66	60.19	14.32	0.3155
67	3904	3.71	62.40	13.80	0.3194
68	3988	3.13	41.83	15.63	0.2047
69	3953	3.57	60.24	15.55	0.3345
70	3936	3.62	52.26	14.93	0.2824
71	3927	3.46	56.70	15.17	0.2976
72	3932	3.9	47.97	15.01	0.2808
73	3950	3.77	61.74	14.50	0.3374
74	3997	8.72	50.90	13.83	0.6139
75	3901	3.53	54.43	13.87	0.2665
76	3993	7.3	57.40	13.47	0.5643
77	3974	3.77	41.19	11.82	0.1836
78	3983	3.22	59.60	15.08	0.2895
79	3910	3.76	52.51	11.71	0.2312
80	3963	3.9	55.64	13.26	0.2878
81	3957	4.69	51.73	14.71	0.3569
82	3955	3.66	47.62	15.10	0.2632
83	3999	4.01	65.25	13.72	0.3589
84	3905	3.77	55.23	13.94	0.2903
85	4000	7.13	57.66	12.40	0.5098
86	3930	3.46	60.11	14.04	0.2920
87	3945	3.7	61.80	12.99	0.2971
88	3966	3.28	56.15	14.07	0.2591
89	3976	4.17	60.35	13.22	0.3328

90	3917	3.73	60.42	14.56	0.3282
91	3978	4.39	48.74	13.21	0.2827
92	3921	3.47	55.74	15.36	0.2970
93	3934	3.73	52.94	12.98	0.2563
94	3928	3.79	61.16	13.72	0.3180
95	3992	3.4	51.40	14.42	0.2519
96	3924	7.53	67.36	14.49	0.7349
97	3937	3.68	45.86	16.59	0.2800
98	3949	7.6	59.52	14.92	0.6749
99	3943	4.53	63.83	13.07	0.3778
100	3973	7.15	55.56	16.31	0.6478

Date: 30.07.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 10/107**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	997	3.73	64.25	13.88	0.3327
2	971	3.6	56.17	13.35	0.2700
3	929	4.57	52.43	13.16	0.3153
4	912	3.66	56.99	13.30	0.2774
5	932	6.51	49.34	15.20	0.4883
6	942	7.06	54.80	14.54	0.5627
7	978	3.66	56.72	12.71	0.2639
8	960	3.65	58.99	14.58	0.3139
9	958	6.87	61.12	14.92	0.6265
10	968	3.58	55.25	14.30	0.2828
11	928	7.65	42.31	13.73	0.4445
12	948	7.49	54.53	12.86	0.5250
13	975	3.74	60.51	12.35	0.2794
14	964	3.58	55.38	14.82	0.2939
15	935	3.95	47.30	11.73	0.2192
16	959	3.97	58.86	13.35	0.3120
17	956	8.81	55.13	14.06	0.6828
18	902	4.43	59.13	14.12	0.3699
19	986	7.55	60.96	14.58	0.6712
20	963	3.81	51.22	13.51	0.2637
21	977	3.7	51.15	15.11	0.2860
22	988	4.29	63.69	14.35	0.3921
23	926	6.67	57.13	14.69	0.5596
24	904	7.34	56.71	13.77	0.5733
25	910	7.4	55.51	14.39	0.5913
26	938	7.41	51.18	12.17	0.4616
27	962	3.63	63.32	14.31	0.3289
28	930	7.51	48.71	12.22	0.4468
29	957	3.95	58.42	14.69	0.3389
30	987	6.86	58.17	14.72	0.5872
31	914	7.23	56.77	13.79	0.5661
32	996	8.53	64.18	13.65	0.7472
33	946	7.25	53.58	13.70	0.5322
34	925	7.02	51.38	14.46	0.5216
35	943	7.19	49.30	14.38	0.5098
36	953	3.41	53.98	12.23	0.2251
37	927	9.02	60.14	13.68	0.7423
38	966	3.46	47.14	14.96	0.2439
39	979	7.27	65.15	12.74	0.6034
40	983	3.6	59.13	13.26	0.2822
41	922	7.25	54.49	14.74	0.5822
42	905	4.44	53.37	13.60	0.3223

43	920	6.85	55.78	14.06	0.5370
44	945	7.56	55.48	14.60	0.6124
45	989	4.52	66.23	12.85	0.3847
46	976	3.43	51.77	15.20	0.2699
47	993	7.01	65.49	13.19	0.6057
48	954	3.74	47.89	14.24	0.2551
49	972	7.52	63.40	12.05	0.5745
50	985	8.25	56.55	14.02	0.6542
51	917	7.16	59.64	13.04	0.5570
52	999	7.62	56.86	14.76	0.6393
53	921	6.5	56.76	12.88	0.4751
54	947	7.31	54.22	13.45	0.5329
55	936	4.24	50.38	12.37	0.2642
56	990	3.45	54.72	13.58	0.2563
57	970	3.85	59.47	11.72	0.2683
58	974	3.71	52.28	11.23	0.2178
59	944	7.58	48.26	13.49	0.4935
60	984	4.18	58.61	13.67	0.3348
61	991	8.79	58.62	13.14	0.6768
62	961	3.94	52.29	13.16	0.2711
63	955	3.99	60.59	12.86	0.3108
64	918	7.53	61.03	12.68	0.5828
65	908	7.11	50.79	14.49	0.5233
66	906	7.36	52.20	13.05	0.5012
67	937	6.63	49.82	13.83	0.4568
68	995	8.51	63.73	13.13	0.7123
69	923	7.65	58.92	12.54	0.5653
70	919	8.32	53.18	14.23	0.6298
71	901	7.14	43.17	14.76	0.4548
72	940	7.27	42.31	14.18	0.4362
73	903	7.31	49.77	14.59	0.5307
74	980	3.6	49.88	14.27	0.2563
75	967	3.65	47.88	15.18	0.2654
76	934	6.72	60.08	11.63	0.4697
77	939	7.52	59.51	12.92	0.5783
78	924	7.19	60.50	13.52	0.5881
79	913	7.25	52.82	13.73	0.5256
80	950	4.44	53.80	13.51	0.3228
81	949	7.82	55.11	14.90	0.6420
82	969	3.57	50.60	13.72	0.2478
83	931	7.18	59.89	13.12	0.5643
84	952	4.47	58.49	11.32	0.2959
85	994	8.25	64.70	12.10	0.6460
86	992	7.38	61.56	11.58	0.5262
87	933	7.09	61.82	13.35	0.5849
88	907	7.5	59.43	11.90	0.5303
89	965	8.27	63.83	13.82	0.7294

90	982	3.8	57.89	14.10	0.3101
91	981	3.84	59.18	12.96	0.2945
92	998	8.94	64.23	13.62	0.7822
93	911	3.38	53.31	13.06	0.2352
94	941	7.25	58.66	12.99	0.5524
95	951	7.92	49.60	13.97	0.5489
96	916	7.44	63.73	11.78	0.5587
97	909	7.3	58.12	13.06	0.5541
98	1000	7.4	63.42	13.84	0.6497
99	973	3.58	67.00	14.12	0.3387
100	915	7.45	53.23	12.49	0.4954

Date: 28.07.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 32/371**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3192	4.62	53.88	10.97	0.2730
2	3140	7.66	58.80	13.01	0.5860
3	3113	3.28	67.49	11.99	0.2654
4	3141	3.18	56.31	15.02	0.2690
5	3181	3.25	58.12	13.76	0.2600
6	3162	3.63	56.28	13.36	0.2730
7	3108	7.06	60.60	12.87	0.5507
8	3154	4.37	51.47	14.80	0.3330
9	3171	3.63	61.36	12.53	0.2791
10	3151	7.52	55.74	14.48	0.6069
11	3101	4	65.67	13.57	0.3564
12	3102	8.89	68.77	13.00	0.7948
13	3135	8.73	62.88	12.99	0.7132
14	3144	4.3	51.28	15.25	0.3363
15	3128	7.63	62.14	12.49	0.5921
16	3177	3.61	63.44	14.83	0.3397
17	3133	7.32	59.33	13.40	0.5819
18	3138	7.17	47.98	14.19	0.4883
19	3103	6.91	58.12	13.58	0.5452
20	3110	3.32	49.58	14.06	0.2314
21	3199	4.2	56.19	12.58	0.2969
22	3137	7.39	57.80	13.51	0.5772
23	3153	3.67	67.98	13.55	0.3380
24	3105	3.61	58.55	12.06	0.2549
25	3183	4.52	62.42	12.24	0.3453
26	3165	7.51	62.86	13.03	0.6151
27	3120	3.47	55.42	12.43	0.2391
28	3126	3.56	58.77	13.08	0.2738
29	3107	3.5	60.60	11.98	0.2541
30	3169	7.27	60.21	13.80	0.6041
31	3104	4.2	60.68	12.36	0.3150
32	3198	4.19	59.29	12.62	0.3134
33	3182	6.96	57.66	11.67	0.4684
34	3149	4.24	54.90	13.64	0.3176
35	3164	4.22	58.09	15.72	0.3853
36	3173	3.63	53.91	13.11	0.2566
37	3159	3.71	62.77	14.19	0.3306
38	3200	3.92	54.59	12.11	0.2591
39	3195	3.94	60.35	11.35	0.2699
40	3106	2.94	64.23	12.58	0.2376
41	3191	3.34	48.12	14.17	0.2278
42	3189	4.18	61.91	12.83	0.3319

43	3146	4.47	63.46	12.35	0.3504
44	3179	4.11	57.12	14.30	0.3358
45	3155	4.24	58.30	10.55	0.2608
46	3147	4.32	62.97	13.16	0.3581
47	3166	7.23	45.23	15.79	0.5162
48	3187	7.47	58.70	14.53	0.6372
49	3117	3.47	45.23	14.33	0.2249
50	3188	7.05	52.42	13.77	0.5090
51	3114	3.87	51.18	15.20	0.3011
52	3163	4.53	58.82	13.02	0.3470
53	3116	4.28	50.88	14.68	0.3197
54	3143	8.43	54.57	15.47	0.7115
55	3186	6.24	59.33	11.41	0.4224
56	3109	7.13	62.78	12.97	0.5804
57	3196	3.87	63.66	10.73	0.2643
58	3127	7.28	57.35	13.91	0.5809
59	3129	6.98	60.11	12.93	0.5423
60	3118	3.6	59.32	13.64	0.2912
61	3112	3.54	63.97	12.27	0.2779
62	3121	3.31	53.50	12.32	0.2181
63	3160	8.63	65.31	13.75	0.7750
64	3172	4.16	59.51	13.24	0.3278
65	3167	7.35	54.58	14.53	0.5829
66	3134	7.51	59.15	13.83	0.6143
67	3193	4.11	56.77	12.77	0.2980
68	3174	4.36	56.14	13.98	0.3423
69	3168	9	57.60	12.69	0.6579
70	3194	3.9	45.89	13.99	0.2504
71	3178	4.76	56.31	11.31	0.3032
72	3175	4.22	60.66	13.93	0.3566
73	3190	6.47	48.44	14.10	0.4419
74	3142	3.4	50.49	15.41	0.2645
75	3197	6.92	53.31	12.68	0.4678
76	3111	3.55	54.63	14.08	0.2730
77	3180	4.27	52.33	14.81	0.3309
78	3115	7.72	55.35	12.52	0.5350
79	3185	3.89	51.53	13.29	0.2665
80	3139	3.53	56.36	13.29	0.2644
81	3152	7.1	46.58	14.06	0.4651
82	3136	4.2	53.64	14.39	0.3242
83	3150	7.19	56.19	13.74	0.5551
84	3148	8.03	58.48	12.09	0.5677
85	3158	4.42	64.59	13.56	0.3872
86	3161	3.38	58.01	14.91	0.2924
87	3132	6.97	56.03	12.12	0.4733
88	3122	3.56	62.30	13.96	0.3097
89	3125	7.24	69.46	12.06	0.6067

90	3176	3.68	56.98	13.11	0.2749
91	3156	3.45	60.82	14.35	0.3012
92	3145	7.97	62.06	11.54	0.5707
93	3170	7.36	65.91	12.14	0.5888
94	3123	7.12	58.23	15.23	0.6315
95	3184	8.44	59.18	11.73	0.5857
96	3119	3.51	63.46	12.21	0.2720
97	3124	4.02	56.99	13.27	0.3039
98	3131	8.6	58.92	14.15	0.7172
99	3130	4.37	59.12	12.94	0.3343
100	3157	3.29	54.28	13.45	0.2402

Date: 25.07.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 45/437**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4475	3.7	45.51	15.16	0.2553
2	4416	7.08	56.04	14.69	0.5827
3	4485	7.13	58.35	12.03	0.5005
4	4465	7.26	51.65	13.44	0.5038
5	4437	4.13	48.40	15.29	0.3056
6	4461	4.29	54.14	13.71	0.3183
7	4457	3.51	52.16	14.24	0.2608
8	4478	4.18	58.05	13.61	0.3302
9	4418	4.47	62.19	14.26	0.3965
10	4454	3.68	55.19	13.34	0.2708
11	4493	3.04	59.47	13.28	0.2402
12	4430	4.11	53.09	15.45	0.3370
13	4474	3.53	55.52	15.02	0.2944
14	4500	4.06	52.16	13.55	0.2870
15	4450	3.95	43.80	16.19	0.2801
16	4425	4.22	52.67	14.32	0.3182
17	4408	4.29	57.96	13.73	0.3415
18	4492	4.07	61.94	12.93	0.3260
19	4445	8.71	58.80	12.04	0.6167
20	4459	3.49	46.46	15.76	0.2555
21	4432	3.55	49.61	14.57	0.2567
22	4486	4.26	63.86	13.56	0.3689
23	4451	6.95	61.19	13.60	0.5782
24	4403	3.68	57.10	12.80	0.2690
25	4497	3.95	58.67	12.70	0.2943
26	4415	7.65	50.21	14.74	0.5661
27	4476	7.2	53.71	11.26	0.4356
28	4467	3.51	56.07	13.47	0.2650
29	4404	3.56	51.14	13.38	0.2435
30	4473	4.07	58.80	13.23	0.3166
31	4422	3.67	58.20	13.97	0.2984
32	4491	4.24	54.71	11.39	0.2642
33	4490	4.18	52.76	12.11	0.2671
34	4412	3.65	52.98	13.23	0.2559
35	4470	3.54	47.41	12.78	0.2145
36	4496	2.93	58.13	11.20	0.1907
37	4484	5.43	54.12	13.03	0.3828
38	4410	7.98	49.63	13.60	0.5387
39	4458	3.38	65.30	11.01	0.2430
40	4406	4.52	51.51	14.17	0.3300
41	4463	3.53	53.41	13.18	0.2485
42	4464	3.44	49.09	12.65	0.2136

43	4482	3.58	48.15	13.56	0.2338
44	4499	4.11	47.72	12.49	0.2450
45	4480	6.86	57.45	13.46	0.5303
46	4417	4.26	57.87	14.07	0.3468
47	4446	4.17	56.03	12.64	0.2952
48	4423	7.35	52.87	13.16	0.5116
49	4494	4.47	54.01	11.24	0.2713
50	4413	7.59	45.15	14.68	0.5032
51	4441	3.79	49.25	12.61	0.2354
52	4409	4.63	57.54	14.34	0.3820
53	4407	4.14	46.81	13.89	0.2691
54	4483	6.71	50.18	13.81	0.4650
55	4448	7.39	51.99	13.91	0.5343
56	4479	4.1	53.71	13.85	0.3050
57	4444	4.2	63.74	13.84	0.3704
58	4449	4.73	50.94	13.23	0.3188
59	4447	4.5	54.34	12.90	0.3155
60	4469	3.58	48.84	14.35	0.2510
61	4420	4.26	51.99	11.73	0.2599
62	4402	7.82	49.89	14.21	0.5544
63	4428	3.98	57.23	13.44	0.3061
64	4436	4.2	57.27	14.34	0.3448
65	4487	7.06	59.04	13.62	0.5676
66	4456	3.49	58.48	13.20	0.2694
67	4440	6.94	59.43	9.96	0.4108
68	4419	4.26	60.42	14.05	0.3617
69	4488	4.28	61.71	11.67	0.3082
70	4405	4.31	52.41	13.80	0.3116
71	4426	4.4	56.55	14.66	0.3648
72	4455	3.61	54.57	13.52	0.2664
73	4439	8.31	47.01	13.91	0.5435
74	4462	3.55	64.54	13.25	0.3035
75	4466	3.42	53.02	15.09	0.2736
76	4468	3.48	41.52	13.97	0.2018
77	4498	3.72	51.75	13.68	0.2634
78	4424	4.33	46.27	14.26	0.2858
79	4481	3.76	49.48	13.48	0.2508
80	4443	3.82	52.31	13.42	0.2682
81	4489	4.28	54.72	13.56	0.3176
82	4421	8.01	62.80	12.01	0.6040
83	4438	4.18	56.67	12.99	0.3076
84	4452	3.53	50.33	13.57	0.2411
85	4460	7.08	45.77	13.13	0.4255
86	4429	7.51	56.92	14.39	0.6151
87	4427	7.26	60.25	13.51	0.5910
88	4431	4.17	54.97	14.30	0.3278
89	4435	7.27	46.08	14.82	0.4965

90	4433	8.77	49.43	15.78	0.6841
91	4414	3.89	53.94	13.79	0.2894
92	4471	3.96	60.64	13.18	0.3164
93	4453	3.49	59.09	13.59	0.2802
94	4472	8.24	58.98	13.29	0.6460
95	4477	3.97	52.71	14.95	0.3128
96	4442	5.85	47.61	14.53	0.4048
97	4495	3.87	54.13	12.65	0.2651
98	4434	6.35	69.51	13.03	0.5753
99	4411	4.4	55.50	14.23	0.3476
100	4401	3.97	61.56	12.36	0.3021

Date: 23.07.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 25/275**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2463	7.14	59.21	8.41	0.3556
2	2432	7.43	60.49	15.82	0.7111
3	2451	8.61	64.04	14.26	0.7861
4	2416	7.51	63.09	13.92	0.6594
5	2483	9.1	68.97	13.83	0.8681
6	2409	4.45	65.73	13.95	0.4081
7	2449	8.5	76.74	13.68	0.8925
8	2482	4.28	71.25	12.22	0.3728
9	2493	3.59	51.76	16.31	0.3030
10	2441	3.42	63.84	14.99	0.3273
11	2462	7.19	66.86	15.60	0.7499
12	2475	8.6	59.07	14.86	0.7551
13	2473	4.05	70.54	14.03	0.4010
14	2410	7.77	55.01	15.11	0.6457
15	2495	4.46	73.91	14.40	0.4745
16	2455	9.61	62.08	14.82	0.8841
17	2430	7.85	54.10	15.10	0.6413
18	2440	3.54	56.69	15.70	0.3151
19	2468	7.15	63.83	15.13	0.6907
20	2443	3.28	55.93	15.79	0.2896
21	2431	6.93	59.02	12.32	0.5038
22	2403	7.51	60.24	12.90	0.5835
23	2420	4.34	60.89	13.22	0.3494
24	2405	4.53	58.32	12.47	0.3293
25	2448	7.03	64.90	13.61	0.6207
26	2476	3.97	64.64	14.17	0.3637
27	2454	7.12	66.39	14.11	0.6671
28	2480	3.7	61.22	15.08	0.3415
29	2421	7.33	52.92	14.02	0.5439
30	2415	4.17	60.99	15.20	0.3866
31	2470	7.08	74.16	14.27	0.7491
32	2412	8.58	53.07	14.51	0.6607
33	2500	6.79	45.39	15.36	0.4733
34	2425	8.77	55.85	15.81	0.7744
35	2427	7.49	62.26	15.07	0.7026
36	2494	3.65	49.69	15.11	0.2741
37	2450	8.44	62.78	14.18	0.7512
38	2481	4.34	58.35	11.11	0.2812
39	2426	3.85	59.35	11.81	0.2699
40	2488	4.2	60.78	15.78	0.4028
41	2485	3.52	67.77	12.11	0.2890
42	2499	7.01	54.73	14.20	0.5447

43	2486	7.33	60.31	13.96	0.6172
44	2422	9	58.53	13.45	0.7083
45	2489	8.64	51.60	11.36	0.5063
46	2407	4.06	50.04	14.25	0.2895
47	2461	4.11	62.61	15.83	0.4073
48	2445	3.47	54.25	14.76	0.2779
49	2423	7.04	56.93	15.60	0.6252
50	2411	7.54	58.85	13.88	0.6160
51	2433	3.68	60.79	14.31	0.3202
52	2474	8.76	68.12	12.67	0.7560
53	2444	3.53	61.40	13.62	0.2951
54	2498	6.94	57.46	12.50	0.4983
55	2479	6.97	57.47	7.03	0.2816
56	2429	4.14	58.42	13.88	0.3358
57	2453	7.15	60.26	13.19	0.5684
58	2434	4.58	67.71	5.01	0.1553
59	2438	3.56	65.80	14.04	0.3289
60	2458	4.07	72.24	13.19	0.3879
61	2439	6.68	66.35	12.87	0.5705
62	2406	4.3	56.68	14.31	0.3487
63	2496	6.26	59.27	13.67	0.5071
64	2460	7.16	76.19	12.46	0.6795
65	2414	7.33	64.15	14.87	0.6993
66	2478	7.28	65.97	14.20	0.6821
67	2424	4.21	62.80	16.61	0.4391
68	2446	3.46	53.65	14.58	0.2706
69	2413	8.47	61.16	13.72	0.7106
70	2408	4.63	54.86	13.78	0.3500
71	2404	4.18	62.23	14.03	0.3649
72	2464	4.19	67.02	14.07	0.3951
73	2484	6.35	56.91	12.69	0.4585
74	2452	8.63	68.65	13.95	0.8268
75	2457	4.73	64.19	14.38	0.4366
76	2469	4.52	65.04	13.70	0.4027
77	2401	4.33	66.45	14.16	0.4075
78	2419	7.31	62.56	12.84	0.5870
79	2491	6.81	67.49	13.13	0.6034
80	2487	8.62	54.72	13.85	0.6534
81	2471	8.52	67.16	12.95	0.7412
82	2456	7.4	64.29	12.88	0.6127
83	2436	3.56	62.14	13.12	0.2901
84	2417	4.25	62.43	13.28	0.3523
85	2437	3.67	61.56	13.86	0.3131
86	2402	3.63	62.54	14.84	0.3369
87	2467	4.18	64.37	14.26	0.3837
88	2418	4.42	58.40	14.26	0.3682
89	2477	4.58	66.33	13.22	0.4017



90	2447	4.59	59.98	13.49	0.3713
91	2442	4.29	53.66	12.97	0.2986
92	2492	6.96	55.47	13.88	0.5359
93	2490	4.2	59.69	14.21	0.3562
94	2465	3.96	68.20	13.97	0.3774
95	2459	8.59	64.17	13.14	0.7241
96	2466	8.69	61.84	8.94	0.4806
97	2428	4.54	65.99	13.37	0.4004
98	2497	3.48	57.33	14.48	0.2888
99	2435	3.62	63.89	15.54	0.3595
100	2472	7.41	61.56	14.47	0.6602

**Name of Division : Mandsaur-II**

**Challan No. : 39/410**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3834	3.23	65.50	14.08	0.2978
2	3890	3.46	67.99	15.83	0.3723
3	3857	4.18	64.33	14.02	0.3770
4	3855	3.68	58.42	12.92	0.2778
5	3870	3.73	62.05	14.09	0.3260
6	3815	4.34	59.58	13.48	0.3485
7	3877	3.82	59.33	15.00	0.3400
8	3831	6.97	66.35	14.36	0.6642
9	3828	6.96	62.06	14.82	0.6403
10	3810	6.91	54.06	15.58	0.5818
11	3824	3.54	59.10	15.16	0.3172
12	3869	4.41	64.91	13.91	0.3982
13	3868	3.7	56.37	13.75	0.2867
14	3847	7.36	60.71	13.44	0.6006
15	3825	7.4	55.69	14.44	0.5950
16	3866	4.45	61.27	14.85	0.4049
17	3871	3.5	59.16	13.42	0.2779
18	3802	4.26	49.46	14.33	0.3020
19	3814	3.91	55.21	14.42	0.3112
20	3816	3.44	54.68	13.15	0.2473
21	3829	3.57	63.04	14.17	0.3188
22	3823	3.72	71.83	14.62	0.3906
23	3867	3.57	56.35	12.39	0.2492
24	3806	4.41	53.66	13.14	0.3109
25	3874	4.66	67.02	15.50	0.4842
26	3879	4.38	56.14	14.02	0.3447
27	3862	4.31	64.30	13.17	0.3651
28	3808	3.93	57.20	13.06	0.2936
29	3811	4.12	48.39	15.09	0.3008
30	3837	3.41	67.30	14.49	0.3325
31	3872	3.47	60.35	14.25	0.2984
32	3873	3.5	49.40	14.33	0.2478
33	3807	4.15	51.40	15.86	0.3382

34	3876	4.51	68.25	13.80	0.4248
35	3843	7.14	69.82	13.15	0.6555
36	3895	3.7	63.06	13.29	0.3101
37	3827	3.5	61.94	15.42	0.3342
38	3889	7.34	55.21	14.00	0.5674
39	3854	3.81	55.14	13.44	0.2823
40	3897	3.4	56.73	15.09	0.2910
41	3891	4.5	62.23	14.96	0.4189
42	3899	3.62	55.64	15.46	0.3113
43	3822	8.65	54.80	13.89	0.6583
44	3886	3.73	60.19	12.59	0.2827
45	3801	3.44	54.76	12.31	0.2319
46	3861	4.02	60.34	13.56	0.3288
47	3882	3.77	52.00	13.79	0.2703
48	3850	3.99	45.84	14.03	0.2566
49	3878	3.79	65.64	14.61	0.3635
50	3851	3.51	51.92	12.83	0.2338
51	3821	3.63	63.64	13.03	0.3009
52	3833	8.56	66.07	14.48	0.8192
53	3894	3.85	62.70	13.57	0.3276
54	3817	6.97	65.20	14.40	0.6545
55	3884	3.69	63.04	14.28	0.3321
56	3856	3.57	55.70	13.91	0.2767
57	3883	3.86	61.07	13.23	0.3119
58	3842	7.34	62.28	13.74	0.6283
59	3812	7.3	58.43	11.89	0.5074
60	3845	4.12	65.43	13.08	0.3527
61	3830	4.16	62.81	13.26	0.3465
62	3864	7.01	60.06	12.75	0.5370
63	3860	3.58	56.67	12.69	0.2574
64	3839	7.07	67.56	13.85	0.6618
65	3892	4.17	61.65	13.43	0.3453
66	3896	4.48	57.11	13.96	0.3571
67	3840	7.22	61.95	14.35	0.6419
68	3898	3.57	59.19	12.33	0.2606
69	3813	3.46	55.15	11.89	0.2270
70	3803	4.2	50.56	13.96	0.2965
71	3852	8.38	62.29	13.42	0.7006
72	3880	3.79	61.07	15.23	0.3525
73	3835	3.68	64.31	14.52	0.3437
74	3805	7.59	60.44	13.67	0.6269
75	3900	3.72	62.40	12.93	0.3002
76	3819	7.3	64.22	13.97	0.6548
77	3865	3.88	50.42	13.65	0.2669
78	3893	3.82	53.03	13.33	0.2701
79	3820	7.36	59.67	14.73	0.6469
80	3826	3.27	56.23	15.21	0.2796

81	3818	8.08	65.12	12.04	0.6335
82	3888	4.29	62.83	12.65	0.3411
83	3836	3.77	61.66	13.25	0.3080
84	3887	3.7	58.04	11.51	0.2472
85	3881	3.88	65.10	13.39	0.3383
86	3832	3.78	66.10	13.40	0.3349
87	3846	7.19	58.88	12.82	0.5428
88	3841	4.39	69.34	13.76	0.4188
89	3848	4.16	54.62	14.68	0.3336
90	3853	6.91	59.29	13.53	0.5542
91	3844	7.12	59.86	11.88	0.5062
92	3849	3.88	57.99	13.38	0.3011
93	3809	4.16	57.55	12.37	0.2962
94	3838	6.65	63.78	12.61	0.5347
95	3859	7.27	64.57	12.99	0.6100
96	3875	3.74	63.23	12.70	0.3003
97	3863	4.45	65.72	13.92	0.4072
98	3885	3.95	54.23	14.27	0.3057
99	3858	4.4	58.30	15.30	0.3925
100	3804	8.16	54.21	14.70	0.6504

Date: 21.07.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 23/273**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2268	7.47	49.67	14.94	0.5543
2	2284	7.35	55.22	13.67	0.5549
3	2287	6.81	61.10	13.55	0.5639
4	2299	3.9	57.87	16.23	0.3662
5	2250	7.37	64.91	14.47	0.6920
6	2265	4.46	56.39	14.59	0.3671
7	2227	4.21	68.69	14.81	0.4282
8	2280	7.28	67.77	13.21	0.6516
9	2254	4.48	64.38	13.89	0.4005
10	2208	4.52	61.34	14.54	0.4032
11	2230	3.85	58.07	15.77	0.3527
12	2274	7.32	59.65	14.75	0.6442
13	2222	7.96	62.32	14.67	0.7275
14	2247	3.61	61.22	16.11	0.3559
15	2205	4.43	58.07	16.39	0.4217
16	2263	4.82	59.51	15.22	0.4367
17	2253	3.83	64.95	15.50	0.3857
18	2216	3.93	58.85	13.44	0.3109
19	2252	3.64	62.47	15.86	0.3607
20	2297	7.27	62.68	15.14	0.6899
21	2256	4.63	56.82	14.43	0.3797
22	2218	7.6	63.17	12.78	0.6133
23	2236	3.8	66.49	12.51	0.3162
24	2206	4.31	64.20	12.41	0.3435
25	2204	7.12	59.27	11.37	0.4799
26	2279	3.8	70.44	13.07	0.3500
27	2233	3.23	61.56	13.43	0.2671
28	2272	6.63	51.43	15.38	0.5244
29	2235	3.86	57.87	14.10	0.3150
30	2285	7.45	60.11	12.89	0.5774
31	2245	3.72	60.08	12.00	0.2682
32	2264	4.34	61.73	13.48	0.3611
33	2244	3.81	58.85	14.04	0.3147
34	2221	4.39	55.93	13.77	0.3380
35	2281	7.25	53.16	14.48	0.5583
36	2241	3.82	56.01	13.80	0.2953
37	2275	7.22	61.81	14.42	0.6433
38	2223	3.86	60.07	13.85	0.3212
39	2273	4.52	57.72	13.88	0.3621
40	2210	6.68	59.29	14.15	0.5605
41	2276	7.33	62.40	13.48	0.6165
42	2238	3.52	62.63	13.99	0.3084

43	2282	4.15	52.67	13.78	0.3013
44	2224	7.57	62.45	12.63	0.5973
45	2203	4.33	62.48	12.29	0.3325
46	2255	3.69	54.10	13.42	0.2679
47	2288	4.28	60.43	13.09	0.3385
48	2214	7.34	58.93	13.08	0.5659
49	2266	3.68	61.76	12.55	0.2852
50	2293	4.66	65.90	11.94	0.3667
51	2232	4.7	62.80	13.20	0.3896
52	2278	4.36	57.20	13.51	0.3370
53	2246	3.42	58.66	12.79	0.2565
54	2243	3.56	59.19	13.08	0.2755
55	2209	7.75	57.46	13.57	0.6045
56	2258	3.65	67.12	12.80	0.3135
57	2231	4.31	63.77	11.75	0.3228
58	2267	7.03	57.10	13.19	0.5294
59	2240	3.72	54.65	11.84	0.2407
60	2290	4.19	57.20	14.13	0.3386
61	2207	7.86	57.42	14.58	0.6579
62	2251	4.35	55.71	13.70	0.3319
63	2215	4.51	58.15	13.59	0.3563
64	2294	7.59	58.40	12.19	0.5404
65	2270	3.65	62.05	12.75	0.2887
66	2261	3.65	61.29	12.92	0.2891
67	2257	7.42	60.63	12.39	0.5572
68	2211	4.43	64.23	12.75	0.3628
69	2234	3.55	61.39	14.01	0.3053
70	2237	4.4	62.92	13.22	0.3661
71	2296	7.27	57.62	13.48	0.5649
72	2242	7.57	58.28	14.57	0.6427
73	2248	6.9	62.15	14.42	0.6182
74	2300	7.88	62.63	6.66	0.3286
75	2291	3.55	52.98	15.18	0.2854
76	2259	4.52	62.75	13.77	0.3905
77	2228	3.42	58.42	14.04	0.2804
78	2271	7.47	62.31	13.21	0.6148
79	2239	7.2	59.59	12.69	0.5443
80	2212	4.48	59.47	13.96	0.3718
81	2202	4.21	58.79	12.64	0.3128
82	2289	7.05	62.99	13.24	0.5880
83	2262	4.38	51.68	15.87	0.3592
84	2286	7.14	57.78	13.22	0.5455
85	2269	6.84	57.57	14.49	0.5705
86	2292	3.54	60.32	14.47	0.3090
87	2201	3.65	58.79	12.69	0.2723
88	2225	4.55	58.41	12.62	0.3353
89	2277	7.09	61.03	14.53	0.6289

90	2220	6.84	53.11	14.82	0.5383
91	2260	4.47	55.97	13.74	0.3437
92	2229	3.82	64.53	13.40	0.3304
93	2213	4.76	53.87	13.42	0.3441
94	2249	3.76	62.94	14.32	0.3388
95	2226	3.77	58.95	13.66	0.3035
96	2295	7.38	51.70	12.96	0.4945
97	2219	3.8	58.59	13.04	0.2903
98	2283	4.48	55.39	13.40	0.3324
99	2298	9.49	58.60	14.32	0.7962
100	2217	4	61.23	14.63	0.3584

Date: 20.07.2022

**अस्वीकरण:—**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 48/471**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4732	4.23	63.69	11.90	0.3206
2	4793	3.6	58.04	13.15	0.2747
3	4767	9.04	63.61	12.22	0.7024
4	4705	3.56	57.17	15.08	0.3069
5	4740	3.53	55.71	12.65	0.2489
6	4794	3.28	61.13	13.25	0.2657
7	4722	3.82	66.50	13.16	0.3343
8	4717	3.33	67.51	13.33	0.2997
9	4754	3.79	68.69	12.17	0.3168
10	4770	3.64	54.50	14.42	0.2861
11	4708	4.36	61.86	12.56	0.3388
12	4714	4.27	66.67	13.35	0.3800
13	4746	3.6	65.16	13.12	0.3078
14	4788	4.44	65.00	13.80	0.3983
15	4797	3.61	57.73	13.36	0.2783
16	4751	4.59	65.95	10.49	0.3176
17	4724	3.57	62.55	14.53	0.3245
18	4709	3.44	61.28	13.72	0.2893
19	4795	4.26	60.52	12.28	0.3165
20	4727	3.6	58.21	15.10	0.3164
21	4756	4.15	66.50	14.47	0.3992
22	4775	3.47	66.21	13.61	0.3126
23	4748	4.55	51.63	15.20	0.3572
24	4778	4.53	59.14	15.34	0.4109
25	4798	4.15	65.50	14.46	0.3930
26	4704	4.26	67.51	13.45	0.3868
27	4702	3.49	59.26	14.33	0.2963
28	4728	2.99	70.03	15.86	0.3322
29	4738	4.36	64.33	13.77	0.3863
30	4777	3.44	57.53	14.36	0.2841
31	4768	3.19	58.53	14.40	0.2689
32	4769	4.75	53.86	14.15	0.3620
33	4789	4.33	55.95	15.07	0.3650
34	4782	4.28	59.88	14.61	0.3745
35	4758	3.5	70.36	12.72	0.3133
36	4776	3.46	63.66	12.43	0.2737
37	4792	7.18	65.65	13.83	0.6519
38	4783	3.75	58.25	14.99	0.3274
39	4734	3.44	48.62	15.55	0.2601
40	4703	3.48	56.89	15.10	0.2989
41	4723	3.4	62.94	13.55	0.2900
42	4784	3.63	67.56	13.25	0.3249

43	4711	3.53	56.53	14.65	0.2923
44	4790	4.34	55.54	14.85	0.3581
45	4766	3.55	63.06	13.11	0.2936
46	4718	4.3	54.97	15.01	0.3548
47	4747	3.72	55.58	13.78	0.2850
48	4781	3.64	59.34	13.09	0.2828
49	4761	3.63	67.48	14.03	0.3438
50	4726	3.6	64.41	13.51	0.3132
51	4786	3.66	56.97	12.43	0.2591
52	4730	3.28	61.09	15.55	0.3116
53	4760	4.18	69.23	13.09	0.3787
54	4713	3.58	64.93	12.21	0.2839
55	4773	3.31	67.35	14.82	0.3303
56	4780	7.33	55.00	13.60	0.5483
57	4750	4.33	51.23	14.87	0.3299
58	4752	3.78	65.33	13.15	0.3247
59	4733	3.47	62.12	14.15	0.3050
60	4774	4.53	59.40	14.48	0.3896
61	4759	3.55	66.93	12.77	0.3035
62	4745	3.46	68.55	14.02	0.3325
63	4735	3.62	63.54	13.16	0.3026
64	4701	4.32	58.21	14.29	0.3594
65	4715	4.24	68.19	13.64	0.3943
66	4755	3.84	70.45	13.46	0.3640
67	4720	4.34	65.67	13.00	0.3706
68	4749	4.45	52.90	13.69	0.3222
69	4721	3	56.69	12.84	0.2184
70	4779	4.5	60.29	12.09	0.3281
71	4796	3.74	62.85	12.59	0.2958
72	4757	4.58	61.84	12.82	0.3632
73	4742	3.99	57.78	12.96	0.2989
74	4706	7.47	62.53	12.94	0.6043
75	4712	3.26	73.94	13.69	0.3299
76	4791	3.61	66.36	13.17	0.3155
77	4729	4.06	66.11	12.99	0.3488
78	4736	3.46	70.95	11.97	0.2938
79	4799	3.64	63.78	12.53	0.2908
80	4725	3.57	68.66	13.22	0.3242
81	4707	3.53	68.14	13.12	0.3156
82	4719	4.27	66.70	13.69	0.3899
83	4771	3.52	59.42	14.78	0.3091
84	4764	4.54	58.90	11.12	0.2974
85	4716	3.21	56.29	12.45	0.2250
86	4743	4.25	62.88	13.10	0.3502
87	4772	3.81	58.13	11.51	0.2549
88	4765	3.53	63.63	12.12	0.2722
89	4785	3.61	60.46	14.34	0.3130



90	4744	3.11	58.18	12.68	0.2295
91	4739	3.4	58.85	14.66	0.2934
92	4741	3.01	54.94	14.16	0.2342
93	4787	3.91	56.89	14.08	0.3132
94	4800	4.22	65.70	13.00	0.3604
95	4763	3.58	68.11	12.04	0.2936
96	4710	3.48	63.76	14.07	0.3122
97	4737	3.29	62.97	14.04	0.2908
98	4762	3.36	55.24	13.70	0.2544
99	4753	3.66	72.63	12.90	0.3429
100	4731	3.11	54.37	14.02	0.2370

Date: 15.07.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 33/372**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3253	4.27	46.45	15.03	0.2980
2	3216	8.23	55.77	13.27	0.6090
3	3282	3.63	61.38	13.20	0.2940
4	3205	7.53	53.04	11.82	0.4721
5	3267	6.9	58.11	14.01	0.5617
6	3295	4.44	69.82	13.81	0.4280
7	3287	3.6	64.17	13.53	0.3125
8	3243	4.25	60.19	13.49	0.3451
9	3249	7.21	63.65	14.34	0.6583
10	3220	8.08	58.10	12.50	0.5866
11	3203	6.36	41.61	15.93	0.4217
12	3261	3.67	63.49	12.84	0.2991
13	3242	4.53	62.12	13.07	0.3678
14	3236	4.23	64.89	13.35	0.3663
15	3279	8.57	65.35	13.73	0.7687
16	3265	7.22	65.29	13.06	0.6159
17	3278	3.65	68.71	12.11	0.3037
18	3250	8.54	67.97	12.71	0.7379
19	3266	3.59	50.47	14.36	0.2603
20	3237	4.42	68.86	11.76	0.3580
21	3262	3.73	74.11	11.96	0.3305
22	3280	4.51	58.90	12.28	0.3261
23	3272	3.41	63.97	12.41	0.2708
24	3210	4.03	56.70	13.19	0.3014
25	3206	6.47	53.31	14.39	0.4962
26	3296	4.36	62.85	13.30	0.3645
27	3271	7.55	58.81	12.85	0.5708
28	3273	7.84	71.49	12.66	0.7095
29	3234	4.29	59.78	12.71	0.3260
30	3286	7.17	56.41	13.77	0.5571
31	3292	3.59	61.47	15.26	0.3367
32	3240	7.1	49.14	15.83	0.5524
33	3245	4.07	61.08	14.18	0.3525
34	3229	3.73	60.62	13.13	0.2969
35	3251	8.71	64.05	14.32	0.7987
36	3256	3.64	62.36	13.71	0.3112
37	3276	7.2	59.59	13.74	0.5897
38	3223	3.93	47.07	13.45	0.2488
39	3270	3.69	61.38	11.97	0.2712
40	3238	3.83	60.00	13.62	0.3129
41	3289	4.22	63.03	13.80	0.3671
42	3291	7.31	63.09	12.06	0.5563

43	3222	7.22	51.25	6.81	0.2520
44	3247	4.2	58.31	13.50	0.3305
45	3228	7.09	59.71	13.06	0.5530
46	3219	3.92	54.91	14.59	0.3140
47	3281	3.54	64.80	13.60	0.3119
48	3227	3.53	59.33	12.96	0.2715
49	3275	8.41	63.67	13.32	0.7132
50	3215	3.74	62.41	11.94	0.2786
51	3258	7.49	64.44	13.92	0.6719
52	3259	4.16	61.49	12.62	0.3228
53	3263	3.5	55.73	14.32	0.2793
54	3202	4.25	54.18	13.95	0.3213
55	3226	1.54	62.00	13.16	0.1257
56	3293	4.13	62.28	14.93	0.3841
57	3255	3.75	66.82	13.30	0.3334
58	3214	7.25	58.29	13.14	0.5554
59	3300	4.28	61.61	13.68	0.3608
60	3246	4.53	60.32	12.70	0.3470
61	3254	4.68	72.37	12.41	0.4203
62	3268	4.12	59.77	14.89	0.3667
63	3248	4.39	63.81	12.63	0.3538
64	3241	7.22	61.41	14.12	0.6260
65	3212	3.91	50.83	14.95	0.2972
66	3239	3.72	60.64	14.30	0.3225
67	3297	7.07	61.27	14.02	0.6073
68	3209	3.98	63.05	11.63	0.2917
69	3244	7.22	67.79	14.66	0.7177
70	3284	3.57	65.16	14.46	0.3363
71	3299	3.57	72.39	14.15	0.3656
72	3213	3.73	57.79	13.29	0.2865
73	3298	4.12	61.80	14.66	0.3733
74	3264	4.49	62.21	12.14	0.3390
75	3232	7.34	63.50	12.69	0.5916
76	3218	3.84	54.25	13.12	0.2734
77	3217	1.66	69.12	11.65	0.1336
78	3235	4.53	65.31	11.28	0.3339
79	3208	6.57	64.30	12.60	0.5322
80	3269	4.48	66.55	12.43	0.3705
81	3225	3.88	55.35	11.98	0.2572
82	3260	4.21	61.00	13.13	0.3372
83	3207	4.18	54.38	12.16	0.2763
84	3294	4.32	65.49	12.54	0.3547
85	3252	4.35	61.71	11.86	0.3184
86	3204	3.61	60.41	13.61	0.2967
87	3283	3.69	70.15	13.10	0.3391
88	3230	4.38	56.89	14.82	0.3692
89	3274	7.45	61.77	13.36	0.6146

90	3233	3.75	67.49	11.63	0.2944
91	3277	4.46	63.20	12.99	0.3662
92	3290	4.35	72.27	12.27	0.3858
93	3288	4.23	62.93	13.59	0.3617
94	3211	3.52	62.47	10.74	0.2362
95	3201	7.4	55.97	14.54	0.6024
96	3221	5.91	46.41	14.52	0.3983
97	3257	4.2	60.97	15.15	0.3881
98	3224	3.79	50.79	14.22	0.2736
99	3231	4.3	61.24	13.95	0.3672
100	3285	7.52	60.96	14.48	0.6640

Date: 14.07.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 08/105**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	715	4.44	54.96	14.12	0.3445
2	732	7.01	50.28	14.66	0.5166
3	720	7.42	59.76	14.31	0.6344
4	779	4.1	53.29	13.32	0.2911
5	761	4.46	63.29	13.29	0.3751
6	712	8.51	62.46	14.12	0.7506
7	798	4.53	64.45	14.48	0.4226
8	783	7.17	59.19	14.14	0.6001
9	794	4.16	70.76	12.79	0.3765
10	797	7.46	71.99	13.27	0.7124
11	789	7.17	59.20	12.70	0.5392
12	733	8.48	52.02	14.05	0.6199
13	752	7.75	57.66	13.30	0.5944
14	739	7.33	59.98	14.32	0.6296
15	717	8.32	57.53	14.15	0.6772
16	711	7.13	52.33	15.67	0.5847
17	792	3.6	74.77	12.51	0.3366
18	704	8.52	55.33	14.37	0.6773
19	737	7.26	59.17	13.89	0.5968
20	778	7.41	50.58	16.01	0.6002
21	702	8.25	59.96	14.31	0.7078
22	719	4.57	56.57	13.81	0.3569
23	773	7.47	58.20	13.88	0.6036
24	707	8.38	61.92	14.10	0.7316
25	791	7.15	62.54	13.22	0.5913
26	763	7.44	54.74	16.06	0.6540
27	738	8.87	52.23	13.65	0.6324
28	781	4	61.39	15.56	0.3820
29	714	3.93	59.52	13.74	0.3215
30	760	8.52	54.69	14.43	0.6722
31	747	7.26	53.40	14.34	0.5561
32	793	8.32	71.21	13.14	0.7788
33	728	8.37	51.91	15.18	0.6596
34	771	8.63	54.06	15.08	0.7033
35	764	6.67	63.45	14.48	0.6130
36	766	4.51	58.07	14.41	0.3775
37	749	7.39	47.14	16.08	0.5602
38	748	7.38	65.90	13.29	0.6465
39	703	7.41	54.60	14.16	0.5728
40	769	4.3	58.62	13.99	0.3526
41	768	4.69	60.68	13.66	0.3888
42	753	8.44	58.60	14.33	0.7090

43	730	3.31	53.29	14.73	0.2598
44	735	7.19	60.41	15.18	0.6593
45	740	8.71	60.18	12.43	0.6515
46	796	4.28	63.28	13.02	0.3527
47	765	4.29	62.04	14.41	0.3835
48	757	7.39	61.62	13.42	0.6112
49	758	6.94	56.23	14.21	0.5545
50	722	7.65	51.14	15.74	0.6158
51	726	7.82	50.40	15.34	0.6045
52	762	8.81	54.61	15.88	0.7638
53	786	3.57	74.42	12.67	0.3367
54	755	4.29	66.11	12.01	0.3406
55	731	9.14	51.56	15.01	0.7074
56	780	4.36	50.23	16.72	0.3662
57	756	7.31	64.72	14.99	0.7091
58	746	7.15	51.51	16.64	0.6128
59	708	7.06	58.76	10.42	0.4321
60	744	8.75	53.09	15.78	0.7333
61	775	7.32	53.13	11.27	0.4385
62	767	4.36	52.99	11.34	0.2620
63	745	4.11	51.30	13.51	0.2848
64	788	8.59	72.72	10.31	0.6442
65	723	7.28	54.59	11.19	0.4448
66	709	8.54	56.49	12.41	0.5987
67	729	4.17	61.03	12.35	0.3144
68	721	7.4	54.56	12.52	0.5054
69	770	4.3	58.38	12.86	0.3229
70	710	8.4	55.70	14.31	0.6695
71	743	8.68	58.69	14.76	0.7517
72	716	7.27	62.70	13.29	0.6056
73	724	7.03	50.76	14.58	0.5202
74	701	3.57	57.98	15.14	0.3134
75	787	6.97	63.87	13.37	0.5952
76	725	6.81	54.58	14.13	0.5251
77	799	4.36	64.19	13.15	0.3680
78	741	7.33	52.13	16.25	0.6209
79	790	6.84	68.22	12.39	0.5780
80	751	7.15	56.20	14.75	0.5927
81	718	9.07	61.45	12.47	0.6948
82	795	4.3	63.11	12.42	0.3371
83	754	8.71	59.64	12.12	0.6297
84	774	4.07	60.66	14.26	0.3521
85	800	8.54	66.23	12.58	0.7114
86	759	7.22	59.64	14.67	0.6317
87	713	6.53	46.57	15.42	0.4689
88	705	8.61	57.08	15.19	0.7465
89	785	4.35	61.97	13.05	0.3519

90	734	7.01	55.83	13.92	0.5447
91	736	7.38	48.41	14.63	0.5225
92	742	8.41	55.54	14.87	0.6947
93	784	8.45	65.01	15.94	0.8754
94	776	4.95	52.70	14.71	0.3836
95	706	8.58	57.18	15.09	0.7405
96	727	8.37	53.69	14.57	0.6545
97	750	4.27	56.36	13.96	0.3360
98	777	7.3	52.90	14.22	0.5490
99	772	4.63	59.86	13.40	0.3713
100	782	8.65	54.84	14.02	0.6652

Date: 12.07.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 11/146**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1021	7.19	61.15	14.57	0.6406
2	1016	7.45	61.20	14.71	0.6705
3	1083	3.58	53.88	16.00	0.3086
4	1013	4.47	60.00	14.70	0.3943
5	1092	3.55	51.32	14.01	0.2552
6	1066	7.14	58.15	15.96	0.6626
7	1015	7.31	55.19	16.14	0.6513
8	1019	7.06	59.80	14.30	0.6036
9	1037	2.01	50.69	16.31	0.1662
10	1086	3.97	54.32	16.03	0.3458
11	1020	8.51	63.97	14.32	0.7795
12	1009	7.4	56.98	15.53	0.6549
13	1055	2.66	48.16	15.76	0.2019
14	1097	3.2	55.76	15.33	0.2736
15	1039	5.98	60.35	12.39	0.4473
16	1042	7.1	49.70	12.23	0.4317
17	1049	2.3	50.20	14.92	0.1723
18	1040	8.04	57.71	13.07	0.6062
19	1061	1.85	61.86	12.74	0.1458
20	1073	4.44	53.93	13.85	0.3317
21	1094	3.47	41.78	15.63	0.2266
22	1032	3.28	56.39	12.41	0.2296
23	1062	3.98	64.23	12.02	0.3073
24	1068	4.19	52.68	13.38	0.2954
25	1023	4.01	58.09	12.91	0.3008
26	1079	5.07	50.92	14.65	0.3782
27	1036	2.5	66.74	11.73	0.1957
28	1044	6.92	49.09	14.18	0.4816
29	1011	4.82	53.03	13.77	0.3519
30	1031	3.53	54.72	14.66	0.2831
31	1060	6.91	61.99	12.68	0.5431
32	1034	3.33	71.21	11.92	0.2827
33	1047	1.06	54.26	13.88	0.0798
34	1006	4.41	58.12	12.78	0.3277
35	1054	3.68	63.47	12.64	0.2951
36	1075	5.03	57.27	13.10	0.3773
37	1043	8.33	50.40	13.33	0.5598
38	1076	7.71	48.77	11.61	0.4364
39	1093	3.83	52.53	13.46	0.2708
40	1024	6.8	60.40	15.36	0.6310
41	1058	5.89	47.71	15.03	0.4223
42	1051	3.43	47.05	11.18	0.1804



43	1095	3.88	50.63	13.23	0.2600
44	1002	3.91	66.33	11.14	0.2889
45	1041	2.43	62.45	12.19	0.1849
46	1048	7.48	54.53	9.92	0.4047
47	1091	3.46	55.09	10.26	0.1955
48	1018	8.29	55.19	14.30	0.6541
49	1001	8.23	62.73	12.91	0.6666
50	1090	4.04	49.22	13.84	0.2751
51	1025	7.11	51.29	15.66	0.5709
52	1027	3.51	59.02	14.33	0.2969
53	1080	3.72	48.97	14.91	0.2716
54	1099	7.77	60.05	13.76	0.6418
55	1070	3.91	59.80	12.83	0.2999
56	1084	3.95	43.15	15.74	0.2682
57	1029	6.92	52.16	14.40	0.5197
58	1071	3.63	48.79	15.43	0.2733
59	1004	4.08	57.23	14.96	0.3492
60	1089	3.99	54.85	13.91	0.3044
61	1074	9.62	55.99	14.45	0.7783
62	1056	2.57	60.53	16.50	0.2567
63	1007	7.38	55.63	15.30	0.6280
64	1057	6.74	53.65	14.22	0.5143
65	1045	6.83	52.03	14.74	0.5239
66	1012	7.49	58.39	13.08	0.5722
67	1085	4.13	56.76	14.22	0.3333
68	1005	7.16	69.10	12.92	0.6394
69	1087	3.7	65.38	13.02	0.3149
70	1064	4.04	52.95	12.92	0.2763
71	1008	4.26	66.02	11.83	0.3327
72	1030	3.44	61.53	11.54	0.2442
73	1096	9.48	57.03	13.43	0.7262
74	1052	4.93	43.96	14.90	0.3229
75	1059	5.81	44.61	15.51	0.4021
76	1022	4.47	70.38	12.77	0.4019
77	1069	3.46	58.76	11.79	0.2398
78	1100	3.22	48.28	13.73	0.2135
79	1053	6.96	59.16	13.64	0.5617
80	1082	7.7	63.78	12.37	0.6075
81	1017	7.27	55.21	16.08	0.6456
82	1003	8.52	63.46	14.37	0.7770
83	1038	3.03	69.12	13.53	0.2833
84	1014	8.92	49.60	17.06	0.7546
85	1072	9.35	44.44	17.19	0.7143
86	1035	3.53	57.86	12.51	0.2556
87	1081	4.28	51.72	15.47	0.3424
88	1077	3.57	52.77	15.65	0.2949
89	1050	5.91	54.75	13.59	0.4397

90	1067	3.57	61.98	14.96	0.3309
91	1010	3.19	53.94	14.74	0.2536
92	1026	3.91	71.60	13.21	0.3699
93	1046	1.61	51.70	16.32	0.1359
94	1063	4.03	52.68	15.26	0.3240
95	1065	3.92	48.40	14.34	0.2720
96	1028	3.33	54.34	14.70	0.2661
97	1033	6.73	64.35	14.33	0.6205
98	1078	3.7	53.72	14.37	0.2856
99	1098	3.48	51.50	15.13	0.2711
100	1088	3.84	50.03	14.31	0.2749

Date: 05.07.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 50/473**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4917	3.66	64.29	13.52	0.3181
2	4924	3.64	70.75	14.01	0.3607
3	4943	3.45	63.21	14.17	0.3091
4	4946	4.06	52.74	14.56	0.3118
5	4982	3.02	55.47	14.76	0.2473
6	4918	3.67	61.26	14.72	0.3310
7	4959	3.77	60.63	14.00	0.3201
8	4923	3.5	53.62	14.90	0.2796
9	4950	4.13	56.17	15.38	0.3568
10	4929	3.83	60.15	14.65	0.3374
11	4975	3.52	61.65	12.57	0.2728
12	4901	6.94	62.88	13.17	0.5746
13	4955	3.58	66.07	14.05	0.3322
14	4958	3.5	59.84	14.35	0.3006
15	4911	7.01	56.74	14.47	0.5755
16	4961	3.64	65.99	12.93	0.3105
17	4907	3.92	55.73	14.66	0.3203
18	4905	4.19	57.61	14.79	0.3570
19	4989	3.4	64.74	13.78	0.3033
20	4970	3.95	59.35	12.96	0.3038
21	4902	4.05	61.39	13.67	0.3398
22	4974	3.9	65.94	11.92	0.3065
23	4912	3.41	53.17	15.01	0.2721
24	4978	3.76	65.59	12.56	0.3098
25	4938	3.89	59.07	14.68	0.3373
26	4984	3.44	69.37	10.12	0.2415
27	4969	4.58	62.00	11.53	0.3275
28	4914	3.76	66.66	13.10	0.3282
29	4971	3.63	58.56	14.24	0.3027
30	4954	3.54	52.21	14.29	0.2641
31	4927	3.48	64.70	13.01	0.2930
32	4967	3.55	57.10	13.22	0.2680
33	4962	3.61	51.91	12.48	0.2339
34	4926	4.25	61.44	12.42	0.3243
35	4960	3.44	66.35	13.25	0.3024
36	4956	3.48	58.73	12.89	0.2634
37	4963	3.74	62.14	13.37	0.3108
38	4966	3.55	58.38	14.11	0.2925
39	4988	3.67	56.57	13.93	0.2892
40	4909	4.3	55.15	14.81	0.3513
41	4908	3.61	55.18	13.83	0.2754
42	4941	3.45	55.34	13.88	0.2650

43	4906	5.8	56.32	14.51	0.4739
44	4964	3.77	62.58	14.37	0.3389
45	4939	3.64	67.19	13.11	0.3207
46	4972	3.66	46.80	14.66	0.2511
47	4933	3.6	55.39	13.97	0.2786
48	4976	3.41	56.05	15.54	0.2970
49	4957	3.71	64.34	13.52	0.3228
50	4949	7.09	62.48	12.92	0.5722
51	4952	3.49	64.75	14.67	0.3316
52	4968	3.46	54.11	12.75	0.2387
53	4910	4.13	60.50	14.66	0.3663
54	4934	3.58	57.04	14.46	0.2953
55	4936	3.5	69.11	14.85	0.3591
56	4921	3.7	52.97	13.99	0.2742
57	4915	3.66	60.09	12.66	0.2785
58	4979	3.43	70.45	10.45	0.2524
59	4965	3.62	62.79	11.91	0.2708
60	4948	3.99	52.93	14.57	0.3076
61	4932	3.9	61.89	12.86	0.3104
62	4919	3.58	64.54	14.01	0.3236
63	4973	3.45	49.31	15.13	0.2574
64	4931	3.45	53.76	12.20	0.2263
65	4951	3.57	56.30	14.88	0.2992
66	4922	3.6	52.85	15.61	0.2970
67	4983	3.54	63.80	12.35	0.2790
68	4981	4.35	62.88	12.50	0.3419
69	4953	3.71	58.56	12.50	0.2716
70	4916	3.38	56.28	14.68	0.2792
71	4930	3.87	68.11	13.63	0.3591
72	4944	4.12	55.04	14.64	0.3321
73	4987	3.42	67.34	11.85	0.2729
74	4977	3.64	48.62	15.16	0.2683
75	4945	6.98	67.33	12.85	0.6038
76	4942	3.56	62.52	14.46	0.3218
77	4925	3.62	57.47	15.52	0.3229
78	4990	3.5	57.90	14.04	0.2846
79	4903	3.73	60.48	11.64	0.2626
80	4937	3.54	55.58	14.99	0.2949
81	4991	3.31	64.82	13.27	0.2847
82	4986	3.35	60.54	14.75	0.2992
83	4947	3.55	69.68	13.12	0.3245
84	4913	3.56	62.86	13.54	0.3030
85	4980	3.22	64.74	13.73	0.2863
86	4928	3.59	61.62	13.08	0.2894
87	4935	3.68	58.70	14.62	0.3157
88	4940	3.53	52.59	15.00	0.2785
89	4920	3.82	58.00	14.66	0.3247

90	4985	3.71	66.15	12.80	0.3142
91	4904	4.3	55.21	15.49	0.3677

Date: 01.07.2022

**अस्वीकरण:—**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 02/10**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	193	3.91	60.07	12.84	0.3015
2	138	8.67	65.24	12.43	0.7031
3	144	6.78	53.20	14.83	0.5349
4	107	8.47	69.68	12.11	0.7149
5	153	8.93	63.34	12.33	0.6974
6	110	8.7	63.63	13.37	0.7404
7	118	6.73	62.44	11.88	0.4994
8	180	3.59	59.72	13.25	0.2840
9	109	4.21	54.74	13.92	0.3208
10	170	6.49	50.89	12.81	0.4231
11	141	8.86	65.73	14.77	0.8603
12	167	7.61	58.72	12.16	0.5434
13	192	9.12	64.40	13.73	0.8062
14	187	7.81	58.85	13.10	0.6022
15	175	8.62	56.20	14.13	0.6844
16	165	9.69	67.27	10.75	0.7006
17	128	3.88	48.88	14.40	0.2732
18	125	3.89	55.70	10.11	0.2190
19	145	8.64	52.93	13.26	0.6065
20	126	4.07	55.23	14.41	0.3240
21	171	8.33	60.82	12.51	0.6339
22	157	7.42	62.73	11.99	0.5580
23	164	3.43	64.87	13.35	0.2970
24	174	7.05	57.02	13.22	0.5316
25	191	4.04	63.54	12.95	0.3325
26	195	9.3	63.34	12.39	0.7301
27	169	8.66	65.39	11.87	0.6720
28	131	8.64	62.33	13.99	0.7534
29	190	3.99	64.97	13.87	0.3595
30	163	8.69	68.67	13.03	0.7778
31	181	7.47	66.40	12.17	0.6036
32	120	9.04	58.86	11.77	0.6265
33	173	4.22	57.15	13.51	0.3258
34	140	3.39	62.52	12.94	0.2743
35	151	8.7	62.37	12.65	0.6864
36	183	8.67	63.88	13.53	0.7491
37	166	6.72	61.19	13.03	0.5356
38	101	4.49	63.42	13.23	0.3767
39	135	8.35	71.10	12.80	0.7599
40	103	4.29	61.63	12.83	0.3393
41	119	4.4	62.18	11.72	0.3208
42	189	7.58	61.98	12.50	0.5874

43	108	3.77	63.97	10.54	0.2541
44	112	8.71	61.71	13.03	0.7003
45	194	3.8	59.04	13.89	0.3116
46	136	8.87	62.26	12.35	0.6821
47	162	8.45	61.76	14.18	0.7402
48	127	7.62	44.84	16.44	0.5616
49	106	8.62	61.25	13.93	0.7353
50	156	7.55	59.96	14.13	0.6395
51	188	4.08	54.41	15.13	0.3358
52	123	9.22	38.54	15.85	0.5633
53	146	3.43	51.95	16.23	0.2891
54	182	3.49	64.89	14.96	0.3389
55	176	7.16	47.40	17.09	0.5800
56	155	6.63	52.22	17.68	0.6119
57	114	4.58	56.24	16.68	0.4296
58	105	8.51	49.51	16.36	0.6893
59	137	7.39	48.86	17.07	0.6163
60	148	7.43	52.14	18.37	0.7118
61	116	8.62	64.90	14.50	0.8111
62	197	4.84	61.97	12.64	0.3790
63	143	6.98	64.88	13.46	0.6094
64	121	7.43	58.79	14.14	0.6174
65	147	7.99	63.23	13.76	0.6951
66	177	7.34	62.35	14.10	0.6452
67	139	6.97	63.96	14.68	0.6545
68	172	6.02	57.95	13.99	0.4882
69	124	3.68	57.35	14.82	0.3128
70	150	7.38	63.75	14.18	0.6672
71	149	9.28	61.10	13.47	0.7637
72	185	3.77	62.67	13.55	0.3201
73	102	4.39	66.63	13.16	0.3850
74	154	7.28	71.45	13.46	0.7003
75	115	8.78	56.33	14.02	0.6936
76	186	8.76	51.61	16.39	0.7411
77	168	8.82	62.01	13.32	0.7285
78	198	7.33	59.47	15.39	0.6707
79	122	4.73	66.98	9.88	0.3131
80	184	6.9	50.61	15.45	0.5396
81	134	8.3	58.19	13.32	0.6432
82	133	7.29	60.78	14.66	0.6495
83	129	7.66	49.93	12.24	0.4680
84	111	7.35	61.19	13.12	0.5902
85	158	7.17	70.37	11.54	0.5822
86	152	7.21	59.00	11.92	0.5069
87	199	4.04	59.59	12.67	0.3050
88	113	7.4	71.51	11.44	0.6053
89	196	4	60.31	14.92	0.3600

90	179	8.83	68.25	12.31	0.7417
91	178	7.11	56.88	14.15	0.5724
92	200	8.57	56.34	15.16	0.7319
93	117	7.28	59.44	12.60	0.5453
94	159	6.51	61.13	14.51	0.5774
95	161	4.15	61.55	12.48	0.3187
96	130	7.5	51.16	14.70	0.5640
97	160	6.7	64.97	13.73	0.5976
98	142	8.53	62.00	12.69	0.6713
99	104	3.61	60.61	12.79	0.2798
100	132	7.18	59.16	14.20	0.6031

Date: 27.06.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Mandsaur-II****Challan No. : 07/104**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	650	3.55	63.33	12.85	0.2890
2	694	7.24	61.02	14.29	0.6313
3	634	4.5	64.51	11.87	0.3447
4	651	8.7	59.25	12.71	0.6551
5	608	4.48	61.66	12.75	0.3521
6	629	7.35	66.46	14.20	0.6938
7	698	7.5	57.08	13.30	0.5693
8	643	4.43	60.26	11.92	0.3181
9	672	7.44	59.17	12.93	0.5692
10	677	8.86	65.15	13.31	0.7682
11	660	9.31	58.79	13.34	0.7299
12	652	7.21	61.93	12.80	0.5718
13	611	6.89	61.22	10.76	0.4541
14	605	7.17	64.92	13.62	0.6338
15	619	7.27	59.62	12.55	0.5438
16	641	4.48	65.00	12.75	0.3714
17	612	4.2	55.54	13.56	0.3163
18	662	4.29	54.39	14.49	0.3381
19	604	7.56	58.27	12.01	0.5292
20	692	7.57	55.55	14.06	0.5912
21	649	9.1	59.65	12.93	0.7016
22	684	3.82	63.00	11.49	0.2766
23	625	6.92	66.67	12.54	0.5785
24	642	7.67	61.87	12.57	0.5967
25	661	9.14	64.42	11.19	0.6590
26	616	7.42	56.68	14.56	0.6122
27	636	7.45	60.74	13.58	0.6146
28	632	4.57	58.72	14.88	0.3994
29	613	4.13	62.10	14.20	0.3643
30	633	3.68	60.32	13.46	0.2988
31	663	4.45	67.66	12.55	0.3778
32	624	8.61	69.99	13.82	0.8326
33	686	7.28	55.78	14.52	0.5897
34	656	7.14	50.66	14.82	0.5362
35	690	7.23	51.50	14.39	0.5357
36	670	7.29	56.71	14.14	0.5847
37	680	7.05	65.02	13.26	0.6077
38	654	8.76	52.50	14.78	0.6798
39	689	8.73	67.34	13.69	0.8049
40	687	4.44	67.43	13.26	0.3969
41	664	8.49	59.41	13.82	0.6970
42	607	7.04	57.67	13.51	0.5484

43	676	7.11	62.79	13.82	0.6171
44	682	8.85	66.46	12.59	0.7407
45	638	7.37	62.41	13.72	0.6309
46	640	8.98	60.62	13.51	0.7355
47	683	9.11	57.79	13.60	0.7160
48	620	8.73	66.81	12.48	0.7281
49	659	8.47	59.34	13.63	0.6852
50	606	7.69	56.56	14.36	0.6244
51	699	9.25	55.86	14.45	0.7465
52	645	4.03	53.43	14.21	0.3059
53	674	8.42	71.48	13.46	0.8100
54	644	7.01	62.71	13.81	0.6071
55	622	9.28	55.58	13.48	0.6951
56	667	7.32	54.52	13.41	0.5351
57	630	4.62	63.06	12.62	0.3678
58	671	4.28	60.11	14.07	0.3621
59	700	6.89	63.77	13.53	0.5946
60	628	7.44	65.68	14.88	0.7269
61	665	8.74	53.44	13.96	0.6520
62	623	9.42	59.27	13.16	0.7348
63	678	8.99	67.82	5.06	0.3084
64	601	3.74	64.86	13.06	0.3168
65	602	7.05	53.76	14.08	0.5337
66	621	7.01	60.67	12.63	0.5370
67	679	8.4	67.85	13.62	0.7762
68	666	8.95	60.48	12.86	0.6963
69	668	8.78	63.41	12.62	0.7024
70	614	6.41	62.28	14.50	0.5788
71	695	7.58	50.86	13.57	0.5230
72	609	7.31	65.24	12.66	0.6038
73	681	7	61.61	13.26	0.5719
74	658	7.38	70.36	12.24	0.6354
75	655	7.44	60.88	14.49	0.6562
76	691	3.78	62.50	12.69	0.2998
77	615	8.3	65.72	13.72	0.7487
78	647	4.33	64.87	11.99	0.3369
79	635	4.29	64.49	12.23	0.3385
80	653	8.19	63.77	13.27	0.6929
81	673	8.25	68.99	12.48	0.7103
82	693	4.61	64.74	12.84	0.3831
83	675	8.4	57.46	13.49	0.6510
84	696	7.08	52.77	13.02	0.4864
85	669	7.36	65.55	11.62	0.5608
86	626	6.88	67.12	12.80	0.5910
87	688	7.25	54.97	11.50	0.4582
88	697	8.8	59.56	12.83	0.6723
89	639	7.45	61.51	13.36	0.6124

90	618	4.67	68.36	11.72	0.3741
91	657	7.32	60.57	10.88	0.4824
92	685	8.84	58.91	12.15	0.6329
93	603	8.21	62.94	14.30	0.7389
94	631	7.49	66.88	13.17	0.6599
95	627	4.22	64.18	13.52	0.3663
96	646	7.42	62.16	12.21	0.5632
97	617	8.81	60.25	12.51	0.6643
98	648	6.46	44.98	14.27	0.4147
99	610	7.3	64.82	13.04	0.6169
100	637	7.36	60.73	12.71	0.5682

Date: 24.06.2022

**अस्वीकरण:—**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।